



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27—सितम्बर 2, 2005 (भाद्रपद 5, 1927)  
No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27—SEPTEMBER 2, 2005 (BHADRA 5, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 2005

सं. 412, दिनांक 22 जुलाई 2005—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक  
वैयक्तिक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

मुख्य अवैतनिक वायु सेना एडीसी--29 अप्रैल 2005 से प्रभावी

एयर चीफ मार्शल एस पी त्यागी, प वि से मै, अ वि से मै, वी मै (8130)  
एफ(पी)

अवैतनिक वायु सेना एडीसी--29 अप्रैल 2005 से प्रभावी

एयर मार्शल एस के जैन, प वि से मै, अ वि से मै, वी मै  
(9716) एफ(पी)

मुख्य अवैतनिक थल सेना एडीसी--29 अप्रैल 2005 से प्रभावी

आई सी-16078 जनरल जे जे सिंह, प वि से मै, अ वि से मै, वि से मै,  
ए डी सी, थलसेनाध्यक्ष

अवैतनिक थल सेना एडीसी (आर्मड कोर)--29 अप्रैल 2005 से प्रभावी

आई सी-16234 लै जनरल बी एस ठाकुर, प वि से मै, अ वि से मै

अवैतनिक थल सेना एडीसी (इंफैंट्री)--29 अप्रैल 2005 से प्रभावी

आई सी-16620 लै जनरल के नागराज, प वि से मै, उयु से मै

अवैतनिक थल सेना एडीसी (आर्टिलरी)--29 अप्रैल 2005 से प्रभावी

आई सी-17206 लै जनरल ए एस जमवाल, अ वि से मै, \* वि से मै

अवैतनिक थल सेना एडीसी (ए एस सी/ए ओ सी/ई एम ई)--29 अप्रैल  
2005 से प्रभावी

आई सी-16309 लै जनरल टी ए डी कुन्हा (ए ओ सी)

एस. डी. बांगा  
अवर सचिव

सं. 413, दिनांक 27 जुलाई 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को  
उनके नाम के सामने दी गई तिथि से भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या  
वा से मु/22258/1/पी ओ 3(ए)/1611/डी ओ आई ए/डी (एयर-III) दिनांक  
29 अक्टूबर 82 के उपबन्धों के तहत औपबन्धिक अल्प सेवा कमीशन प्रदान  
करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर प्रीतम सेठी (27824), राजन विश्वकर्मा (27825),  
अर्पणा मिश्रा (27826), महेन्द्रन नागराज (27827), विनोद संजीव

(27828), निखिल एम (27829), हर्षवर्धन एस कोटुर (27830), सौरभ मोहन (27831)--दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर अभिनन्दन दास (27848), नवीन कुमार जयराम (27849), संदीप देबगाथ (27850), सम्पत कृष्णन मुथुवेल (27851), विक्रम छिब्वर (27852), पंकज कुमार पांथी (27853), तुषार रस्तोगी (27854), वन्हललांग दरवार गिरि (27855), अभिषेक सिंह (27856), मनीष कुमार वर्मा (27857), निमिता कौरा (27858), अनुपम कपूर (27859), नयन कुमार सेन (27860), सजद खान (27861), रवि कुमार बाजिया (27862), रविशंकर पाटिल (27863), अभिषेक त्यागी (27864), चिन्तन खन्ना (27865), नितिन बक्शी (27866), प्रसाद कालयत थाजाथु वीटिल (27867), बलजीत सिंह आनन्द (27868), वैध्यानाथन मगेश (27869), नागराज कट्टियन (27870), विहंग प्रमोद नाडकर्णी (27871), किशोर राजु गांधी राजु (27872), सुधीर परमेश्वरन (27873), गौरव शर्मा (27874), परसेनजीत प्रमानिक (27876), गिरीश चन्द्रा मण्यपाल (27877), मेदुल गुप्ता (27878), पंकज राजैन (27879), मनीष रस्तोगी (27880), अब्राहम जेकरब (27881), एम चन्दु (27882), अमरदीप सिंह (27883), रोहित आनन्द (27884), राधाकृष्णन रविन्द्रनाथ सेन्थिल कुमार (27885), आशीश कर्ण (27886), मनु गोपाल (27887), सुमित शर्मा (27888), दीपक कृष्णनन्दा प्रभु (27889), गौरव द्विवेदी (27890), निशान्त वर्मा (27891), अनौरबन मैत्रा (27892), गणेश कनन कनन (27893)--दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तिथि से वायु सेना आदेश 59/98 के उपबन्धों के तहत अल्प सेवा कमीशन परखाधीन प्रदान करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर गोपालकृष्णन वेनु कुरूप (27832), बसिल ओस्कर रेबेरो (27833), जहागीरधर निलेश गोविन्द (27834), अनिल कुमार (27835), नरेलड़ा विश्वनाथ (27836), सुरेश कुमार (27837), कमिली श्री फानी कुमार (27838), हजारे मनोज रामराव (27839), नगेन्द्र डी ए (27840), युद्धवीर सिंह (27841), विशाल गोयल (27842), राजारतिनम कार्तिक (27843), हिकारे सचिन भीमराव (27844), नटराजन राजागोपाल (27845), समीर सुधीर देशमुख (27846), रामाचन्द्रन प्रदीप (27847), दिनांक 05 जनवरी 2004 से, फ्लाईंग अफसर शिशिर चतुर्वेदी (27926), दिनांक 12 जनवरी 2004 से, फ्लाईंग अफसर आनन्द दत्त (27932), गोला जोशव (27933), दिनांक 21 जनवरी 2004 से फ्लाईंग अफसर सन्नी व्यास (27934)--दिनांक 22 जनवरी 2004 से।

वैमानिक अभियांत्रिकी (इलेक्ट्रिकल) शाखा

फ्लाईंग अफसर डी मेलो फ्रान्सिस मैथ्यू (27894), उपद्रस्ता विद्यासागर लक्ष्मया (27895), आर यशवंतराज (27896), अरुण सिंह (27897), एम धनसेकर (27898), मुकुल कैयस्या (27899), अब्दुल रहमान (27900), श्रीकान्त पी ए (27901), मनीष दहिया (27902), सचिन सदाशिवम (27903), आशीश तिवारी (27904), तेजीन्द्र सिंह बाथ (27905), टी अरुण प्रसाद (27906), अर्जुन जाधव (27907), विटस सुसन विनसेन्ट (27908), रजनीश थोय (27909), दीप्तिमन मुखी भट्ट्याचार्या

(27910), गौरव रामकृष्णा करनदीकर (27911), धर्मवीर (27912), चुदसमा नरेन्द्र सिंह जुवान सिंह (27913), सौरभ कालरा (27914), योगेश परिहार (27915), तरुण शक्ति दहिया (27916), सचिन रोम जोहन (27917), अभिनव शुक्ला (27918), पृथ्वीराज सिंह चौहान (27919), तुषार जोशी (27920), विनीत गर्ग (27921), सतीश कुमार पाण्डरी (27922), पुरणदेव ओझा (27923), विश्वदीप दास (27924), गिरीश कृष्णानन (27925)--दिनांक 05 जनवरी 2004 से।

फ्लाईंग अफसर सौरभ सिंह चौहान (27927), सुरदीपनाथ (27928), काशीनाथन रामचन्द्रनन (27929), कतोल बोस (27930), कार्तिक सुब्रमनियम (27931)--दिनांक 12 जनवरी 2004 से।

संजीव श्रीवास्तव  
विंग कमाण्डर  
जेडीपीओ 3(डी)

(थल सेना विभाग)

सं. 414, दिनांक 21 जुलाई 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार (जी डी) बलबीर सिंह (जेसी-347097ए), 13 सितम्बर 2004

सूबेदार (जी डी) सतीश जाधव (जेसी-347195ए), 17 सितम्बर 2004

सूबेदार (जी डी) चंद्रकांत कोंडीराम शिंदे (जेसी-347123डब्ल्यू), 17 सितम्बर 2004

सूबेदार (जी डी) करनैल सिंह (जेसी-347160के), 05 अक्टूबर 2004

सूबेदार (जी डी) इकबाल अहमद खान (जेसी-347157के), 30 सितम्बर 2004

सूबेदार (जी डी) गुरमीत सिंह (जेसी-216103एम), 22 दिसम्बर 2004

सूबेदार (जी डी) रणधीर सिंह (जेसी-347179एच), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुखजिंदर सिंह (जेसी-216128वाई), 08 जनवरी 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) अमरनाथ धीमन (जेसी-216117एम), 08 जनवरी 2005

सूबेदार (क्लर्क जी डी) राजाराम (जेसी-347141वाई), 03 दिसम्बर 2004

सूबेदार (क्लर्क जी डी) सुराम चंद (जेसी-347004ए), 04 अक्टूबर 2004

सूबेदार (क्लर्क जी डी) बंसी लाल (जेसी-347044एफ), 25 अक्टूबर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) जय चंद्र सिंह ( जेसी-347035ए ), 19 नवम्बर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) महेश सिंह ( जेसी-347117एच ), 17 नवम्बर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) बशेश सिंह ( जेसी-347058एफ ), 25 अक्टूबर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) गुरमेश सिंह धैया ( जेसी-347013एफ ), 03 दिसम्बर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) विनोद कुमार अवस्थी ( जेसी-347086एन ), 04 सितम्बर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) किशन सिंह ( जेसी-347045के ), 06 अक्टूबर 2004

सूबेदार ( क्लर्क जी डी ) अर्जन सिंह ( जेसी-347183एल ), 16 दिसम्बर 2004

#### सूबेदार ( जी डी ) के रैंक में

नायब सूबेदार ( जी डी ) जितेंद्रनाथ शुक्ला ( जेसी-348975एक्स ), 24 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) राजेंद्र सिंह ( जेसी-348978एल ), 13 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) बलदेव सिंह ( जेसी-349001के ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) भवन सिंह ( जेसी-349045एच ), 20 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) विजय कुमार दत्ता ( जेसी-348958एक्स ), 22 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) निकम चंद्रसेन पांडुरंग ( जेसी-348997डब्ल्यू ), 16 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) अब्दुल गफर ( जेसी-348921डब्ल्यू ), 20 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) दरबारा सिंह ( जेसी-348876पी ), 06 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) प्रीतम सिंह ( जेसी-348916एल ), 13 अगस्त 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) निपाने शामसुंदर जीजाबा ( जेसी-348959ए ), 21 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) राघमोडे पांडुरंग निवृत्तिराव ( जेसी-348965एन ), 22 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) कुरबान अली ( जेसी-349004वाई ), 10 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) तुलसी प्रसाद ( जेसी-348968एफ ), 13 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) अवदेश कुमार शुक्ला ( जेसी-348960पी ), 26 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) करमरकर उमराव चेपाजी ( जेसी-348962ए ), 26 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) निकम सुभाष नारायण ( जेसी-349022एफ ), 16 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) ललित बहादुर थापा ( जेसी-348995एल ), 08 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) मंगलाराम विशनोई ( जेसी-348956एम ), 24 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) मुख्त्यार सिंह ( जेसी-349046एल ), 16 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) एम अंबुचेजियन ( जेसी-348979एन ), 06 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) हरी रंभ ( जेसी-348825एफ ), 07 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) तेजपाल सिंह ( जेसी-348977एच ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) रमेश कुमार ( जेसी-349000एच ), 09 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) राम प्रकाश श्रीवास ( जेसी-349003डब्ल्यू ), 09 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) मनजीत सिंह ( जेसी-348966डब्ल्यू ), 25 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) साबीर खान ( जेसी-348867एन ), 09 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) भवर विजय भीमराव ( जेसी-349047एन ), 25 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) शमसुद्दीन ( जेसी-348913एक्स ), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) राजबीर सिंह ( जेसी-348981एल ), 17 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) मान सिंह ठाकुर ( जेसी-348970वाई ), 27 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) चरन सिंह ( जेसी-349006के ), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) सोम दत्त ( जेसी-348815एक्स ), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार ( जी डी ) देव राज नीरू ( जेसी-348963एच ), 06 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) नेजर सिंह (जेसी-348980एच), 07 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) हतजिंदर सिंह (जेसी-349016एन), 03 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) बहादुर सिंह कुम्हार (जेसी-348305डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) जसबीर सिंह (जेसी-348754एल), 15 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) गुलजार सिंह (जेसी-348976ए), 03 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) सत्यबीर सिंह (जेसी-349005एफ), 03 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) शिंदे माणिकराव शामराव (जेसी-349018वाई), 02 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) जगीर सिंह (जेसी-349021वाई), 02 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) रशपाल सिंह (जेसी-348967वाई), 05 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) जज सिंह (जेसी-348961एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (जी डी) मेजर सिंह (जेसी-348767एच), 16 सितम्बर 2004

सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) बाबु राम (जेसी-348698एक्स), 17 दिसम्बर 2004

सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) नुटा राम (जेसी-348433एन), 06 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुरेश कुमार (जेसी-348399वाई), 04 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) पुरन सिंह (जेसी-348384 डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सुभाष चंद्र (जेसी-348412एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सत्यवीर सिंह (जेसी-348382एल), 18 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) शिशुपाल सिंह (जेसी-348385वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) खोंडरे बालु आबा (सं. 1558236वाई अब जेसी-349927के), 23 फरवरी 2004

हवलदार (क्लर्क जीडी) सुरजमल (सं. 1572359डब्ल्यू अब जेसी-349938एम), 22 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) निकम तानाजी शंकर (सं. 1572439एन अब जेसी-349931एम), 08 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) आजाद सिंह (सं. 1572442एन अब जेसी-349934ए), 29 दिसम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क जीडी) राज कुमार भंडराल (सं. 1572465पी अब जेसी-349935एच), 20 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) जेठा राम (सं. 1568227एल अब जेसी-349940एन), 20 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क जीडी) विजय शंकर प्रसाद (सं. 1557975वाई अब जेसी-349941डब्ल्यू), 24 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क जीडी) सत्यवान (सं. 1572476एफ अब जेसी-349942वाई), 28 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क जीडी) मगडूम राजेन्द्र सदाशिव (सं. 1572481एम अब जेसी-349943एफ), 25 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) तनवर प्रेम चंद निरंजन लाल (सं. 1570642एल अब जेसी-349950एक्स), 25 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क जीडी) श्याम वीर (सं. 1572488डब्ल्यू अब जेसी-349951ए), 21 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) कुलवंत सिंह (सं. 1558543डब्ल्यू अब जेसी-349929पी), 12 जनवरी 2005

हवलदार (जीडी) मनोहर सिंह (सं. 1559844एम अब जेसी-349930के), 17 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) यशबीर सिंह (सं. 1567557एक्स अब जेसी-349932पी), 28 दिसम्बर 2004

हवलदार (जीडी) गुरजंत सिंह (सं. 1568487डब्ल्यू अब जेसी-349933एक्स), 04 जनवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) गुरदेव सिंह (सं. 1555905एफ अब जेसी-349936एल), 27 दिसम्बर 2004

हवलदार (जीडी) वनी नारायण मारुति (सं. 1558070एच अब जेसी-349937एन), 23 दिसम्बर 2004

हवलदार (जीडी) जितेंद्र पाल सिंह (सं. 1558272के अब जेसी-349938डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2004

हवलदार (जीडी) हरी सिंह (सं. 1574956के अब जेसी-349939वाई), 20 दिसम्बर 2004

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) गुरमीत सिंह (सं. 1558671एन अब जेसी-349944के), 05 फरवरी 2005

हवलदार (जीडी) अल्लाबचया मिरासी (सं. 1558841एम अब जेसी-349945एम), 05 फरवरी 2005

हवलदार (जीडी) खामकर भीमराव दत्तात्रय (सं. 1559253एल अब जेसी-349946पी), 11 फरवरी 2005

हवलदार (जीडी) सुनील मोतीराम जोगी (सं. 1554778एल अब जेसी-349947एक्स), 05 फरवरी 2005

हवलदार (जीडी) मंसूर अनसारी (सं. 1556550एन अब जेसी-349948ए), 12 फरवरी 2005

हवलदार (जीडी) रूलडा राम (सं. 1557922ए अब जेसी-349949एच), 10 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) अशोक बापुराव सतपुते (सं. 1559182पी अब जेसी-349952एच), 05 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) लक्ष्मण रामचंद्र सकपाल (सं. 1559268एन अब जेसी-349953एल), 05 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) गुरजंत सिंह (सं. 1559044एन अब जेसी-349960एफ), 25 फरवरी 2005

हवलदार (जीडी) दर्शन सिंह (सं. 1556929एक्स अब जेसी-349961के), 11 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) इथापे रामदास नानाभाऊ (सं. 1559215पी अब जेसी-349962एम), 12 फरवरी 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) राकेश चंद्र पांडे (सं. 1558632पी अब जेसी-349965ए), 07 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) जाधव राजाराम बाबुराव (सं. 1559344पी अब जेसी-349966एच), 12 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) बहादुर सिंह (सं. 1567785ए अब जेसी-349967एल), 09 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) रावेल सिंह (सं. 1567796एम अब जेसी-349968एन), 14 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) दविंद्र सिंह (सं. 156843ए अब जेसी-349969डब्ल्यू), 10 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) अयुब खान (सं. 1568763एन अब जेसी-349970एल), 15 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) साने सुभाष सिदु (सं. 1568905ए अब जेसी-349971एन), 13 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) सरबजीत सिंह (सं. 1569024एन अब जेसी-349972डब्ल्यू), 15 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) मेजर सिंह (सं. 1569879डब्ल्यू अब जेसी-349973वाई), 12 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) मलकीत सिंह (सं. 1572462एफ अब जेसी-349974एफ), 21 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) चरनजीत सिंह (सं. 1580015एम अब जेसी-349975के), 10 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) हरबंस सिंह (सं. 1556633वाई अब जेसी-349976एम), 11 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) तरसेम सिंह (सं. 1557259एन अब जेसी-349977पी), 10 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) होशियार सिंह (सं. 1558585एच अब जेसी-349978एक्स), 13 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार (सं. 1574846पी अब जेसी-349979ए), 12 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) कशमीर सिंह (सं. 1556760एन अब जेसी-349980पी), 17 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) सुभाष चंद्र राम खोत (सं. 1557661एक्स अब जेसी-349981एक्स), 10 मार्च 2005

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) कमरुद्दीन (सं. 1555318डब्ल्यू अब जेसी-349984एल), 29 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) मोथा सिंह (सं. 1555459एल अब जेसी-349985एन), 25 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) मोहम्मद लीक (सं. 1555550एफ अब जेसी-349986डब्ल्यू), 28 मार्च 2005

हवलदार (जीडी) सुधा सिंह (सं. 1555886एफ अब जेसी-349987वाई), 22 मार्च 2005	सूबेदार (क्लर्क जीडी) हीरा सिंह (जेसी-347182एच), 01 दिसम्बर 2004
हवलदार (जीडी) सुभाष चंद्र (सं. 1556821ए अब जेसी-349988एफ), 25 मार्च 2005	सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रमोद कुमार राय (जेसी-347124वाई), 03 मार्च 2005
हवलदार (जीडी) कुलदीप सिंह (सं. 1557280डब्ल्यू अब जेसी-349989के), 18 मार्च 2005	सूबेदार (क्लर्क जीडी) जगननाथ (जेसी-347112के), 04 फरवरी 2005
हवलदार (जीडी) उभे मोहन बालु (सं. 1559152एक्स अब जेसी-349990वाई), 23 मार्च 2005	सूबेदार (क्लर्क जीडी) राज सिंह (जेसी-224996ए), 08 नवम्बर 2004
हवलदार (जीडी) विनोद कुमार शर्मा (सं. 1571036एफ अब जेसी-349991एफ), 28 मार्च 2005	सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)	सूबेदार (जीडी) आंशिक अली (जेसी-347216एल), 21 मार्च 2005
नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में	सूबेदार (जीडी) नेताजी पांडुरंग इंगले (जेसी-347080एम), 21 फरवरी 2005
हवलदार (क्लर्क जीडी) शंभु दयाल (सं. 1570030एन अब जेसी-349959एम), 28 फरवरी 2005	सूबेदार (जीडी) निर्मल सिंह (जेसी-347277एच), 02 मार्च 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	सूबेदार (जीडी) हाकम सिंह (जेसी-347237एफ), 15 जनवरी 2005
हवलदार (क्लर्क जीडी) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव (सं. 1572482पी अब जेसी-349964एक्स), 09 फरवरी 2005	सूबेदार (जीडी) मुसाहब अली (जेसी-347224के), 02 फरवरी 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)	सूबेदार (जीडी) कुलदीप सिंह (जेसी-347094एम), 11 सितम्बर 2004
हवलदार (क्लर्क जीडी) जसबीर सिंह (सं. 1572629ए अब जेसी-349983एच), 28 मार्च 2005	सूबेदार (जीडी) साधु सिंह (जेसी-347218डब्ल्यू), 10 फरवरी 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)	सूबेदार (जीडी) रामदीन प्रसाद (जेसी-347357ए), 27 जनवरी 2005
हवलदार (क्लर्क जीडी) मुरली के के (सं. 1572830एल अब जेसी-349992के), 2 अप्रैल 2005	सूबेदार मेजर (एसकेटी) के रैंक में
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)	सूबेदार (एसकेटी) माम चंद्र (जेसी-347360ए), 09 फरवरी 2005
हवलदार (क्लर्क जीडी) बलबीर सिंह (सं. 1575205पी अब जेसी-349963पी), 09 मार्च 2005	सूबेदार (एसकेटी) जोगिन्दर सिंह (जेसी-347359एल), 10 फरवरी 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)	सूबेदार (क्लर्क जीडी) के रैंक में
हवलदार (एसकेटी) कुलबीर सिंह (सं. 1575648डब्ल्यू अब जेसी-349982ए), 06 फरवरी 2005	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सागर चंद्र (जेसी-348659वाई), 04 अप्रैल 2005
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) प्रेम पाल (जेसी-348436एफ), 05 फरवरी 2005
सूबेदार मेजर (क्लर्क जी डी) के रैंक में	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) राम चंद्र लारवाल (जेसी-348456पी), 03 फरवरी 2005
हवलदार (एसकेटी) गिदालुरी रंगनाथा (जेसी-347181ए), 02 फरवरी 2005	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) मोहन लाल डोगरा (जेसी-348454के), 24 जनवरी 2005
	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) सवरन सिंह (जेसी-348460एक्स), 18 फरवरी 2005
	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) अनिल कुमार टी वी (जेसी-348457एक्स), 21 दिसम्बर 2004
	नायब सूबेदार (क्लर्क जीडी) जगदीश बाबु (जेसी-348462एच), 17 फरवरी 2005
	सूबेदार (जीडी) के रैंक में
	नायब सूबेदार (जीडी) हरदयाल सिंह (जेसी-349017डब्ल्यू), 18 मार्च 2005

नायब सूबेदार (जीडी) बहादुर सिंह (जेसी-348831पी), 22 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) अशोक गोंविंद सकपाल (जेसी-349010एम), 02 मार्च 2005

नायब सूबेदार (जीडी) वाघ मछिंद्र भाऊसाहेब (जेसी-349054के), 04 मार्च 2005

नायब सूबेदार (जीडी) श्रीधर भाऊ उत्तेकर (जेसी-349019एफ), 09 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) सोहन सिंह (जेसी-349025पी), 30 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) सुखदेव सिंह (जेसी-349048डब्ल्यू), 28 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) मोहिते गजानन लालसाहेब (जेसी-349009एक्स), 31 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) सुखबीर सिंह (जेसी-349030ए), 28 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) राकेश (जेसी-349052वाई), 21 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) शिंदे विठल जयसिंह (जेसी-349012एक्स), 26 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) रामबीर सिंह (जेसी-349013ए), 19 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) जगताप शिरिष कुमार बापुसाहेब (जेसी-349028एच), 19 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) कदम वसन्त नामदेव (जेसी-349064एन), 24 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) बक्शी सिंह (जेसी-349024एम), 24 जनवरी 2005

नायब सूबेदार (जीडी) बलविन्दर सिंह (जेसी-349026एक्स), 20 जनवरी 2005

सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

नायब सूबेदार (एसकेटी) मोहम्मद शमीम (जेसी-348709वाई), 14 फरवरी 2005

बंगाल इन्जीनियर ग्रुप

पक्के सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-219525एच), 01 मई 2004

सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-325222वाई), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-325119एन), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार परगट सिंह (जेसी-325441ए), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार किशन सिंह (जेसी-325431डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-325232एच), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार गुरनाम सिंह पुजवाल (जेसी-325457एल), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार सुधांशु शेखर बारीक (जेसी-325466एम), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार जीवन सिंह (जेसी-325468एक्स), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार राम बली सिंह (जेसी-325578एम), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार भीमा चरण गिरी (जेसी-325580के), 01 दिसम्बर 2004

पक्के सूबेदार मेजर क्लर्क (जीडी) के रैंक में

सूबेदार हिरेन्द्र जुडर (जेसी-216004के), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार जनक राज (जेसी-202927के), 01 जनवरी 2004

सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-210794एन), 01 फरवरी 2004

सूबेदार सत्या नारायण (जेसी-210757ए), 01 फरवरी 2004

सूबेदार जगदीश राज (जेसी-216023पी), 01 फरवरी 2004

सूबेदार चिरंजी लाल सेमवाल (जेसी-215899पी), 01 फरवरी 2004

सूबेदार सत नारायण (जेसी-325127एम), 01 मार्च 2004

सूबेदार अक्षय कुमार (जेसी-325128पी), 01 मार्च 2004

सूबेदार सुदर्शन मिश्रा (जेसी-325134एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार सोहन लाल शर्मा (जेसी-216001 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार सुभाष चन्द शर्मा (जेसी-325174के), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार देव दत्त वर्मा (जेसी-325175एन), 01 मई 2004

सूबेदार साहिर अहमद (जेसी-325259ए), 01 मई 2004

सूबेदार प्रदीप कुमार सिन्हा (जेसी-325715ए), 01 मई 2004

सूबेदार सतपाल सिंह कण्ठोल (जेसी-325180एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार राजेन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-325183एल), 01 जून 2004

सूबेदार ईश्वर सिंह कांची (जेसी-325187एफ), 01 जून 2004

सूबेदार बिमल किशोर यादव (जेसी-325182एच), 01 मई 2004

सूबेदार गया लाल रावत (जेसी-325189एम), 01 अगस्त 2004

सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जेसी-325190एफ), 01 अगस्त 2004

सूबेदार प्रकाश चन्द शर्मा (जेसी-325264एल), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार राजकुमार (जेसी-325265एन), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार मोहन सिंह डोगरा (जेसी-325196एच), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार रमा कांत नायक (जेसी-219530एन), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार राजकुमार (जेसी-325267वाई), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार भगत सिंह (जेसी-325269के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार आनंद प्रकाश (जेसी-325272के), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार जगत सिंह चंदेला (जेसी-325275एक्स), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार गुरविंदर सिंह (जेसी-328323एक्स), 01 जून 2004
सूबेदार ओम सिंह रावत (जेसी-325277एच), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार बलवंत सिंह पाण्डा (जेसी-328316एफ), 01 जून 2004
सूबेदार हौशियार सिंह रावत (जेसी-325475एन), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार भारत चन्द्र रॉय (जेसी-328320के), 01 जून 2004
पक्के सूबेदार मेजर (एस.के.टी.) के रैंक में	नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-328324एम), 01 जून 2004
सूबेदार दर्शन सिंह चीमा (जेसी-325140डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003	नायब सूबेदार एम बसंत सिंघा (जेसी-328353पी), 01 जून 2004
पक्के सूबेदार मेजर (सर्वे) के रैंक में	नायब सूबेदार गंगा सिंह (जेसी-328354एक्स), 01 जुलाई 2004
सूबेदार मान सिंह (जेसी-224826डब्ल्यू), 01 मई 2004	नायब सूबेदार तपन कुमार साहा (जेसी-328324ए), 01 जुलाई 2004
सूबेदार सुरेश कुमार सिंह (जेसी-224836ए), 01 मई 2004	नायब सूबेदार श्याम बाबू द्विवेदी (जेसी-328326एल), 01 जुलाई 2004
सूबेदार सुरेश पाल सिंह (जेसी-326551एफ), 01 मई 2004	नायब सूबेदार दलबीर सिंह (जेसी-328349एच), 01 जुलाई 2004
सूबेदार नंद किशोर (जेसी-326553एम), 01 मई 2004	नायब सूबेदार धर्म पाल सिंह (जेसी-328327एन), 01 जुलाई 2004
सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-210628ए), 01 मई 2004	नायब सूबेदार रेशम सिंह (जेसी-328328डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004
सूबेदार कर्ण सिंह (जेसी-216030एल), 01 मई 2004	नायब सूबेदार बीरबल सिंह (जेसी-328329वाई), 01 जुलाई 2004
सूबेदार कृष्णा चन्द्र श्रीवास्तव (जेसी-325142के), 01 मई 2004	नायब सूबेदार मुंशी लाल (जेसी-328369ए), 01 जुलाई 2004
सूबेदार कमला कांत चौबे (जेसी-325815एल), 01 मई 2004	नायब सूबेदार जय प्रकाश सिंह (जेसी-328331डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004
सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-326557एच), 01 जून 2004	नायब सूबेदार वशिष्ठ सिंह (जेसी-328334के), 01 जुलाई 2004
सूबेदार सर्वजीत कुमार (जेसी-326835एल), 01 जून 2004	नायब सूबेदार हरिश चन्द्र (जेसी-328336एफ), 01 जुलाई 2004
सूबेदार अकरम अली (जेसी-325816एक्स), 01 जुलाई 2004	नायब सूबेदार उमा नन्द (जेसी-328340एक्स), 01 जुलाई 2004
सूबेदार नारदा नंद मेलकानिया (जेसी-325613के), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-328337एक्स), 01 जुलाई 2004
पक्के सूबेदार (जीडी) के रैंक में	नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-328333एफ), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-328299एम), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-328356एच), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार पितम्बर सिंह (जेसी-328350एफ), 01 मई 2004	नायब सूबेदार कुंवर सिंह (जेसी-328343एल), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-328301वाई), 01 मई 2004	नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जेसी-328357एल), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार रमेश राम आर्य (जेसी-328266वाई), 01 मई 2004	नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-328359डब्ल्यू), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-328302एफ), 01 मई 2004	नायब सूबेदार कुमार घोत्री (जेसी-328757एक्स), 01 अप्रैल 2004
नायब सूबेदार मनवर सिंह (जेसी-328314डब्ल्यू), 01 मई 2004	नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रकाश (जेसी-328342एच), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार प्रशांत कुमार पटनायक (जेसी-328303के), 01 मई 2004	नायब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जेसी-328338ए), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार नन्द कुमार रॉय (जेसी-328315वाई), 01 मई 2004	नायब सूबेदार ओम प्रकाश पाण्डे (जेसी-328526एफ), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र त्रिवेदी (जेसी-328467ए), 01 जून 2004	नायब सूबेदार मिल्खा सिंह (जेसी-328665एल), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-328322पी), 01 जून 2004	नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-328361एन), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार राम प्रसाद राय (जेसी-328317के), 01 जून 2004	नायब सूबेदार लछिमन चन्द (जेसी-328347एफ), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार दीपक कुमार थापा (जेसी-328351के), 01 जून 2004	नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-328348के), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार राम गोपाल सिंह (जेसी-328318एम), 01 जून 2004	नायब सूबेदार नन्द कुमार यादव (जेसी-328375एम), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-328352एम), 01 जून 2004	



- नायब सूबेदार धर्म पाल (जेसी-328418एक्स), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार रणजीत दास (जेसी-328376डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार चन्द्र सिंह धामी (जेसी-328371एक्स), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार बिक्रम सिंह रावत (जेसी-328372ए), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार कल्याण सिंह कथायत (जेसी-328373एच), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-328374एल), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार हृदय नारायण सिंह (जेसी-328378एफ), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-328379के), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार सतेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-328380वाई), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार सतवान सिंह (जेसी-328381एफ), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-328382के), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार नटवर माझी (जेसी-328383एम), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-328384पी), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार सर्वजीत सिंह (जेसी-328385एक्स), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-328386ए), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार भगवान सिंह (जेसी-328387एच), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार जसपाल सिंह (जेसी-328389एन), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार गणेश चन्द्र (जेसी-328419ए), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार फारूख खान (जेसी-328346वाई), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार सुबल चन्द्र घोष (जेसी-328573वाई), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार मनवर सिंह (जेसी-328377वाई), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार हरि किशोर (जेसी-328388एल), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-328370पी), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-328384पी), 01 अगस्त 2004
- नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-328390एच), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार ध्यान सिंह (जेसी-328391एल), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह सिसोदिया (जेसी-328392एन), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार शेखरा नन्द (जेसी-328393डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार पुष्प राज (जेसी-328420पी), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार दिनेश चन्द्र (जेसी-328394वाई), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-328395एफ), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार सुरेश चन्द्र (जेसी-328396के), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार मिलाप सिंह (जेसी-328397एम), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-328398पी), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार हयात सिंह (जेसी-328421एक्स), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-328400एफ), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जेसी-328401के), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार राम प्रताप सिंह (जेसी-328402एन), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-328403पी), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार कपिल पुंडीर (जेसी-328404एक्स), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-328422ए), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार थोमस कुरिया कोस (जेसी-328423एच), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार हाकिम सिंह (जेसी-328424एल), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-328425एन), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार राज सिंह (जेसी-328426डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार मणि मोहन सिन्हा (जेसी-328427वाई), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार सुखपाल सिंह (जेसी-328439एन), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार राम नरेश सिंह (जेसी-328428एफ), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-328430वाई), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह (जेसी-328431एफ), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार निखा राम बनयाल (जेसी-328440एच), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार मनवर सिंह (जेसी-328432के), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-328433एम), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार राम निवास चौहान (जेसी-328434पी), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार हरिद्वार प्रसाद (जेसी-328441डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार तेज बहादुर सिंह (जेसी-328442एम), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार नंदन सिंह (जेसी-328443डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-328444वाई), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-328445एफ), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार बिजेश्वर नाथ सिंह (जेसी-328446के), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार भैया लाल (जेसी-328447एम), 01 सितम्बर 2004
- नायब सूबेदार महेश पाल सिंह (जेसी-328449एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार लाभ सिंह (जेसी-328450एम), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-328451पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार गणेश सिंह बोहरा (जेसी-328452एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार नवीन चन्द्र उपाध्याय (जेसी-328453ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार दिगार सिंह (जेसी-328455एल), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार लखविन्दर (जेसी-328456एन), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार दिलीप बोरा (जेसी-328470ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार नबाद्रीप शर्मा (जेसी-328471एच), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-328666एन), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार रमा पति त्रिपाठी (जेसी-328472एल), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-328474ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार दुला राम (जेसी-328476एफ), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार पुरन सिंह (जेसी-328477के), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार बिन्दु प्रसाद सिंह (जेसी-328478एम), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-328479पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार हीरा सिंह बिष्ट (जेसी-328481एम), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार गिरीश चन्द्र (जेसी-328482पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार सविता प्रसाद (जेसी-328483एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार विजेन्द्र कुमार वर्मा (जेसी-328484ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार तरुण चन्द्र बोरा (जेसी-328507एच), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार चन्द्र किशोर सिंह (जेसी-328485एच), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र प्रसाद (जेसी-328487डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार गोले बदन घोष (जेसी-328550एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जुगल किशोर राय (जेसी-328488डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार सुकुमार पाल (जेसी-328576ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार गुलाब सुनिल सीताराम (जेसी-328510डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार कृष्ण पाल सिंह चौहान (जेसी-328527के), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जयबल सिंह (जेसी-328489वाई), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जसपाल सिंह नेगी (जेसी-328577पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जगीर सिंह (जेसी-328490एन), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार विनोद सिंह (जेसी-328491डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-328511वाई), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार दिवान सिंह धामी (जेसी-328512एफ), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-328513के), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार इंदर सिंह (जेसी-328578एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार कंचन सिंह (जेसी-328492वाई), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार हरेन्द्र प्रसाद (जेसी-328515पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार भूपिन्दर सिंह (जेसी-328493एफ), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र भट्ट (जेसी-328516एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार देवराज (जेसी-328517ए), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-328518एक्स), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार शशि कान्त पाण्डे (जेसी-328519एल), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार जिवेश्वर सैकिया (जेसी-328528एम), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार राम अवध राम (जेसी-328529पी), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार विजय बहादुर राम (जेसी-328530के), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार तिन्कारी मण्डल (जेसी-328531एम), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राज किशोर बारीक (जेसी-328532पी), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार गुरमेज सिंह (जेसी-328533एक्स), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार कन्हैया लाल (जेसी-328534ए), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सत्य प्रकाश (जेसी-328535एच), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सते सिंह (जेसी-328536एल), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-328537एन), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-328538डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार खेम सिंह (जेसी-328540एन), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रघुनन्दन प्रसाद (जेसी-328541डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार अखिलेश्वर प्रसाद (जेसी-328542वाई), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार भूपेन्द्र सिंह (जेसी-328543एफ), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार गोविन्द सिंह खैरा (जेसी-328551ए), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-328552एच), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रामू सिंह तंवर (जेसी-328553एल), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार होशियार सिंह (जेसी-328555डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार भुवनेश्वर सिंह (जेसी-328556वाई), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राम दरश राम (जेसी-328557एफ), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राम मूर्ति (जेसी-328558के), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार बेअंत सिंह (जेसी-328559एम), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-328560एफ), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार गणेश सिंह (जेसी-328562एम), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-328563पी), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार के. (जेसी-328545एम), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार हरि नाथ सिंह (जेसी-328564एक्स), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सोमबीर सिंह (जेसी-328565ए), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार काशी नाथ सिंह (जेसी-328566ए), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रघुनन्दन सिंह (जेसी-328568एन), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार योगिन्द्र पाल सिंह (जेसी-328569डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-328635एन), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-328580पी), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार राम प्रवेश कुमार (जेसी-328581एक्स), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-328582ए), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-328618एन), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार पान सिंह (जेसी-328583एच), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार उदय वीर सिंह (जेसी-328584एल), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-328585एन), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार भरत सिंह (जेसी-328586डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार पुष्कर सिंह (जेसी-328587डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-328588एफ), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार मथुरा राम (जेसी-328589के), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार प्रदीप सिंह (जेसी-328561के), 01 नवम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रामजी सिंह (जेसी-328486एल), 01 अक्टूबर 2004  
 नायब सूबेदार बाबु पी. (जेसी-328539वाई), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार राम सहारे सिंह (जेसी-328579ए), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार शंभू प्रसाद साना (जेसी-328590वाई), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार चन्द्र बिन्दू साव (जेसी-328591एफ), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार चन्द्र किशोर सिंह (जेसी-328592के), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे (जेसी-328594पी), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार उमा शंकर सिंह (जेसी-328593एम), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र उप्रेती (जेसी-328595एक्स), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-328596ए), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार चन्द्रिका सिंह (जेसी-328636डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-328620डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-328637वाई), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार एल. बाबुसाना सिंघा (जेसी-328621एन), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार भुवन चन्द्र (जेसी-328622डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-328623एक्स), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार गौतम बानिक (जेसी-328598एल), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार कुंवर सिंह (जेसी-328638एफ), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार जय नारायण सिंह (जेसी-328639के), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार सत्य पाल सिंह (जेसी-328642के), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-328643एम), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार जसपिन्दर सिंह (जेसी-328597एच), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-328285एम), 29 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार भूपेन्द्र चन्द्र भट्ट (जेसी-328619डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

पक्के सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार साधन लाल गुप्ता (जेसी-326141एल), 01 दिसम्बर 2003  
 नायब सूबेदार ब्रजेश कुमार सिंह (जेसी-326575एल), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-326801वाई), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-326604पी), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार प्रेम चन्द खंडेवाल (जेसी-326606ए), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार इन्द्र भानु सिंह (जेसी-326659वाई), 01 मई 2004  
 नायब सूबेदार राम नारायण (जेसी-326608एल), 01 जून 2004  
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-326660एन), 01 जून 2004

नायब सूबेदार विजय कुमार सायल (जेसी-326802ए), 01 जून 2004	नायब सूबेदार दिनेश सिंह कार्की (जेसी-326880एक्स), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार दीप चन्द (जेसी-326735पी), 01 जुलाई 2004	नायब सूबेदार बचन सिंह (जेसी-326881ए), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार सत्य माल शर्मा (जेसी-326804एल), 01 जुलाई 2004	नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-326882एच), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार सज्जन कुमार सांगवान (जेसी-325980डब्ल्यू), 01 जून 2004	नायब सूबेदार बसंत कुमार दास (जेसी-326884एन), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार चांद सिंह (जेसी-326021एम), 01 जून 2004	पक्के सूबेदार (एस.के.टी.) के रैंक में
नायब सूबेदार रणबीर सिंह (जेसी-326950एल), 01 अगस्त 2004	नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-327938डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004
नायब सूबेदार परपोत्तम दास (जेसी-326735ए), 01 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार श्रीकांत मिश्रा (जेसी-327927के), 01 मई 2004
नायब सूबेदार विक्रमजीत सिंह (जेसी-326736एच), 01 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार गोविन्द साहा (जेसी-327909एफ), 01 जून 2004
नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-326737एल), 01 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार खुन खुन राम (जेसी-328056एफ), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार संजीव कुमार सक्सैना (जेसी-326861एम), 01 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-328057के), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार लाल महादुर (जेसी-326806डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004	पक्के सूबेदार क्लर्क (स्टोर) के रैंक में
नायब सूबेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-326862पी), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार जय कुमार बारिक (जेसी-326666पी), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार हरनेक सिंह (जेसी-326864ए), 01 अक्टूबर 2004	पक्के सूबेदार (सर्वे) के रैंक में
नायब सूबेदार राजू एम. (जेसी-326865एच), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह नेगी (जेसी-326476एच), 01 मई 2004
नायब सूबेदार प्रदीप कुमार (जेसी-326807वाई), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार चरणजीत सिंह (जेसी-326836एन), 02 जून 2004
नायब सूबेदार दिलावर सिंह (जेसी-326661डब्ल्यू), 22 जून 2004	नायब सूबेदार रण सिंह (जेसी-326837डब्ल्यू), 02 जून 2004
नायब सूबेदार जसबीर सिंह (जेसी-326866एल), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार वजीर सिंह (जेसी-326838वाई), 02 जून 2004
नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार सिंह (जेसी-326869ए), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह (जेसी-327296डब्ल्यू), 01 जून 2004
नायब सूबेदार जितेन्द्र चन्द्र बर्मन (जेसी-326870एन), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार ओम प्रकाश सिंह (जेसी-327910डब्ल्यू), 01 जून 2004
नायब सूबेदार धनन्जय डे (जेसी-326871डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार ध्रुव कुमार सिंह (जेसी-326477एल), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार दीपक कुमार (जेसी-326872वाई), 01 नवम्बर 2004	नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जेसी-327280एफ), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार केना राम बिश्वास (जेसी-326874के), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-327911वाई), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-326875एम), 02 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार इन्द्र नारायण सिंह (जेसी-326979एन), 30 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-326876पी), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार तरलोचन सिंह (जेसी-327012एक्स), 30 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार भारत भूषण रैना (जेसी-326877एक्स), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार नरिन्दर सिंह (जेसी-327122एम), 30 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-326878ए), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार देवेन्द्र चन्द्र जोशी (जेसी-327123पी), 30 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार सिया राम (जेसी-327101एच), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार रमेश कुमार तंवर (जेसी-327222एक्स), 30 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार मोहन सिंह भकुनी (जेसी-326873एफ), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-326822एन), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार राम नरेश प्रसाद सिंह (जेसी-326879एच), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-326823डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005
	नायब सूबेदार चंदन सिंह (जेसी-327018वाई), 01 जनवरी 2005

पक्के सूबेदार (आर.टी.) के रैंक में  
 नायब सूबेदार दलवीर सिंह (जेसी-325725के), 01 जनवरी 2004  
 नायब सूबेदार राम नगीना पाण्डे (जेसी-325702एच), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार रमेश झा (जेसी-325703एल), 01 दिसम्बर 2004  
 नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में  
 हवलदार महीपाल सिंह (सं. 1470764ए अब जेसी-329496एफ), 27 सितम्बर 2004@  
 हवलदार रमेश चन्द्र (सं.1468441वाई अब जेसी-329497के), 26 सितम्बर 2004@  
 हवलदार भरत सिंह (सं. 1469214एल अब जेसी-329498एम), 11 दिसम्बर 2004#  
 हवलदार मुखतार सिंह (सं. 1468990वाई अब जेसी-329499पी), 04 जनवरी 2005#  
 हवलदार पुष्पेंद्र कुमार (सं. 1467832एक्स अब जेसी-329500वाई), 05 मार्च 2005%  
 हवलदार जमुना दत्त (सं. 1466764एम अब जेसी-329501एफ), 05 मार्च 2005%  
 हवलदार रूप चंद सिंह (सं. 1469528एम अब जेसी-329502के), 03 मार्च 2005%  
 हवलदार सागर सिंह (सं. 1471869डब्ल्यू अब जेसी-329503एम), 11 मार्च 2005%  
 हवलदार मान सिंह नेगी (सं. 1471947एच अब जेसी-329504पी), 23 मार्च 2005%  
 हवलदार रमेन्द्र सिंह (सं. 1471946ए अब जेसी-329505एक्स), 22 मार्च 2005%  
 हवलदार शंभू प्रसाद (सं. 1472024के अब जेसी-329506ए), 07 मार्च 2005%  
 हवलदार महेश कुमार पासवान (सं. 1472003एन अब जेसी-329507एच), 17 मार्च 2005%  
 हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 1471976एक्स अब जेसी-329508एल), 22 मार्च 2005%  
 हवलदार जय वल्लभ सिंह (सं. 1472296के अब जेसी-329509एन), 19 मार्च 2005%  
 हवलदार गुर चरन सिंह (सं. 1464123एक्स अब जेसी-329510एच), 05 मार्च 2005%  
 हवलदार जलंधर सिंह (सं. 1465466ए अब जेसी-329511एल), 24 मार्च 2005%  
 हवलदार दिवान चन्द (सं. 1466213एक्स अब जेसी-329512एन), 07 मार्च 2005%

हवलदार अनरुल इस्लाम (सं. 1467083एम अब जेसी-329513डब्ल्यू), 29 मार्च 2005%  
 हवलदार भुल्ला सिंह (सं. 1467578वाई अब जेसी-329514वाई), 04 मार्च 2005%  
 हवलदार कल्याण सिंह वाल्दिया (सं. 1467599पी अब जेसी-329515एफ), 09 मार्च 2005%  
 हवलदार इकबाल सिंह (सं. 1467969के अब जेसी-329516के), 02 मार्च 2005%  
 हवलदार दर्शन सिंह (सं. 1468260एन अब जेसी-329517एम), 19 मार्च 2005%  
 हवलदार विजय शंकर सिंह यादव (सं. 1468424वाई अब जेसी-329518पी), 05 मार्च 2005%  
 हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 1468645एल अब जेसी-329519एक्स), 09 मार्च 2005%  
 हवलदार नगेन्द्र प्रसाद सिंह (सं. 1469337ए अब जेसी-329520एम), 03 मार्च 2005%  
 हवलदार गोरख नाथ चौबे (सं. 1469341ए अब जेसी-329521पी), 01 अप्रैल 2005%  
 हवलदार दलबीर सिंह (सं. 1469235एफ अब जेसी-329522एक्स), 07 मार्च 2005%  
 हवलदार पवन कुमार (सं. 1469533एक्स अब जेसी-329523ए), 07 मार्च 2005%  
 हवलदार घनश्याम सिंह (सं. 1470680एम अब जेसी-329524एच), 31 मार्च 2005%  
 हवलदार बलविर सिंह (सं. 1469549एच अब जेसी-329525एल), 07 मार्च 2005%  
 हवलदार सत्य नारायण शर्मा (सं. 1469067एन अब जेसी-329526एन), 04 मार्च 2005%  
 हवलदार दीन दयाल (सं. 1467915एच अब जेसी-329527डब्ल्यू), 17 मार्च 2005%  
 हवलदार कुँवर बहादुर सिंह (सं. 1469477के अब जेसी-329528वाई), 07 मार्च 2005%  
 हवलदार मानक चन्द शर्मा (सं. 1469531एच अब जेसी-329529एफ), 12 मार्च 2005%  
 हवलदार ऋषि कुमार (सं. 1466487एच अब जेसी-329530डब्ल्यू), 07 अप्रैल 2005%  
 हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 1467227के अब जेसी-329531वाई), 12 मार्च 2005%  
 हवलदार हेमंत कुमार डेका (सं. 1468251एम अब जेसी-329532एफ), 07 मार्च 2005%

हवलदार रवेन्द्र सिंह (सं. 1468343वाई अब जेसी-329533के), 09 मार्च 2005%	हवलदार विश्न सिंह रावत (सं. 1470588एन अब जेसी-329553एक्स), 07 मार्च 2005%
हवलदार दीवान सिंह (सं. 1467185एच अब जेसी-329534एम), 07 मार्च 2005%	हवलदार बाल गोपाल पत्रा (सं. 1470645के अब जेसी-329554ए), 23 मार्च 2005&
हवलदार ईश्वर चन्द्र तिवारी (सं. 1468846के अब जेसी-329535पी), 07 मार्च 2005%	हवलदार किशोरी लाल (सं. 1470626वाई अब जेसी-329555एच), 25 अप्रैल 2005&
हवलदार जगतार सिंह (सं. 1468938डब्ल्यू अब जेसी-329536एक्स), 21 मार्च 2005%	हवलदार मो. मोजिबर रहमान (सं. 1471015डब्ल्यू अब जेसी-329556एल), 30 मार्च 2005&
हवलदार रामवीर सिंह (सं. 1469084एन अब जेसी-329537ए), 24 मार्च 2005%	हवलदार कपिल मुनि सिंह (सं. 1465471एल अब जेसी-329557एन), 28 मार्च 2005&
हवलदार शिव सिंह (सं. 1469426डब्ल्यू अब जेसी-329538एच), 07 मार्च 2005%	हवलदार अवतार सिंह (सं. 1469736पी अब जेसी-329558डब्ल्यू), 24 मार्च 2005&
हवलदार आलम सिंह (सं. 1470578के अब जेसी-329539एल), 14 मार्च 2005%	हवलदार हरजित सिंह (सं. 1471302ए अब जेसी-329559वाई), 28 मार्च 2005&
हवलदार विजय सिंह (सं. 1469582ए अब जेसी-329540ए), 07 मार्च 2005%	हवलदार कश्मिर सिंह (सं. 1471200के अब जेसी-329560एन), 18 मार्च 2005&
हवलदार विनोद प्रकाश (सं. 1469622डब्ल्यू अब जेसी-329541एच), 03 मार्च 2005%	हवलदार राज सिंह (सं. 1471240एल अब जेसी-329561डब्ल्यू), 21 मार्च 2005&
हवलदार चन्द्र किरण सिंह (सं. 1469581एक्स अब जेसी-329542एल), 07 मार्च 2005%	हवलदार मुनिश कुमार पराशर (सं. 1471335एल अब जेसी-329562वाई), 04 अप्रैल 2005&
हवलदार बिपिन चन्द्र बोरा (सं. 1469686पी अब जेसी-329543एन), 31 मार्च 2005%	हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 1471339एफ अब जेसी-329563एफ), 23 मार्च 2005&
हवलदार सिधेश्वर कुमार सिंह (सं. 1469650एक्स अब जेसी-329544डब्ल्यू), 24 मार्च 2005%	हवलदार अवतार सिंह (सं. 1471348एच अब जेसी-329564के), 22 मार्च 2005&
हवलदार मोहन राम (सं. 1470066एक्स अब जेसी-329545वाई), 02 मार्च 2005%	हवलदार दर्शन सिंह (सं. 1471346एक्स अब जेसी-329565एम), 28 मार्च 2005&
हवलदार चन्दन सिंह (सं. 1470064एम अब जेसी-329546एफ), 07 मार्च 2005%	हवलदार बहादुर सिंह (सं. 1471317एम अब जेसी-329566पी), 06 अप्रैल 2005&
हवलदार राम बहादुर सिंह परमार (सं. 1470011एन अब जेसी-329547के), 17 मार्च 2005%	हवलदार राधा मुनि सिंह (सं. 1471355वाई अब जेसी-329567एक्स), 22 मार्च 2005&
हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 1470271वाई अब जेसी-329548एम), 07 मार्च 2005%	हवलदार पुरन सिंह (सं. 1471634के अब जेसी-329568ए), 21 मार्च 2005&
हवलदार नवल किशोर (सं. 1470323के अब जेसी-329549पी), 07 मार्च 2005%	हवलदार सुखजिन्दर सिंह (सं. 3381914एम अब जेसी-329569एच), 28 मार्च 2005&
हवलदार प्रोबिर कुमार विश्वास (सं. 1470340के अब जेसी-329550के), 26 मार्च 2005%	हवलदार राज कुमार सिंह यादव (सं. 1471767ए अब जेसी-329570एक्स), 22 मार्च 2005&
हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 1470328एच अब जेसी-329551एम), 04 अप्रैल 2005%	हवलदार धर्म देव यादव (सं. 1471766एक्स अब जेसी-329571ए), 28 मार्च 2005&
हवलदार शारदा प्रसाद (सं. 1470371के अब जेसी-329552पी), 08 मार्च 2005%	हवलदार जय मुकार (सं. 1471810डब्ल्यू अब जेसी-329572एच), 21 अप्रैल 2005*

हवलदार सभा राम (सं. 1471813के अब जेसी-329573एल), 20 अप्रैल 2005\*

हवलदार चंचल सिंह (सं. 1470225के अब जेसी-329574एन), 20 अप्रैल 2005\*

हवलदार सोनेश्वर राम चैरी (सं. 1471937वाई अब जेसी-329575डब्ल्यू), 19 अप्रैल 2005\*

हवलदार जोगेन्द्र सिंह (सं. 1472109ए अब जेसी-329576वाई), 21 अप्रैल 2005\*

हवलदार ईश्वरी दत्त जोशी (सं. 1472108एक्स अब जेसी-329577एफ), 21 अप्रैल 2005\*

हवलदार कल्याण सिंह (सं. 1472120वाई अब जेसी-329578के), 19 अप्रैल 2005\*

हवलदार कमल सिंह (सं. 1472121एफ अब जेसी-329579एम), 21 अप्रैल 2005\*

हवलदार तंक प्रसाद जोशी (सं. 1472137एम अब जेसी-329580एफ), 21 अप्रैल 2005\*

हवलदार गणेश बहादुर थापा (सं. 1472132एन अब जेसी-329581के), 20 अप्रैल 2005\*

हवलदार नारद सिंह (सं. 1472192एच अब जेसी-329582एम), 15 अप्रैल 2005\*

हवलदार हवा सिंह (सं. 1472182वाई अब जेसी-329583पी), 29 अप्रैल 2005\*

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 1472200डब्ल्यू अब जेसी-329584एक्स), 19 अप्रैल 2005\*

हवलदार राम बाबू (सं. 1472204एम अब जेसी-329585ए), 18 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

हवलदार नलिन विलोचन कुमार (सं. 1466048एक्स अब जेसी-329585ए), 01 मार्च 2005&

हवलदार प्रीतपाल सिंह (सं. 1466154एन अब जेसी-329586एच), 01 मार्च 2005&

हवलदार भुमेश कुमार शर्मा (सं. 1466438ए अब जेसी-329587एल), 01 मार्च 2005&

हवलदार श्रवण सिंह (सं. 1466545एफ अब जेसी-329588एन), 01 मार्च 2005&

हवलदार धरमबीर सिंह (सं. 1467525ए अब जेसी-329589डब्ल्यू), 01 मार्च 2005&

हवलदार भारत भुषण पुरोहित (सं. 1467692डब्ल्यू अब जेसी-329590एल), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार दया शंकर वर्मा (सं. 1468116वाई अब जेसी-329591एन), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार अशोक कुमार (सं. 1468267एक्स अब जेसी-329592डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार पलितपावन रोट (सं. 1468815के अब जेसी-329593वाई), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 146952एम अब जेसी-329594एफ), 01 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार (सर्वे) के रैंक में

हवलदार श्याम करण कुरमी (सं. 6923793एफ अब जेसी-329595के), 02 नवम्बर 2004@@

हवलदार संतोष कुमार मिश्रा (सं. 13982907एन अब जेसी-329596एम), 11 अप्रैल 2005##

हवलदार नरेश पाल (सं. 4564818एक्स अब जेसी-329597पी), 12 अप्रैल 2005##

हवलदार अनुल कुमार (सं. 6390597डब्ल्यू अब जेसी-329598एक्स), 12 अप्रैल 2005##

हवलदार वेनुकुट्टन पिल्लै (सं. 1475744डब्ल्यू अब जेसी-329599ए), 15 मार्च 2005&

हवलदार बिनोद कुमार पाण्डे (सं. 1478365एल अब जेसी-329600के), 26 अप्रैल 2005\*

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004)

##(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 2005)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)

@@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004)

##(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 फरवरी 2005)

मद्रास इंजिनियर ग्रुप

नायब सूबेदार जीडी के रैंक में

हवलदार जीडी राजेन्द्रन पिल्लै आर (सं. 1380177एन अब जेसी-308183पी), 01 अप्रैल 2005%

हवलदार जीडी एस अटोनिंसामी (सं. 1379242डब्ल्यू अब जेसी-308200के), 01 मई 2005@

हवलदार जीडी बासाप्पा मदिधलार (सं. 1372298ए अब जेसी-308202पी), 01 मई 2005@

हवलदार जीडी आर पौलराज (सं. 1374453के अब जेसी-308204ए),  
01 मई 2005@

हवलदार जीडी पीथाम्बरन वी एन (सं. 1376126एच अब  
जेसी-308205एच), 01 मई 2005@

हवलदार जीडी रामचंद्रन (सं. 1377206एम अब जेसी-308211 डब्ल्यू),  
01 मई 2005@

हवलदार जीडी ज्योतेप्पा अजुर (सं. 1374957एच अब  
जेसी-308212वाई), 01 मई 2005@

हवलदार जीडी श्री कुमारन के (सं. 1374936एम अब  
जेसी-308213एफ), 02 मई 2005@

हवलदार जीडी दिवाकरन सी (सं. 1376273एल अब जेसी-308216पी),  
02 मई 2005@

हवलदार जीडी एस पालानिचामी (सं. 1376512पी अब  
जेसी-308217एक्स), 02 मई 2005@

हवलदार जीडी थोमास एन जेम्स (सं. 1375414एच अब  
जेसी-308219एच), 01 मई 2005@

हवलदार जीडी एम सम्पथ (सं. 1375806डब्ल्यू अब  
जेसी-308220एक्स), 02 मई 2005@

हवलदार जीडी जी मनोहरा राव (सं. 1376852एक्स अब  
जेसी-308222एच), 02 मई 2005@

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जीडी जोस पी टी (सं. 1379922डब्ल्यू अब  
जेसी-308069एक्स), 03 जनवरी 2005@

हवलदार जीडी आर कोंचाइया (सं. 1382095के अब  
जेसी-308072एक्स), 10 जनवरी 2005@

हवलदार जीडी एस अर्जुनन (सं. 1375772एन अब जेसी-308090ए),  
03 दिसम्बर 2004#

हवलदार जीडी राधाकृष्णन के (सं. 1375936के अब  
जेसी-308097के), 14 दिसम्बर 2004#

हवलदार जीडी पी एन सथवहना रेड्डी (सं. 1380248के अब  
जेसी-308113डब्ल्यू), 20 जनवरी 2005\$

हवलदार जीडी एम एस ए श्रीधर (सं. 1378396डब्ल्यू अब  
जेसी-308125एल), 01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी सुरेश डी (सं. 1378576वाई अब जेसी-308126एन),  
01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी नागेश्वर राव जी (सं. 1378745पी अब  
जेसी-308129एफ), 12 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी लोगनाथान आर (सं. 1379194एफ अब  
जेसी-308130डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी इरप्पा कुटोलि (सं. 1379407के अब  
जेसी-308131वाई), 01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी टी सौंदरा राजन (सं. 1379426पी अब  
जेसी-308032एफ), 01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी गोविंदाराजु एस टी (सं. 1380048एन अब  
जेसी-308133के), 01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी एस कृष्णन (सं. 1380140एम अब जेसी-308135पी),  
01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी जी दामोदरन (सं. 1380252एम अब  
जेसी-308136एक्स), 01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी जै गुनसेकरन (सं. 1380283एम अब जेसी-308137ए),  
01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी पाझानी (सं. 1380289एन अब जेसी-308138एच),  
01 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी बी वेंकटेश्वरुलु (सं. 1374843एक्स अब  
जेसी-308139एल), 02 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी गनपथि (सं. 1373796वाई अब जेसी-308140ए), 01  
फरवरी 2005&

हवलदार जीडी सुरेश कुमार पी (सं. 1378207एफ अब  
जेसी-308142एल), 24 फरवरी 2005&

हवलदार जीडी उमापथि एस (सं. 1372978ए अब जेसी-308145वाई),  
14 फरवरी 2005&

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

सूबेदार मेजर जीडी के मूल रैंक में

सूबेदार जीडी एस अरुलप्पन (जेसी-225748डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

सूबेदार जीडी सुंदर सेकरन एम (जेसी-225750एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार जीडी कृष्णामूर्थि (जेसी-225783वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार जीडी के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जीडी के आर गरिसंकर रेड्डी (जेसी-307027वाई), 23  
दिसम्बर 2004



नायब सूबेदार जीडी जनार्दनन टी आर (जेसी-307055एल), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जीडी सिवसंकरा कुरूप टी (जेसी-307068एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी एम श्रीनिवासा राव (जेसी-307074डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी बी चीरा राजू (जेसी-307104एच), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी गोपी पी (जेसी-307105एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी गोविंदन पी (जेसी-307111वाई), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी के रुबन (जेसी-307113के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी वी राजेंदरन (जेसी-307115पी), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी ए वेलुस्वामी (जेसी-307124डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी जी अरोकियास्वामी (जेसी-307128एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जीडी जे दक्शिना मूर्थी (जेसी-307132पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जीडी सिधनगौडा बगलि (जेसी-307135एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जीडी जया कुमार आर (जेसी-307142वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जीडी मोहनन सी (जेसी-307143एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जीडी सुरेंद्रन टी पी (जेसी-307320एच), 02 मार्च 2005

सूबेदार मेजर जीडी के मूल रैंक में

सूबेदार जीडी आर गुनासेकरन (जेसी-215773एफ), 01 फरवरी 2005

सूबेदार जीडी के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जीडी पी कन्ना राव (जेसी-306986एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जीडी आर वसंता कुमार (जेसी-307024एल), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जीडी वी कुमारन (जेसी-307067ए), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी पी मारुथन (जेसी-307072एल), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी दयनंदा ए यू (जेसी-307073एन), 03 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी एन राजासेकरन (जेसी-307075वाई), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी रेथ्नाकरन पी सी (जेसी-307076एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी ऊथमन के पी (जेसी-307093एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी रामाप्पा तिलार्पुर (जेसी-307094के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी सौंदरा राजन एम (जेसी-307095एम), 02 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी ए कालिराज (जेसी-307097एक्स), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी धर्मालिंगम एम (जेसी-307098ए), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी राजन पी बी (जेसी-307099एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी जी वेंकटा रामि रेड्डी (जेसी-307100एम), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी डी लक्ष्मी पथि (जेसी-307101पी), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी एम सूर्या राव (जेसी-307102एक्स), 10 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जीडी सी चेन्नाप्पन (जेसी-307065पी), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी अप्पाचन चंडि (जेसी-307107डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जीडी पी सिवा सुब्रमनियम (जेसी-307123एन), 10 मार्च 2005

सूबेदार मेजर (लिपिक जीडी/स्टोर) के मूल रैंक में

सूबेदार क्लर्क ज्ञान के वी (जेसी-305301एम), 12 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क राजगोपालन सी वी (जेसी-305316पी), 23 अप्रैल 2004

सूबेदार क्लर्क देवदासन पी के (जेसी-305320एक्स), 18 जून 2004

सूबेदार क्लर्क भानुकुट्टन वी एम (जेसी-305327एफ), 02 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एम वेंकटेश्वर्लु (जेसी-305346एम), 24 मई 2004

सूबेदार क्लर्क ऊधव (जेसी-305365एक्स), 03 जून 2004

सूबेदार क्लर्क बी सुधाकरा रेड्डी (जेसी-305375एफ), 04 जून 2004

सूबेदार क्लर्क रंजित कुमार जी (जेसी-305463एक्स), 21 जून 2004

सूबेदार क्लर्क परमेश्वरण पिल्लै के (जेसी-305505वाई), 06 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क सुरेश कुरूप आर (जेसी-305510के), 15 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क सजीवन एस (जेसी-305565एन), 28 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क रत्नगिरि राव गुल्लापल्लि (जेसी-305616डब्ल्यू), 06 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क टी रंगनायकुलु (जेसी-305617वाई), 03 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क मनि एम वी (जेसी-306560एफ), 01 सितम्बर 2004
सूबेदार क्लर्क महेष बाबू के आर (जेसी-305734के), 06 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क जानसन जेविएर (जेसी-306582ए), 16 नवम्बर 2004
सूबेदार क्लर्क जया सिंह (जेसी-305657ए), 21 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क सम्पथ कुमार के (जेसी-306493एफ), 25 जनवरी 2004
सूबेदार क्लर्क कृष्णन आर (जेसी-305740एक्स), 01 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क सोभा कुमार पी वी (जेसी-306499एच), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार क्लर्क के दक्खिना मूर्ति (जेसी-305795एफ), 18 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क विक्रमन टी वी (जेसी-306576एम), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार क्लर्क बेनिथ नजारथ (जेसी-305798पी), 14 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क विद्यानंदन टी वी (जेसी-306577पी), 08 अक्टूबर 2004
सूबेदार क्लर्क धर्म पाल (जेसी-305806एच), 01 अक्टूबर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क रवींद्रन के (जेसी-306580पी), 27 अक्टूबर 2004
सूबेदार क्लर्क अंतोनि जे लोपेज़ (जेसी-305831एफ), 13 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क वी ऊत्रिक्रिष्ण (जेसी-306581एक्स), 16 अक्टूबर 2004
सूबेदार क्लर्क प्रदिप कुमार दास (जेसी-305841एल), 08 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क पी पंचाट्टरम (जेसी-306603एल), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार क्लर्क हरिदासन वी (जेसी-305853ए), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क नुटन नागराज डी (जेसी-306604एन), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार क्लर्क कर्तार सिंह (जेसी-219436के), 21 मार्च 2005	नायब सूबेदार क्लर्क ससिधरन एम (जेसी-306605डब्ल्यू), 16 नवम्बर 2004
सूबेदार क्लर्क बी कजेंद्रन (जेसी-305286एच), 06 अप्रैल 2005	नायब सूबेदार क्लर्क दासन पी के (जेसी-306621एन), 23 फरवरी 2005
सूबेदार (लिपिक जीडी/स्टोर) के मूल रैंक में	नायब सूबेदार क्लर्क जोस पी वी (जेसी-306622डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार क्लर्क एल सुंदारा राज (जेसी-306549एच), 07 जुलाई 2004	नायब सूबेदार क्लर्क मोहनदास पी के (जेसी-306626एम), 01 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार क्लर्क जोन टी थोमस (जेसी-306550एक्स), 01 जुलाई 2004	नायब सूबेदार क्लर्क जे रामराज (जेसी-306627पी), 01 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार क्लर्क फ्रंक्लिन जोस पी एस (जेसी-306552एच), 01 जुलाई 2004	नायब सूबेदार क्लर्क राजन पुथुक्कुडि (जेसी-306649एन), 01 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार क्लर्क चंद्रा मोहन टी एन (जेसी-306553एल), 08 सितम्बर 2004	नायब सूबेदार क्लर्क ए मनोहरन (जेसी-306650एच), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार क्लर्क जेम्स पी (जेसी-306551ए), 01 जुलाई 2004	नायब सूबेदार क्लर्क प्रकाशन वी के (जेसी-306651एल), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार क्लर्क सी ज्ञाना शेकर (जेसी-306554एन), 23 जुलाई 2004	नायब सूबेदार क्लर्क हिंदराज आर (जेसी-306652एन), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार क्लर्क राजन बाबू बी (जेसी-306555डब्ल्यू), 27 जुलाई 2004	नायब सूबेदार क्लर्क राजन ए (जेसी-306653डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005
नायब सूबेदार क्लर्क सुनिल कुमार के एम (जेसी-306556वाई), 02 अगस्त 2004	नायब सूबेदार क्लर्क करुनाकरन मंगट (जेसी-306655एफ), 01 मार्च 2005
नायब सूबेदार क्लर्क राजीव एम पी (जेसी-306557एफ), 02 अगस्त 2004	
नायब सूबेदार क्लर्क सुरेश टी वी (जेसी-306558के), 10 अगस्त 2004	
नायब सूबेदार क्लर्क कुट्टी क्रिष्णन के डी (जेसी-306977पी), 01 सितम्बर 2004	
नायब सूबेदार क्लर्क ए अरोकिया सामि (जेसी-306559एम), 01 सितम्बर 2004	

नायब सूबेदार क्लर्क राजन पी आर (जेसी-306657एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार क्लर्क जोजि जोसफ (जेसी-306658पी), 02 मार्च 2005

नायब सूबेदार क्लर्क चंद्रन एम (जेसी-306980एफ), 11 मार्च 2005

नायब सूबेदार क्लर्क सुनिल कुमार के (जेसी-306659एक्स), 14 मार्च 2005

नायब सूबेदार क्लर्क ऐ मथियास (जेसी-306660एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार क्लर्क साबु बी (जेसी-306661पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार क्लर्क ऊन्निक्रिष्ण ऊन्नियन (जेसी-306662एक्स), 01 अप्रैल 2005

#### सूबेदार जीडी के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जीडी इथिराज टी (जेसी-307008एन), 30 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जीडी के मनी (जेसी-307136एल), 02 मई 2005

नायब सूबेदार जीडी गोविंद (जेसी-307150एक्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार जीडी टी आर मनी (जेसी-307154एन), 01 मई 2005

नायब सूबेदार जीडी जिजिमोन एन एम (जेसी-307156वाई), 02 मई 2005

नायब सूबेदार जीडी सध्या कुमार के (जेसी-307161के), 02 मई 2005

नायब सूबेदार जीडी ए करुप्पासामी (जेसी-307163पी), 02 मई 2005

#### सूबेदार मेजर जी.डी. के मूल रैंक में

सूबेदार जी.डी. के गजेंद्रन (जेसी-207478के), 03 जनवरी 2005

सूबेदार जी.डी. वेंकटेश (जेसी-207489डब्ल्यू), 27 अगस्त 2004

सूबेदार जी.डी. के कुमारेसन (जेसी-210328वाई), 08 सितम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. टी आर नागराज (जेसी-210335पी), 15 अक्टूबर 2004

सूबेदार जी.डी. के मनेस्वरा राव (जेसी-210339एल), 03 जनवरी 2005

सूबेदार जी.डी. जम्बुनाथन टी (जेसी-210345वाई), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. एस महबूब सुभानि (जेसी-215729एक्स), 18 अक्टूबर 2004

सूबेदार जी.डी. चाको के सी (जेसी-215730एम), 05 नवम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. मोहनन जी (जेसी-215746एक्स), 16 नवम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. आर जेगनाथन (जेसी-215766एल), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. जेवियर येसूदोस (जेसी-215772वाई), 03 दिसम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. नेसामनी सी (जेसी-219313एक्स), 03 दिसम्बर 2004

सूबेदार जी.डी. राजा गोपालन टी वी (जेसी-219479वाई), 01 दिसम्बर 2004

#### सूबेदार जी.डी. के मूल रैंक में

नायब सूबेदार जी.डी. पी तमिल कुमारन (जेसी-306773पी), 11 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. ए विजया भास्कर (जेसी-306855एक्स), 18 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. कुमारन एन (जेसी-306859एन), 22 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. एम सिंगरावेलु (जेसी-306877डब्ल्यू), 30 जुलाई 2004

नायब सूबेदार जी.डी. अंबुसेल्वाम डी (जेसी-306882एफ), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार जी.डी. एम कृष्णा मूर्थि (जेसी-306984एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. एस भीमा राव (जेसी-306985ए), 04 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. जी मुरुगसन (जेसी-306989डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. बाथावाचलम (जेसी-306991एन), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. जोसेफ जॉर्ज (जेसी-306992डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. ए अमिथाराज (जेसी-306993वाई), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. ए जी एलुमलाई (जेसी-307003पी), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. कुमारस्वामी टी वी (जेसी-307004एक्स), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. ए एंथोनी (जेसी-307005ए), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. पी श्रीनिवासन (जेसी-307006एच), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. एलन गोवान जी (जेसी-307007एल), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. एस जॉन पीटर (जेसी-307012डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. वसंथन टी (जेसी-307013वाई), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. सदासिवन पिल्लै पी सी (जेसी-307014एफ), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जी.डी. सत्री पी जे (जेसी-307015के), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. आलेक्स एम जी (जेसी-307070ए), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार जी.डी. जॉर्ज टी पी (जेसी-307019ए), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. दयानंदन जे (जेसी-307071एच), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार जी.डी. आई आदिनारायना (जेसी-307020पी), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार (धर्म गुरू) के मूल रैंक में
नायब सूबेदार जी.डी. एस सेल्चाराज (जेसी-307023एच), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार आर.टी. शिवनाथ पांडे (जेसी-305606एम), 09 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार जी.डी. एस मुथुरामालिंगम (जेसी-307028एफ), 18 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार आर.टी. मायानंद मिश्रा (जेसी-305607पी), 09 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार जी.डी. जाहनी कुट्टी के वी (जेसी-307030वाई), 01 दिसम्बर 2004	सूबेदार जी.डी. के मूल रैंक में
नायब सूबेदार जी.डी. मुरलीधरन पिल्लै के (जेसी-307031एफ), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार जी.डी. एम सेकरन (जेसी-306963एफ), 01 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार जी.डी. ईरिशिकेसकार्नवार (जेसी-307032के), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. सुगुनन ए पी (जेसी-306990एल), 02 अक्टूबर 2004
नायब सूबेदार जी.डी. क्रिष्णाप्पा दंदाव्वर (जेसी-307033एम), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. नदराजन टी (जेसी-307110एच), 11 मार्च 2005
नायब सूबेदार जी.डी. हनमथ (जेसी-307034पी), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. गुनासेकरन आर (जेसी-307125वाई), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी.डी. मोहनन.जी (जेसी-307050एम), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. सैकमस्तान वालि (जेसी-307126एफ), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी.डी. आर वी वी सथ्यानारायाना (जेसी-307051पी), 02 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. एम मालाइराजन (जेसी-307131एम), 01 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी.डी. के नागारथिनम (जेसी-307052एक्स), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. हरिदासन के (जेसी-307133एक्स), 04 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी.डी. जी आस्कर अली (जेसी-307053ए), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. सुब्रमणि आर (जेसी-307137एन), 04 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी.डी. एम गोविंदुडु (जेसी-307054एच), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. जे थिरूमल (जेसी-307139वाई), 06 अप्रैल 2005
नायब सूबेदार जी.डी. टीका रामकुमार एम (जेसी-307056एन), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. हरिदासन के पी (जेसी-307155डब्ल्यू), 01 मई 2005
नायब सूबेदार जी.डी. गंगाधरन के (जेसी-307057डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. डी हेनरी मोहन डेविड (जेसी-307159एम), 02 मई 2005
नायब सूबेदार जी.डी. एन नागाराजन (जेसी-307058वाई), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. आर चंद्रासेकर (जेसी-307183एच), 02 मई 2005
नायब सूबेदार जी.डी. सदानंदन के के (जेसी-307059एफ), 01 दिसम्बर 2004	नायब सूबेदार जी.डी. आर पनीर सेल्वम (जेसी-307184एल), 01 मई 2005
नायब सूबेदार जी.डी. श्यामलानागाराजा एम (जेसी-307061वाई), 01 जनवरी 2005	नायब सूबेदार जी.डी.ए. चिन्नाकन्नन (जेसी-307188एफ), 01 मई 2005
नायब सूबेदार जी.डी. नागाराजन जी (जेसी-307069एल), 11 जनवरी 2005	नायब सूबेदार जी.डी. गनेसन जे (जेसी-307199एन), 02 मई 2005
	नायब सूबेदार जी.डी. एस महाराजा (जेसी-307423पी), 01 अप्रैल 2005

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार जी.डी. जी कुमारदास (सं. 1379773एन अब जेसी-308067एम), 02 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. किष्का के (सं. 1375518के अब जेसी-308085पी), 01 दिसम्बर 2004@

हवलदार जी.डी. एस जान पीटार (सं. 1376541के अब जेसी-308112एन), 01 जनवरी 2005#

हवलदार जी.डी. एम केसवन (सं. 1378045एफ अब जेसी-308119एक्स), 01 जनवरी 2005#

हवलदार जी.डी. जी पेथानान (सं. 1378583पी अब जेसी-308127डब्ल्यू), 12 फरवरी 2005\$

हवलदार जी.डी. अनिल कुमार ए (सं. 1378597पी अब जेसी-308128वाई), 07 मार्च 2005\$

हवलदार जी.डी. एम सेल्वाम (सं. 1380136के अब जेसी-308134एम), 28 मार्च 2005\$

हवलदार जी.डी. एस रामाचंद्रन (सं. 1373832वाई अब जेसी-308141एच), 28 फरवरी 2005\$

हवलदार जी.डी. इलुमालाइ टी (सं. 1372808डब्ल्यू अब जेसी-308143एन), 11 मार्च 2005\$

हवलदार जी.डी. बी अंधोनाप्पा (सं. 1371273एफ अब जेसी-308144डब्ल्यू), 12 फरवरी 2005\$

हवलदार जी.डी. एस गागारिल सिंह (सं. 15315053एफ अब जेसी-308147एक्स), 03 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. एल चोंबा सिंह (सं. 15315140पी अब जेसी-308148एम), 07 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. पल एम डी (सं. 1374350डब्ल्यू अब जेसी-308149पी), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. शाजि एस (सं. 1379409पी अब जेसी-308150के), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. अब्दुल रहिमान आर वाइ (सं. 1377007वाई अब जेसी-308152पी), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. रमन पी (सं. 1371133पी अब जेसी-308153एक्स), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. एस राजेंद्रन (सं. 15303885एच अब जेसी-308154ए), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. ए दक्षना (सं. 1370945डब्ल्यू अब जेसी-308155एच), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. के नटराजान (सं. 1375295एक्स अब जेसी-308156एल), 02 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. ए ब्रिद्धो सगायाराज (सं. 1380956डब्ल्यू अब जेसी-308158डब्ल्यू), 02 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. ताजुद्दीन बाबा (सं. 1383437वाई अब जेसी-308159वाई), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. के अंबालागन (सं. 15301679एन अब जेसी-308162वाई), 07 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. कमलाकशन यू (सं. 15301903पी अब जेसी-308163एफ), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. राधाकृष्णा पिल्लै एम (सं. 1372434एल अब जेसी-308164के), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. एस राजसेकरन नायर (सं. 15308938एन अब जेसी-308165एम), 07 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. टी गुरुनाथा (सं. 15311792डब्ल्यू अब जेसी-308166पी), 01 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. एस बोस (सं. 1370976डब्ल्यू अब जेसी-308172एच), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. शंमुगम (सं. 1375247एक्स अब जेसी-308174एन), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. जोनि जार्ज (सं. 1380973डब्ल्यू अब जेसी-308179एम), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. एन सुब्बारायुडु (सं. 1373875एन अब जेसी-308184एक्स), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. राधाकिष्णन नायर के (सं. 1375250 एक्स अब जेसी-308186एच), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. दयालन जी (सं. 1378699एल अब जेसी-308188एन), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. डी रघुनाथा रेड्डी (सं. 1375950एल अब जेसी-308189डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005\*

हवलदार जी.डी. ए एदवार्द (सं. 1378704एल अब जेसी-308192डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005\*

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जायेगी)

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी)

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जायेगी)

\$ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी)

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

हवलदार जी.डी. मगेथिरन (सं. 1370455एच अब जेसी-308151एम), 02 मार्च 2005&

हवलदार जी.डी. टी चंद्रन (सं. 1376699एम अब जेसी-308157एन),  
01 मार्च 2005%

हवलदार जी.डी. रमेशपी वी (सं. 15301113ए अब जेसी-308160एन),  
01 मार्च 2005%

हवलदार जी.डी. पी एम पालानि (सं. 1371014वाई अब  
जेसी-308171ए), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. आर सेंथुर पांडियन (सं. 1375702पी अब  
जेसी-308173एल), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. एस अरोक्कियाराज (सं. 1372513ए अब  
जेसी-308175डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. पित्ता पिल्लै एन (सं. 1375046वाई अब  
जेसी-308176वाई), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. सकरन आर (सं. 1375410एम अब  
जेसी-308177एफ), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. वासुदेवन के (सं. 1377248वाई अब  
जेसी-308178के), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. शैक इब्राहिम वालि (सं. 1374167एन अब  
जेसी-308181के), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. अमरनाथन के एम (सं. 1375279ए अब  
जेसी-308187एल), 01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. विजयन के (सं. 1377081ए अब जेसी-308190एल),  
01 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. अटोनी क्रूज एस (सं. 1377696एल अब  
जेसी-308191एन), 12 अप्रैल 2005#

हवलदार जी.डी. ए जेमस विल्लियम पीटर (सं. 1376801के अब  
जेसी-308208डब्ल्यू), 01 मई 2005&

हवलदार जी.डी. बी सरवनन (सं. 1374945एन अब  
जेसी-308215एम), 02 मई 2005&

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी)

# (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी)

& (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी)

रोजी शर्मा  
उप सचिव

-----

सं. 415, दिनांक 22 जुलाई 2005--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

नियमित सेना

पेराशूट रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जय बक्श सिंह (जेसी-220116एफ), 01 जून 2004

सूबेदार इन्द्र जीत सिंह (जेसी-210892एन), 07 जून 2004

सूबेदार चालके अंकुश गणपत (जेसी-199211एक्स), 06 अगस्त 2004

सूबेदार गवाटे भाऊ साहेब दशरथ (जेसी-188447एम), 01 अक्टूबर  
2004

सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-412066डब्ल्यू), 23 दिसम्बर 2004

11 जी आर

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) इन्द्रेशवर बोरऊवा (जेसी-412511के), 01  
जनवरी 2005

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मन धोज राई (जेसी-222821वाई), 01 जनवरी 2005

सूबेदार/लिपिक धन बीर सिंह रावत (जेसी-634002पी), 11 फरवरी  
2005

सूबेदार बिराज कुमार सुब्बा (जेसी-213021वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार मन प्रसाद राई (जेसी-222822एफ), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जंग बहादुर तामंग (जेसी-634375एफ), 12  
जनवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी  
2005 से)

नायब सूबेदार चंद्रा बहादुर राई (जेसी-634334वाई), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार धन करण सुब्बा (जेसी-634356एक्स), 01 फरवरी  
2005

नायब सूबेदार/संगीतकार प्रशु राम राई (जेसी-634390एक्स), 04 अप्रैल  
2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी  
2005 से)

नायब सूबेदार टेक धन लिम्बु (जेसी-634412एल), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार दल बहादुर तामंग (जेसी-634426एल), 07 फरवरी  
2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी  
2005 से)

नायब सूबेदार नरेश कुमार राई (जेसी-634427एल), 21 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी  
2005 से)

नायब सूबेदार जस बहादुर राई (जेसी-634407ए), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार मंगल राई (जेसी-634410ए), 09 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005  
से)

नायब सूबेदार धन बहादुर तामंग (जेसी-634411एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार नीमा लामा (जेसी-634413एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह प्रधान (जेसी-634403के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार प्रवीन राई (जेसी-634428डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार टंक कुमार तामंग (जेसी-634434के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार कर्ण बहादुर राई (जेसी-634429वाई), 01 फरवरी 2005  
नायब सूबेदार कर्ण बहादुर तामंग (जेसी-634430एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अक्कल बहादुर राई (जेसी-634421एम), 10 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार बिष्णु राज राई (जेसी-634425एच), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार मिलन सुब्बा (जेसी-634439एच), 01 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार शुवो कुमार राई (जेसी-634437एक्स), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार मिश्रा बहादुर लोकसोम (जेसी-634438ए), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार सहर मान लिम्बु (जेसी-634441ए), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार जयंत कुमार राई (जेसी-634448के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार राम प्रसाद मैयम्बो (जेसी-634449एम), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार भीम बहादुर राई (जेसी-634505एम), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार शमशेर बहादुर लिम्बु (जेसी-634495एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार निर्गम चंद्रा राई (जेसी-634458एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार राज कुमार लिम्बु (जेसी-634459डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार श्याम प्रकाश राई (जेसी-634518एक्स), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार धर्म राज लामा (जेसी-634461एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार हर्क राज राई (जेसी-634462डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार ऐवा सिंह राई (जेसी-634466एम), 11 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार प्रह्लाद राई (जेसी-634467पी), 12 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार कल्याण तमांग (जेसी-634496के), 01 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार कृष्णा कुमार राई (जेसी-634472ए), 01 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार देव जंग तमांग (जेसी-634480वाई), 09 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार ईम प्रसाद सुब्बा (जेसी-634478एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार पूनम तमांग (जेसी-634481एफ), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार अनूप कुमार स्यांग्वो (जेसी-634485एक्स), 01 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार दिलिप कुमार राई (जेसी-634508एन), 12 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार/लिपिक नारायण केशव (जेसी-634253वाई), 26 फरवरी 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 03 फरवरी 2005 से)

नायब सूबेदार/लिपिक योगेंद्र (जेसी-634272के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार हरी राम पंडित क्षेत्री (जेसी-634487एच), 31 मार्च 2005

(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005 से)

नायब सूबेदार/लिपिक शक्ति सिंह (जेसी-634350डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भरत काजी केसी (सं. 5845567वाई अब जेसी-629693एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार हरी बहादुर खत्री (सं. 5845525एम अब जेसी-629694एल), 07 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005+

हवलदार प्रेम कुमार छेत्री (सं. 5845357वाई अब जेसी-629683वाई),  
05 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार भुवन सिंह छेत्री (सं. 5845696वाई अब जेसी-629684एफ),  
05 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं. 5845424डब्ल्यू अब  
जेसी-629685के), 17 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार शेर बहादुर कार्की (सं. 5845465एच अब  
जेसी-629686एम), 07 दिसम्बर 2004/11 नवम्बर 2004+

हवलदार तिलक राम रोका छेत्री (सं. 5845779के अब  
जेसी-629687एफ), 04 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार लक्ष्मण थापा (सं. 5845826डब्ल्यू अब जेसी-629688एक्स),  
03 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार दान बहादुर कार्की (सं. 5845751के अब जेसी-629689ए),  
11 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार बेल बहादुर छेत्री (सं. 5845528ए अब जेसी-629690पी),  
07 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार नारायण बहादुर थापा (सं. 5845454डब्ल्यू अब  
जेसी-629691एक्स), 11 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार लोक बहादुर खत्री (सं. 5845782के अब जेसी-629692ए),  
11 दिसम्बर 2004/02 दिसम्बर 2004+

हवलदार प्रेम बहादुर साही (सं. 5845400पी अब जेसी-629677एल),  
21 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार पदम सिंह छेत्री (सं. 5845387डब्ल्यू अब जेसी-629678एन),  
03 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार राम बहादुर सेन (सं. 5845358एफ अब जेसी-629679डब्ल्यू),  
03 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार झलक बहादुर क्षेत्री (सं. 5845487एफ अब  
जेसी-629680एल), 03 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार अर्जुन बहादुर खडका (सं. 5845804एक्स अब  
जेसी-629681एन), 14 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार रामजी शाखी क्षेत्री (सं. 5845446एक्स अब  
जेसी-629682डब्ल्यू) 17 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार भीम बहादुर छेत्री (सं. 5846720डब्ल्यू अब जेसी-629671के),  
26 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार गोविन्द बहादुर मल्ल (सं. 5845331के अब  
जेसी-629672एम), 14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार लोक बहादुर थापा (सं. 5845329एम अब  
जेसी-629673एच), 14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार श्वगेन्द्रा बहादुर खत्री (सं. 5845343वाई अब  
जेसी-629674एक्स), 14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार चित्रा बहादुर छेत्री (सं. 5845873एन अब जेसी-629675ए),  
14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार बेश बहादुर कार्की छेत्री (सं. 5845389एफ अब  
जेसी-629676एच), 14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार प्रेम राज अधिकारी (सं. 5845749एम अब  
जेसी-629652वाई), 12 मार्च 2004/01 मार्च 2004+

हवलदार कुल बहादुर भन्डारी (सं. 5846076पी अब  
जेसी-629653एफ), 01 अप्रैल 2004

हवलदार तेज नारायण तिवारी (सं. 5846338ए अब जेसी-629654के),  
01 अप्रैल 2004

हवलदार अशील बहादुर शाही (सं. 5846624एफ अब  
जेसी-629655एम), 01 अप्रैल 2004

हवलदार/लिपिक दरोगा साह (सं. 5846294एन अब जेसी-629656पी),  
07 मई 2004/01 मई 2004+

हवलदार चित्रा बहादुर थापा (सं. 5845340एल अब  
जेसी-629657एक्स), 26 जून 2004/24 अप्रैल 2004+

हवलदार मोहन बहादुर साही, सेना मेडल (सं. 5845771एक्स अब  
जेसी-629664एन), 08 जून 2004/01 जून 2004+

हवलदार/लिपिक प्रताप सिंह (सं. 5846265वाई अब  
जेसी-629666वाई), 01 सितम्बर 2004/01 जुलाई 2003+

हवलदार रुद्रा बहादुर छेत्री (सं. 5845746के अब जेसी-629667एफ),  
01 अक्टूबर 2004/01 अप्रैल 2004+

हवलदार अमृत बहादुर मल्ला (सं. 5845651वाई अब  
जेसी-629668के), 01 जुलाई 2004

हवलदार बाल कृष्ण केसी (सं. 5845378पी अब जेसी-629669एम),  
01 अगस्त 2004

हवलदार बोम बहादुर पंत छेत्री (सं. 5845801एफ अब  
जेसी-629670एफ), 01 सितम्बर 2004

हवलदार प्रेम बहादुर बासनेत (सं. 5845284एक्स अब  
जेसी-629658ए), 26 जुलाई 2004/30 अप्रैल 2004+

हवलदार राम बहादुर छेत्री (सं. 5845388वाई अब जेसी-629659एच),  
26 जुलाई 2004/30 अप्रैल 2004+

हवलदार ओम बहादुर अधिकारी (सं. 5845420एच अब  
जेसी-629660एक्स), 26 जुलाई 2004/30 अप्रैल 2004+

हवलदार गोपाल सिंह थापा (सं. 5845292डब्ल्यू अब जेसी-629661ए),  
01 मई 2004

हवलदार विर्य बहादुर थापा (सं. 5845383ए अब जेसी-629662एच),  
01 मई 2004

हवलदार घन बहादुर खडका (सं. 5845500ए अब जेसी-629663एल),  
26 जुलाई 2004/01 मई 2004+



हवलदार लोक बहादुर मल्ल (सं. 5845018वाई अब जेसी-629646एल), 13 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2002+

हवलदार रुद्रा बहादुर थापा (सं. 5845198एम अब जेसी-629647एन), 28 मार्च 2004/01 फरवरी 2004+

हवलदार दत्त बहादुर सेन (सं. 5845239एल अब जेसी-629648डब्ल्यू), 28 मार्च 2004/01 मार्च 2004+

हवलदार प्रेम बहादुर केसी (सं. 5845515एच अब जेसी-629649वाई), 28 मार्च 2004/01 मार्च 2004+

हवलदार प्रेम बहादुर घर्ती छेत्री (सं. 5845831एफ अब जेसी-629650एन), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004+

हवलदार भीम बहादुर खड्का (सं. 5846100ए अब जेसी-629651डब्ल्यू), 10 मार्च 2004/01 मार्च 2004+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

### 3 जी आर

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नेम बहादुर गुरुंग (सं. 5244879एल अब जेसी-607596एल), 09 फरवरी 2005/01 नवम्बर 2004+

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 5245055पी अब जेसी-607597एन), 09 फरवरी 2005/19 नवम्बर 2004+

हवलदार काजी राज थापा (सं. 5245482डब्ल्यू अब जेसी-607598डब्ल्यू), 03 फरवरी 2005/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार कृष्णा प्रसाद गुरुंग (सं. 5244648पी अब जेसी-607599वाई), 20 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005+

हवलदार हेम बहादुर राना (सं. 52451465वाई अब जेसी-607591एम), 05 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार ऐत मान गुरुंग (सं. 5245199एक्स अब जेसी-607592पी), 07 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार बिशु बहादुर थापा (सं. 5245501एल अब जेसी-607593एक्स), 05 दिसम्बर 2004/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार दुद मान गुरुंग (सं. 5245470डब्ल्यू अब जेसी-607594ए), 24 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004+

हवलदार दुर्गा बहादुर राना (सं. 5245034वाई अब जेसी-607595एच), 21 फरवरी 2005/01 नवम्बर 2004+

हवलदार भीम बहादुर मगर (सं. 5245068एम अब जेसी-607586एफ), 01 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार शुक्र बहादुर राना (सं. 5244642एन अब जेसी-607587के), 20 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005+

हवलदार अनन्ता बहादुर थापा (सं. 5245136पी अब जेसी-607588एम), 05 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार कुल बहादुर राना (सं. 5245465एल अब जेसी-607589पी), 22 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार टोप बहादुर थापा (सं. 5245454एक्स अब जेसी-607590के), 28 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004+

हवलदार देब बहादुर थापा (सं. 5245282पी अब जेसी-607581एच), 08 नवम्बर 2004/12 अक्टूबर 2004+

हवलदार खीम बहादुर थापा (सं. 5245336एल अब जेसी-607582एल), 08 नवम्बर 2004/12 अक्टूबर 2004+

हवलदार/लिपिक नागेन्द्रा यादव (सं. 5245123के अब जेसी-607583एन), 08 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार गंगा बहादुर थापा (सं. 5244898डब्ल्यू अब जेसी-607584डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004+

हवलदार पाम बहादुर गुरुंग (सं. 5245169ए अब जेसी-607585वाई), 27 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004+

हवलदार श्री बहादुर राना (सं. 5245121एम अब जेसी-607576एक्स), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार पूरन बहादुर गुरुंग (सं. 5245119पी अब जेसी-607577ए), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार दल कुमार थापा (सं. 5245128डब्ल्यू अब जेसी-607578एच), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार नरेश थापा (सं. 5245768ए अब जेसी-607579एल), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार बीर बहादुर साही (सं. 5244861पी अब जेसी-607580ए), 31 अक्टूबर 2004/ 01 अक्टूबर 2004+

हवलदार दिला राम श्रेष्ठ (सं. 5244662एफ अब जेसी-607571वाई), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार केम बहादुर गुरुंग (सं. 5244815ए अब जेसी-607572एफ), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं. 5244690एन अब जेसी-607573के), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार इशोर प्रसाद गुरुंग (सं. 5245073एक्स अब जेसी-607574एम), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार हिम बहादुर गुरुंग (सं. 5245104एम अब जेसी-607575पी), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार मन बहादुर गुरुंग (सं. 5244646के अब जेसी-607566एन), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार तेज राज गुरुंग (सं. 5244640एच अब जेसी-607567डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार कुल बहादुर सिंह राना (सं. 5244633एम अब जेसी-607568वाई), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार नागयण बहादुर गुरुंग (सं. 5244793एम अब जेसी-607569एफ),  
01 अक्टूबर 2004

हवलदार गुमान सिंह थापा (सं. 5244377एच अब  
जेसी-607570डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार बिशु प्रसाद तिवारी (सं. 5245463ए अब जेसी-607561पी),  
01 अगस्त 2004

हवलदार नर बहादुर गुरुंग (सं. 5244585एक्स अब  
जेसी-607562एक्स), 08 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004+

हवलदार नर बहादुर थापा (सं. 5244585एक्स अब जेसी-607563ए),  
08 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004+

हवलदार खेम बहादुर केसी (सं. 5245464एच अब जेसी-607564एच),  
01 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004+

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 5244625एन अब जेसी-607565एल),  
01 अक्टूबर 2004

हवलदार ओम नाथ राना (सं. 5244615के अब जेसी-607555एफ),  
01 जुलाई 2004

हवलदार नन्द बहादुर पुन (सं. 5245030एच अब जेसी-607556के),  
01 जुलाई 2004

हवलदार बीर बहादुर पुन (सं. 5244527एन अब जेसी-607557एम),  
27 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004+

हवलदार फारम बहादुर पुन (सं. 5244571एक्स अब जेसी-607558पी),  
27 अगस्त 2004/01 जुलाई 2004+

हवलदार अनूप कुमार राना (सं. 5245084के अब जेसी-607559एक्स),  
01 अगस्त 2004

हवलदार राज बहादुर गुरुंग (सं. 5245098के अब जेसी-607560एम),  
01 अगस्त 2004

हवलदार शेर बहादुर तमींग (सं. 5244533एफ अब जेसी-607549एम),  
01 मई 2004

हवलदार इन्द्रा बहादुर गुरुंग (सं. 5244579के अब जेसी-607550एच),  
01 जून 2004

हवलदार मन बहादुर थापा (सं. 5244621एक्स अब  
जेसी-607551एल), 03 जून 2004/01 जून 2004+

हवलदार भेल बहादुर थापा (सं. 5245427पी अब जेसी-607552एन),  
15 जुलाई 2004/01 जून 2004+

हवलदार बेद बन्धु रेगमी (सं. 5244538एफ अब जेसी-607553डब्ल्यू),  
15 जुलाई 2004/15 जून 2004+

हवलदार राजू थापा (सं. 5244590एच अब जेसी-607554वाई), 01  
जुलाई 2004

हवलदार संजय कुमार (सं. 5245399एन अब जेसी-607543एल),  
03 मई 2004/01 फरवरी 2004+

हवलदार लेख नाथ तिवारी (सं. 5245466एन अब जेसी-607544एन),  
26 अप्रैल 2004/01 मार्च 2004+

हवलदार विजय बहादुर थापा (सं. 5244380एच अब  
जेसी-607545डब्ल्यू), 06 मई 2004/30 मार्च 2004+

हवलदार शेर बहादुर गुरुंग (सं. 5244557एल अब जेसी-607546वाई),  
06 मई 2004/30 मार्च 2004+

हवलदार राम बहादुर मगर (सं. 5244452एफ अब जेसी-607547एफ),  
06 मई 2004/01 अप्रैल 2004+

हवलदार धन बहादुर पुन (सं. 5244500डब्ल्यू अब जेसी-607548के),  
14 अप्रैल 2004/01 अप्रैल 2004+

+नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना  
ज्येष्ठता दी जायेगी।

बिहार रेजिमेंट

सूबेदार मेजर जी.डी./लिपिक के रैंक में

सूबेदार अमरेन्द्र कुमार लकड़ा (जेसी-203243वाई), 18 मई 2004/01  
मार्च 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार मेजर के रैंक में ज्येष्ठता  
दिनांक 01 मार्च 2004 से दी जाती है)

सूबेदार धीर बहादुर सिंह, सेना मेडल (जेसी-558378ए), 01 अक्टूबर  
2004

सूबेदार/लिपिक रामाधार प्रसाद (जेसी-558117एम), 05 दिसम्बर  
2004/01 अप्रैल 2003 (काल्पनिक ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार मेजर के रैंक में काल्पनिक  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2003 से दी जाती है)

सूबेदार मागू बेडिंग, सेना मेडल (जेसी-558461एक्स), 02 जनवरी  
2005/01 जनवरी 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार मेजर के रैंक में ज्येष्ठता  
दिनांक 01 जनवरी 2004 से दी जाती है)

सूबेदार पॉलुस कुजूर (जेसी-224572के), 01 मार्च 2005

सूबेदार रमेश चन्द्र यादव (जेसी-558540एम), 01 मार्च 2005

सूबेदार उमेश कुर्वैर (जेसी-558424के), 23 मार्च 2005/01 नवम्बर  
2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार मेजर के रैंक में ज्येष्ठता  
दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

सूबेदार जी.डी./लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार सुधीर शर्मा (जेसी-558847एक्स), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार (लिपिक) उपेन्द्र नाथ बारिक (जेसी-558789वाई),  
11 सितम्बर 2004/01 जुलाई 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार (लिपिक) के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) बिवेका नन्द दास (जेसी-558799एच),  
01 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार (लिपिक) के रैंक में  
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रदीप कुमार कुजूर (जेसी-558877पी), 11 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम नारायण सिंह (जेसी-558983एन), 15 दिसम्बर 2004/15 अक्टूबर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राम दुलार राम (जेसी-558874एफ), 03 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जोसेफ कछवा (जेसी-559032एच), 12 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार हरि राम साह (जेसी-559120वाई), 18 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सोनिका हेम्ब्रम (जेसी-558863पी), 01 मार्च 2005/01 दिसम्बर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सुनिल मिन्ज, सेना मेडल (जेसी-558879ए), 01 मार्च 2005/01 फरवरी 2005 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिमल नाग (जेसी-559074पी), 14 मार्च 2005/01 अक्टूबर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अमर नाथ पाण्डेय (जेसी-558895एक्स), 15 मार्च 2005/01 अगस्त 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बिन्दा साह (जेसी-558897एच), 15 मार्च 2005/01 अक्टूबर 2004 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नन्द कुमार सिंह (जेसी-559080एच), 21 अप्रैल 2005/04 मार्च 2005 (ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 04 मार्च 2005 से दी जाती है)

सिख रेजीमेन्ट  
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-224420एच), 09 मार्च 05

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 05)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-499017एफ), 27 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 04)

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जेसी-499319एन), 15 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 04)

नायब सूबेदार कुलविन्दर सिंह (जेसी-499328पी), 15 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 04)

नायब सूबेदार सरबजीत सिंह (जेसी-499348एच), 15 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 04)

नायब सूबेदार किरपाल सिंह (जेसी-499135पी), 04 अप्रैल 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 05)

नायब सूबेदार सुखमन्दर सिंह (जेसी-499155एच), 20 जनवरी 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जनवरी 05)

नायब सूबेदार दलविन्दर सिंह (जेसी-499127डब्ल्यू), 24 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 05)

नायब सूबेदार गुलजार सिंह (जेसी-499170एक्स), 20 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 फरवरी 05)

नायब सूबेदार लखबीर सिंह (जेसी-499198एक्स), 24 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 05)

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-499199ए), 24 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 05)

नायब सूबेदार जगराज सिंह (जेसी-499204ए), 20 मार्च 05

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 05)

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह, एस सी (जेसी-499264पी), 05 अप्रैल 05 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 05)	नायब सूबेदार दया राम सिंह (जेसी-449125पी), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार रशपाल सिंह, एस एम (जेसी-498984ए), 24 मार्च 05 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 05)	नायब सूबेदार अर्जुन राम (जेसी-449183एक्स), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार सरबजीत सिंह (जेसी-499146एफ), 19 मार्च 05 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 05)	नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-449189ए), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार सुचा सिंह (जेसी-498995डब्ल्यू), 11 अप्रैल 05 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 मार्च 05)	नायब सूबेदार शुगन सिंह (जेसी-449208ए), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-499118पी), 01 अप्रैल 05	नायब सूबेदार भीम सिंह गुर्जर (जेसी-449249के), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जेसी-499291वाई), 01 अप्रैल 05	नायब सूबेदार राम दयाल गुर्जर (जेसी-449252के), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-499292एफ), 01 अप्रैल 05	नायब सूबेदार रघुवीर सिंह जाट (जेसी-449255एक्स), 01 मार्च 2004
सूबेदार क्लर्क के रैंक में	नायब सूबेदार भुमि देव (जेसी-449281वाई), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार क्लर्क चरण सिंह (जेसी-498815एच), 17 जनवरी 05 (सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 04)	नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-449282एफ), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार क्लर्क अवतार सिंह (जेसी-498958एच), 01 अप्रैल 05	नायब सूबेदार पानदोर चन्दु भाई जेमा भाई (जेसी-449316के) 01 मार्च 2004
प्रेनेडियर्स सूबेदार के रैंक में	नायब सूबेदार सामदे खान (जेसी-449287ए), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार शिव पाल राम (जेसी-449259एन), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार सदन सिंह तोमर (जेसी-449298एम), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार राज नारायण सिंह (जेसी-448831के), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-449317एम), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार तफसीर खान (जेसी-449006वाई), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-449320एम), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार कैलाश चन्द (जेसी-449089पी), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार राकेश सिंह (जेसी-449371ए), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार दीनदयाल सिंह (जेसी-449245एन), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार जगवीर सिंह (जेसी-449325एल), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-449283के), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार राज सिंह गौर (जेसी-449333के), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार ब्रिज लाल (जेसी-449101एल), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रताप सिंह (जेसी-449377एफ), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार जयदेव सिंह (जेसी-449109एक्स), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-449348एम), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-449320एम), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार सीता राम दास (जेसी-449430एफ), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-449312एन), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार भारत सिंह (जेसी-449505एन), 01 मार्च 2004
नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-449082एल), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार राम भगत (जेसी-449180एल), 11 मार्च 2004
नायब सूबेदार जगबीर सिंह रूहील (जेसी-449083एन), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार मनवर खान (जेसी-449106के), 21 मार्च 2004
नायब सूबेदार सत्यवीर सिंह (जेसी-449128एच), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार विद्याधर जाकर (जेसी-448824एन), 01 अप्रैल 2004
नायब सूबेदार जगत सिंह (जेसी-449129एल), 01 मार्च 2004	नायब सूबेदार गोवर्धन सिंह राजपूत (जेसी-448857वाई), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार विशेश्वर लाल (जेसी-449012एम), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार बाबू लाल (जेसी-449013पी), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जेसी-449028एक्स), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-449046ए), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-449068वाई), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार गजे सिंह (जेसी-449363एफ), 01 अप्रैल 2004
	नायब सूबेदार राज बहादुर सिंह सेंगर (जेसी-449302के), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार राम वकील सिंह (जेसी-449111पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार चुन्नी लाल (जेसी-449390एल), 07 अप्रैल 2004
नायब सूबेदार अमर सिंह दयाल (जेसी-449095एच), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार जयवीर सिंह (जेसी-449451एक्स), 06 मई 2004
नायब सूबेदार दर्शन कुमार (जेसी-449161ए), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार जारो सिंह (जेसी-449347के), 07 मई 2004
नायब सूबेदार कर्नेल सिंह (जेसी-449158ए), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार श्यामबीर सिंह तोमर (जेसी-449418ए), 09 मई 2004
नायब सूबेदार याद राम सिंह (जेसी-449164एन), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार भूरे सिंह भदुरिया (जेसी-449440एल), 19 मई 2004
नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-449179डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार महिपाल सिंह (जेसी-449344डब्ल्यू), 30 मई 2004
नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद मीना (जेसी-449173पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-448974के), 01 जून 2004
नायब सूबेदार सुलतान सिंह राठौर (जेसी-449200एन), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-448963एक्स), 01 जून 2004
नायब सूबेदार मांगी लाल (जेसी-449431के), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार जगदीश लाल (जेसी-449239ए), 01 जून 2004
नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-449226एच), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार कैलाश चन्द मीना (जेसी-449349एम), 08 जून 2004
नायब सूबेदार धाना राम चौधरी (जेसी-449352पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार गनेश दत्त (जेसी-449480एम), 22 जून 2004
नायब सूबेदार उमेद सिंह (जेसी-449234एफ), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार शीश राम गुर्जर (जेसी-449489एफ), 22 जून 2004
नायब सूबेदार बजरंग लाल (जेसी-449258एल), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार नाहार सिंह मुन्द (जेसी-449552एल), 22 जून 2004
नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-449354ए), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-449579एच), 22 जून 2004
नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-449293एन), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-449601एच), 22 जून 2004
नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-449318पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जेसी-449644एक्स), 22 जून 2004
नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-449309एन), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-449278वाई), 28 जून 2004
नायब सूबेदार ब्रिज मोहन सिंह (जेसी-449310एच), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार जीत राम (जेसी-449153एफ), 01 जुलाई 2004
नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-449321पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-448985डब्ल्यू), 11 जुलाई 2004
नायब सूबेदार घनशाम सिंह (जेसी-449367एक्स), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार बलजीत सिंह (जेसी-449092पी), 23 जुलाई 2004
नायब सूबेदार शत्रुघ्न सिंह (जेसी-449364के), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार मंगतू राम (जेसी-449313डब्ल्यू), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार हरजीवन सिंह यादव (जेसी-449326एन), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-449397पी), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार सत पाल सिंह (जेसी-449341एच), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार फूल मोहम्मद (जेसी-449403एक्स), 01 अगस्त 2004
नायब सूबेदार गुनाई सिंह (जेसी-449343एन), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार बलराम (जेसी-449331वाई), 02 अगस्त 2004
नायब सूबेदार प्रयाग सिंह भांटी (जेसी-449380एफ), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार मुस्ताक अली खान (जेसी-448563एल), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार यश पाल सिंह (जेसी-449381के), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार लाल खान (जेसी-449131एच), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार शमशेर सिंह (जेसी-449369एच), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार नन्द राम जाट (जेसी-449353एक्स), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार जयकरन सिंह (जेसी-449387एल), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार पटेल भूगेन्द्र कुमार कासी राम (जेसी-449379एम), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार पुर्ण सिंह (जेसी-449425डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार अमर सिंह शेखावत (जेसी-449417एक्स), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार जीत राम (जेसी-449446एम), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार पटेल सिंह (जेसी-449437एल), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-449464पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार लीला राम खटाना (जेसी-449609पी), 01 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार हरीश कुमार (जेसी-449559पी), 01 अप्रैल 2004	नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-449250वाई), 12 सितम्बर 2004
नायब सूबेदार रामेश्वर (जेसी-449465एक्स), 01 अप्रैल 2004	

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-449439डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2004	हवलदार निर्मल कुमार (सं. 2677691एफ अब जेसी-449887एच), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार गगन सिंह (जेसी-448893के), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार सत्यवीर (सं. 2676727एच अब जेसी-449888एल), 01 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार तीर्थ राम (जेसी-448894एम), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार वेद सिंह (सं. 2677965एफ अब जेसी-449889एन), 06 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार धर्मवीर सिंह (जेसी-449056के), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार हरकेश सिंह गुजर (सं. 2687388एन अब जेसी-449890एच), 20 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार जीत चन्द (जेसी-449159एच), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार विजेन्द्र (सं. 2679234एम अब जेसी-449891एल), 15 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-449168के), 01 अक्टूबर 2004	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2004)
नायब सूबेदार छगन लाल मीना (जेसी-449241एक्स), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार नानक सिंह मीणा (सं. 2679694एन अब जेसी-449892एन), 20 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-449199के), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार राम लखन सिंह (सं. 2676514पी अब जेसी-449893डब्ल्यू), 25 जनवरी 2005
नायब सूबेदार दया राम (जेसी-449269एक्स), 01 अक्टूबर 2004	(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2004)
नायब सूबेदार इरशाद अली (जेसी-449210एक्स), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार तेज पाल सिंह (सं. 2676136एफ अब जेसी-449894वाई), 20 नवम्बर 2004
नायब सूबेदार योगेश मीना (जेसी-449262एन), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार प्रेमवीर सिंह (सं. 2680294एन अब जेसी-449895एफ), 01 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-449286एक्स), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार अशोक अंग्रेला (सं. 2677067एच अब जेसी-449896के), 01 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार सत्य पाल (जेसी-449288एच), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार अयूब खान (सं. 2675805एच अब जेसी-449897एम), 09 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार हरि सिंह (जेसी-449375डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार शेर सिंह (सं. 2677774एम अब जेसी-449898पी), 19 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार बजरंग सिंह (जेसी-449342एल), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार अशोक कुमार (सं. 2673737एफ अब जेसी-449899एक्स), 19 दिसम्बर 2004
नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-449384एक्स), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार गुल फाम (सं. 2675733के अब जेसी-449900एफ), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार सीया राम (जेसी-449427एफ), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार उस्मान अली (सं. 2676212एच अब जेसी-449901के), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार रोहतास सिंह (जेसी-449514पी), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार रुसमत अली (सं. 2675657एच अब जेसी-449902एम), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार रोशन (जेसी-449549एल), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार दलीप सिंह (सं. 2677696ए अब जेसी-449903पी), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार जीवन खान (जेसी-449598एन), 01 अक्टूबर 2004	हवलदार करनी राम (सं. 2675449एन अब जेसी-449904एक्स), 01 जनवरी 2005
नायब सूबेदार के रैंक में	
हवलदार वाला प्रफुल्ल कुमार भागवत सिंह (सं. 2682120एम अब जेसी-449882के), 10 जुलाई 2004	
हवलदार वेद प्रकाश (सं. 2675519एफ अब जेसी-449883एम), 01 अक्टूबर 2004	
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जुलाई 2004)	
हवलदार चौहान कमलेश भाई गोविन्द भाई (सं. 2682879ए अब जेसी-449884पी), 08 नवम्बर 2004	
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004)	
हवलदार राम हरी (सं. 2679494एक्स अब जेसी-449885एक्स), 12 सितम्बर 2004	
हवलदार रंधीर सिंह (सं. 2676305एक्स अब जेसी-449886ए), 17 नवम्बर 2004	
(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2004)	

हवलदार मस्त राम (सं. 2682099पी अब जेसी-449905ए), 01 जनवरी 2005

हवलदार बाबू लाल (सं. 2676526के अब जेसी-449906एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार दर्शन लाल (सं. 2674924एम अब जेसी-449907एल), 01 जनवरी 2005

हवलदार धर्मेन्द्र सिंह (सं. 2680133एल अब जेसी-449908एन), 01 जनवरी 2005

#### डोंगरा रेजिमेण्ट

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-518552वाई), 07 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से)

सूबेदार रामजी दास (जेसी-518746एफ), 25 फरवरी 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से)

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार शशी पॉल (जेसी-519091एम), 31 मई 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2004 से)

नायब सूबेदार रमेश चन्द चन्देल (जेसी-519197वाई), 25 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार बवशी राम (जेसी-519255एक्स), 20 जुलाई 2004

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जेसी-519256ए), 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार प्रहलाद सिंह (जेसी-519362वाई), 14 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से)

नायब सूबेदार रघु नाथ (जेसी-519325एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार हंस राज (जेसी-519326एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-519580एक्स), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार बल राम (जेसी-519582एच), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार कमल सिंह (जेसी-519432एम), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार देविन्द्र सिंह (जेसी-519583एल), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार राम कृष्ण (जेसी-519627एक्स), 28 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार कृष्ण लाल (जेसी-519606एफ), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी-519621डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-519622वाई), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार रज्जू राम (जेसी-519642एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जेसी-519670वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-519695एल), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार तरसेम सिंह (जेसी-519730एच), 01 फरवरी 2005

##### सूबेदार (लिपिक के रैंक में)

नायब सूबेदार लिपिक सुख देव शर्मा (जेसी-519200एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार लिपिक वीरेन्द्र कुमार पठानीया (जेसी-519257एच), 01 जनवरी 2005

##### जम्मू और काश्मीर राईफल्स

##### सूबेदार मेजर जी.डी. के रैंक में

सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-578569डब्ल्यू), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

सूबेदार वरयाम चन्द (जेसी-578763एल), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2005

सूबेदार विद्या धर (जेसी-578698पी), जैक राईफल्स, 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार किशोर सिंह (जेसी-579475एल), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार शंकर दास (जेसी-579542एल), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार शशी कुमार सिंह (जेसी-579552पी), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार ओम राज (जेसी-579553एक्स), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार मंगला प्रसाद (जेसी-579585ए), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-579595के), जैक राईफल्स, 01 अगस्त 2004

नायब सूबेदार धनत्तर सिंह (जेसी-579237वाई), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार हरजीत सिंह सेना मैडल (जेसी-579538एच), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार पदम देव सिंह (जेसी-579569एच), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार निरंजन दास ठाकुर (जेसी-579601एम), जैक राईफल्स, 01 सितम्बर 2004

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-579469पी), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार असलीर सिंह (जेसी-579549पी), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-579570एक्स), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार प्रेम चन्द भट (जेसी-579626वाई), जैक राईफल्स, 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार हरीश सिंह छत्री (जेसी-579557एम), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार बालक सिंह (जेसी-579573एल), जैक राईफल्स, 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार नर सिंह (जेसी-579231एक्स), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार राम बहादुर छत्री (जेसी-579418के), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-579566पी), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-579598एक्स), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-579628के), जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार धब छेत्री (जेसी-579534एम), जैक राईफल्स, 14 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-579647पी), जैक राईफल्स, 19 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार धन बहादुर गुरूंग (जेसी-579277ए), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मन बहादुर गुरूंग (जेसी-579460ए), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार गगन सिंह (जेसी-579496एफ), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार विक्रम देव सिंह (जेसी-579563एफ), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह निखाल (जेसी-579571ए), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार बख्शीश सिंह (जेसी-579634एक्स), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-579644एफ), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार हरवंश सिंह (जेसी-579820एन), जैक राईफल्स, 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-579497के), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार सुनील कुमार (जेसी-579632एम), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार भोला राम (जेसी-579640एल), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार बलदेव दास शर्मा (जेसी-579701एक्स), जैक राईफल्स, 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-579657वाई), जैक राईफल्स, 01 मार्च 2005

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री  
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार लाखे अश्रुबा बाबुराव (जेसी-204263ए), 25 जनवरी 2005+  
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

सूबेदार बालकृष्णा राजाराम भोसले (जेसी-203660एम), 17 जनवरी 2005+  
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

सूबेदार पाटील सुधाकर मारुति (जेसी-218447के), 27 जनवरी 2005+  
+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भोसले चंद्रकांत धोंडीराम (जेसी-459117के), 17 जून 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार समसूल हक अली (जेसी-458921वाई), 01 जनवरी 2005+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कृष्णा गंगाराम महाडीक (जेसी-458991एक्स), 01 अक्टूबर 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार धरणे चंद्रकांत गोविंद (जेसी-459049एफ), 05 अक्टूबर 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार अड्कुरकर निवृत्ती कृष्णा (जेसी-458858पी), 27 दिसम्बर 2004+  
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)



नायब सूबेदार कांता रामकृष्णा सावंत (जेसी-458919एफ), 03 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटीज सुबराव आबा (जेसी-459018एफ), 04 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पाटील शाहू कल्लाप्पा (जेसी-459063एन), 03 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चव्हाण विश्वनाथ सखाराम (जेसी-459083एफ), 01 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जयंत भावकू कोवाडकर (जेसी-458962एच), 24 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार यादव रविन्द्र नाथ सदाशिव (जेसी-459103के), 11 दिसम्बर 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दहड़ीकर संजय चंद्रकांत (जेसी-458923के), 01 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वालेकर प्रकाश रामचंद्र (जेसी-459009ए), 01 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोरे युवराज खंडू (जेसी-459088ए), 01 दिसम्बर 2004+

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक डी बालाजी (जेसी-458818एन), 27 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक सुतार अजित वसंत (जेसी-458837वाई), 07 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक अवधेश सिंह (जेसी-458854वाई), 01 जनवरी 2005+

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सदाशिव कामते (जेसी-212543एच), 07 मार्च 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक ढेंबरे वसंत रामचंद्र (जेसी-224376के), 18 फरवरी 2005+

+(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लासूने हमीद अल्लाऊद्दीन (जेसी-458979डब्ल्यू), 22 मार्च 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2003 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गरड हनुमंत भीमराव (जेसी-458613वाई), 22 मार्च 2004+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भिकले दशरथ तुकाराम (जेसी-458976एच), 20 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भीमराव बाबुराव पाटील (जेसी-458942पी), 12 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार थोटे राजेन्द्र पंढरी (जेसी-459011एक्स), 27 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शेलके भानूदास कुंडलीक (जेसी-458929एल), 12 फरवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार घोगने विलास महादेव (जेसी-458996डब्ल्यू), 27 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार यमगर सुभाष महादेव (जेसी-458859एक्स), 04 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार गोविंद भाऊराव कांगणे (जेसी-458860एम), 10 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार एस चेल्लापन (जेसी-459019के), 28 जनवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मारुति दत्तात्रय कुम्भार (जेसी-458981एन), 12 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राऊल दीपक भास्कर (जेसी-458903डब्ल्यू), 31 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दाबीजा पाटील (जेसी-459130एन), 21 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार पटेलिशा बलवंत सिंह रामसिंह (जेसी-459214एफ), 16 फरवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार रामनगौडा बिरादर (जेसी-458967एफ), 08 फरवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार चव्हाण बलिराम जगन्नाथ (जेसी-459020वाई), 14 फरवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार भोसले दत्तात्रय केशव (जेसी-458948डब्ल्यू), 25 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार शेख नवाब (जेसी-459101वाई), 11 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहम्मद अम्मीर खान (जेसी-459068एम), 13 फरवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार सैय्यद गरीबवैल्ली (जेसी-459121एम), 13 फरवरी 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार खराटे विष्णु अर्जुन (जेसी-459126एल), 18 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कृष्णा नारायण सुतार (जेसी-458876एक्स), 12 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार कदम माधवराव श्रीपतीराव (जेसी-458892पी), 13 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार वसाप्पा एच आर (जेसी-459010पी), 14 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार मोहन सोन्याबापू लगड (जेसी-459039एक्स), 15 मार्च 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार दिगम्बर परशुराम नाईक (जेसी-458895एच), 16 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार महादेव दादासो भोसले (जेसी-459023एम), 11 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाती है)

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक राम कुंवर (जेसी-458862एक्स), 01 फरवरी 2005+

## मद्रास रेजीमेन्ट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विस्वोथामन वी (जेसी-439109के), 02 अप्रैल 2005 \*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

नायब सूबेदार राजेन्द्रन पी (जेसी-438927वाई), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार कोमला कुमारन के एम (जेसी-439137डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार प्रकाशन के (जेसी-438932के), 13 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार मरेडूड़ी इन्द्राकर रेड्डी (जेसी-439357ए), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सिंगप्पा शिवप्पा हुंडेकर (जेसी-439192एम), 19 जनवरी 2005

नायब सूबेदार आर मुथैया (जेसी-439023एल), 05 फरवरी 2005

नायब सूबेदार रमेश एन एम (जेसी-439067एच), 01 मार्च 2005

## सिख लाइट इन्फैन्ट्री

## सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-508947एम), 22 जून 2004

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-508826एल), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-508827एन), 01 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार तरशेम सिंह (जेसी-508692एक्स), 01 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार सुखवन्त सिंह (जेसी-508828डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार निर्मल सिंह (जेसी-508859डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जसमेल सिंह (जेसी-508968एच), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-509015एम), 13 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-508737एम), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-508764डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार सुचा सिंह (जेसी-508784के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-508831डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार तसवीर सिंह (जेसी-508832वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-508742एक्स), 08 मार्च 2005

नायब सूबेदार राम सिंह (जेसी-508805पी), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार मुखतार सिंह (जेसी-508911एम), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार जोरा सिंह (जेसी-509022एच), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार सितल सिंह (जेसी-508830एन), 20 फरवरी 2004

नायब सूबेदार गुरतेज सिंह (जेसी-508861एन), 01 अप्रैल 2004

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-508912डब्ल्यू), 01 जून 2004

नायब सूबेदार हरदीप सिंह (जेसी-508755पी), 12 जून 2004

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-508756एक्स), 01 जुलाई 2004

नायब सूबेदार चनन सिंह (जेसी-508791ए), 15 अक्टूबर 2004

नायब सूबेदार निर्भय सिंह (जेसी-508878एफ), 04 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जेसी-508937एच), 08 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार गुरवचन सिंह (जेसी-508866एम), 29 नवम्बर 2004

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-508628एन), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-508846वाई), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-508775एच), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार जगराज सिंह (जेसी-508694एच), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार गुरजन्त सिंह (जेसी-508741पी), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जेसी-508888एल), 01 दिसम्बर 2004

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जेसी-508782वाई), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-508938एल), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार बखतावर सिंह (जेसी-508889एन), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मेहर सिंह (जेसी-508873एच), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार चरन सिंह (जेसी-508733डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार पाला सिंह (जेसी-508896के), 01 जनवरी 2005

नायब सूबेदार मंजीत सिंह (जेसी-508729एन), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार गुरमुख सिंह (जेसी-508786पी), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-509016पी), 01 फरवरी 2005

## सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) सुरेश कुमार टी (जेसी-508704एफ), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) जेम्स के एम (जेसी-508719के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) कन्वर सैन (जेसी-508711एक्स), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) गजराज सिंह (जेसी-508722के), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) जयभगवान (जेसी-508724पी), 01 मार्च 2005

**महार रेजिमेंट**

नायब सूबेदार के रैंक में

- हवलदार विकास चन्द्रा भंडारी (सं. 455888ए अब जेसी-569495एल), 23 दिसम्बर 2004@  
 @(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 08 जून 2004)  
 हवलदार देवी दयाल (सं. 2979405एम अब जेसी-569496एम), 30 अगस्त 2004@@  
 @@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004)  
 हवलदार शिव दयाल (सं. 4553895एम अब जेसी-569497डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004@@@  
 @@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 04 सितम्बर 2004)  
 हवलदार सरसांडकर भाकलाल किशन (सं. 4558751एन अब जेसी-569498वाई), 21 नवम्बर 2004#  
 #(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 06 सितम्बर 2004)  
 हवलदार भैसाने भाई दास तोताराम (सं. 4552441एम अब जेसी-569499एफ), 13 दिसम्बर 2004##  
 ##(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार रीम कुमार तर्पोग (सं. 4553924डब्ल्यू अब जेसी-569500एल), 01 अक्टूबर 2004\$  
 हवलदार राज कुवर (सं. 4553336एच अब जेसी-569501एन), 01 दिसम्बर 2004\$\$  
 \$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार हरी दत्त भट्टे (सं. 4553079डब्ल्यू अब जेसी-569502डब्ल्यू), 05 नवम्बर 2004\$\$\$  
 \$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार पारस नाथ यादव (सं. 4553257एन अब जेसी-569503वाई), 05 नवम्बर 2004\$\$\$\$  
 \$\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार रामायण सिंह (सं. 4553271ए अब जेसी-569504एफ), 05 नवम्बर 2004\$\$\$\$\$  
 \$\$\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार राम लाल (सं. 4553325डब्ल्यू अब जेसी-569505के), 05 नवम्बर 2004\$\$\$\$\$  
 \$\$\$\$\$ (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 12 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार शिव शरण मल (सं. 4551891एक्स अब जेसी-569506एम), 10 नवम्बर 2004%  
 %(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 31 अक्टूबर 2004)  
 हवलदार रामेश्वर दास (सं. 4552515डब्ल्यू अब जेसी-569507पी), 15 दिसम्बर 2004%%  
 %% (बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 22 नवम्बर 2004)

हवलदार खंडारे संजय गोपालराव (सं. 4560739एल अब जेसी-569508एक्स), 14 दिसम्बर 2004%%%

%%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 नवम्बर 2004)

हवलदार उमेश कुमार (सं. 4552527ए अब जेसी-569509ए), 15 जनवरी 2005&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 दिसम्बर 2004)

हवलदार गुन्ना निधि नायक (सं. 4554611के अब जेसी-569510पी), 04 जनवरी 2005&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जनवरी 2005)

**बिहार रेजिमेंट**

नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार ललन सिंह यादव (सं. 4262366एच अब जेसी-559402एक्स), 01 अगस्त 2004

हवलदार परिमल गदानायक (सं. 4266732वाई अब जेसी-559403ए), 13 अक्टूबर 2004/01 अगस्त 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार उदय कुमार (सं. 4261680के अब जेसी-559404एच), 19 दिसम्बर 2004/13 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 13 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार रणजीत कुमार ओझा (सं. 4260014एम अब जेसी-559405एल), 07 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार अवध किशोर सिंह (सं. 4261239एफ अब जेसी-559406एन), 25 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार हजेन्द्र ओरौव (सं. 4265073एच अब जेसी-559407डब्ल्यू), 11 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार श्री भगवान तिवारी (सं. 4260585एल अब जेसी-559408वाई), 18 दिसम्बर 2004/15 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार कान्ता प्रसाद (सं. 4261738डब्ल्यू अब जेसी-559409एफ), 18 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार रत्नाकर मोहन्ता (सं. 4262360एफ अब जेसी-559410डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बैज नाथ सिंह (सं. 4259060पी अब जेसी-559411वाई), 19 जनवरी 2005/12 दिसम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 12 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार लोहरा एक्का (सं. 4261189एफ अब जेसी-559378एम), 16 नवम्बर 2004/17 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 17 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार द्वारिका नाथ सिंह (सं. 4260129ए अब जेसी-559379पी), 24 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार गिरिशदेव राय (सं. 4262260डब्ल्यू अब जेसी-559389के), 25 नवम्बर 2004/14 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 14 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार रमेश साहू (सं. 4267000पी अब जेसी-559381एम), 28 नवम्बर 2004/18 अगस्त 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 18 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रमोद कुमार सा (सं. 4260778एल अब जेसी-559382पी), 01 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार तिवारी (सं. 4262784एक्स अब जेसी-559383एक्स), 03 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बाबुली नायक (सं. 4262231एफ अब जेसी-559384ए), 06 दिसम्बर 2004/01 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार अरुण कुमार सिंह (सं. 4262638एक्स अब जेसी-559385एच), 06 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार अर्जुन दास (सं. 4263394एफ अब जेसी-559386एल), 06 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश चन्द्र नाथ (सं. 4264029एन अब जेसी-559387एन), 06 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार प्रमोद कुमार जेना (सं. 4264751एल अब जेसी-559388डब्ल्यू), 06 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार भिखारी सिंह (सं. 8031710डब्ल्यू अब जेसी-559389वाई), 06 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार दूषमन्ता कुमार नायक (सं. 4263814डब्ल्यू अब जेसी-559390एन), 08 दिसम्बर 2004/08 जुलाई 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 08 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुनील कुमार (सं. 4262720एन अब जेसी-559391डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2004/01 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार मुन्द्रिका प्रसाद (सं. 4262233एम अब जेसी-559392वाई), 20 दिसम्बर 2004/01 अगस्त 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार बिम्बाधर सामल (सं. 4266522वाई अब जेसी-559393एफ), 31 दिसम्बर 2004/04 जुलाई 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 04 जुलाई 2004 से दी जाती है)

हवलदार जोगेश्वर महान्ता (सं. 4266675एच अब जेसी-559394के), 01 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार मनोज कुमार (सं. 4266356डब्ल्यू अब जेसी-559395एम), 03 जनवरी 2005/04 अगस्त 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 04 अगस्त 2004 से दी जाती है)

हवलदार भीमसेन मुखी (सं. 4262036के अब जेसी-559396पी), 03 जनवरी 2005/01 अक्टूबर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार जितेन्द्र कुमार सिंह (सं. 4260509वाई अब जेसी-559397एक्स), 04 जनवरी 2005/26 नवम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 26 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सत्य नारायण महतो (सं. 4268784एन अब जेसी-559398ए), 11 जनवरी 2005/15 दिसम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद भोई (सं. 4262328एम अब जेसी-559399एच), 11 जनवरी 2005/15 दिसम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार गेराल्ड मंजेल्ला (सं. 4261722एल अब जेसी-559400एम), 21 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004(ज्येष्ठता) \*

\*(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2004 से दी जाती है)

जम्मू और कश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार जोगिन्द्र क्लत (सं. 13742752एक्स अब जेसी-579969पी), 14 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार जुजर सिंह (सं. 13746434एल अब जेसी-579970के), 01 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुरिन्द्र मोहन (सं. 13749593एन अब जेसी-579971एम), 01 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13749556ए अब जेसी-579972पी), 09 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार शेर सिंह (सं. 13748886एम अब जेसी-579973एक्स), 01 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 30 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13745739वाई अब जेसी-579974ए), 18 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बरेन्द्र सिंह जम्वाल (सं. 13747290ए अब जेसी-579975एच), 01 नवम्बर 2004

हवलदार वली राम (सं. 13747745एन अब जेसी-579976एल), 01 नवम्बर 2004

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 13747778डब्ल्यू अब जेसी-579977एन), 01 नवम्बर 2004

हवलदार युद्धवीर सिंह (सं. 13746619एम अब जेसी-579978डब्ल्यू), 25 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार विरेन्द्र सिंह (सं. 13751973एल अब जेसी-579979वाई), 23 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार गुमान सिंह थापा (सं. 13746513ए अब जेसी-579982वाई), 03 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बूड सिंह (सं. 13746413पी अब जेसी-579983एफ), 03 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 13746433एच अब जेसी-579984के), 03 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार चैन सिंह (सं. 13746491एम अब जेसी-579985एम), 03 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार ओंकार चन्द्र (सं. 13747851एक्स अब जेसी-579986पी) 07 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार दलेल चन्द (सं. 13747856एच अब जेसी-579987एक्स),  
07 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार विजय कुमार भंडारी (सं. 13746658एल अब  
जेसी-579988ए), 01 दिसम्बर 2004 \*

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक लक्षमण सिंह (सं. 13750311डब्ल्यू अब  
जेसी-579980एन), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार/लिपिक जय कुमार एस (सं. 13750343वाई अब  
जेसी-579981डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलदेव कुमार (सं. 3986940एल अब जेसी-520079एक्स),  
15 नवम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार दीना नाथ (सं. 3983133एल अब जेसी-520080एक्स),  
09 नवम्बर 2004

हवलदार विजय कुमार (सं. 3983068डब्ल्यू अब जेसी-520081पी),  
11 दिसम्बर 2004

8 जी आर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार दुर्गा बहादुर सिमल्ल थापा (सं. 5751276ए अब  
जेसी-623594के), 08 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार नवीन कुमार (सं. 5752927एक्स अब जेसी-623595एम),  
20 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 08 अक्टूबर 2004 से दी जाती है)

हवलदार बाला कृष्ण थापा (सं. 5750971एच अब जेसी-623596पी),  
24 दिसम्बर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार झलक प्रसाद गुरुंग (सं. 5750995एम अब जेसी-623598ए),  
04 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार मन बहादुर राना (सं. 5751002पी अब जेसी-623599एच),  
04 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

(जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फैंट्री)

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिये

हवलदार शाम लाल (सं. 9086667डब्ल्यू अब जेसी-593318के),  
08 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में दिनांक 07 दिसम्बर 2004 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

हवलदार राज कुमार (सं. 9085797एम अब जेसी-593319एम), 05  
जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

हवलदार राम लाल (सं. 9084967वाई अब जेसी-593320एफ), 05  
फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में दिनांक 01 दिसम्बर 2004 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

हवलदार गुलाम अहमद आस्वुन (सं. 9086608के अब जेसी-593321के),  
14 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में दिनांक 01 जनवरी 2005 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

हवलदार मोहम्मद रफीक (सं. 9086979एम अब जेसी-593322एम),  
05 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में दिनांक 01 जनवरी 2005 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक की पदोन्नति के लिये

हवलदार/लिपिक तारा सिंह (सं. 9088326के अब  
जेसी-593307एक्स), 17 जनवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में दिनांक 01 जनवरी 2005 से वरिष्ठता दी  
जाती है)

सिख लाइट इन्फैंट्री

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार कश्मीर सिंह (सं. 4461274एन अब जेसी-509209पी),  
01 नवम्बर 2004 \*

हवलदार मुखा सिंह (सं. 4466723एफ अब जेसी-509210के),  
31 मार्च 2005 \*

\*(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता दिनांक 05 दिसम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4466421पी अब जेसी-509211एम), 05  
दिसम्बर 2004

हवलदार अजमेर सिंह (सं. 4468659एन अब जेसी-509212पी), 05 दिसम्बर 2004

हवलदार करनैल सिंह (सं. 4464811वाई अब जेसी-509213एक्स), 01 जनवरी 2005

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 4464638ए अब जेसी-509214ए), 01 जनवरी 2005

हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 4466409एन अब जेसी-509215एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार हरवंश सिंह (सं. 4464201एम अब जेसी-509218डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में

हवलदार/क्लर्क रमेश चन्द्रा (सं. 4464359पी अब जेसी-509216एल), 15 जनवरी 2005

हवलदार/क्लर्क वेद प्रकाश (सं. 4464907एफ अब जेसी-509217एन), 15 जनवरी 2005

हवलदार/क्लर्क नन्दा राम यादव (सं. 4464987के अब जेसी-509219वाई), 06 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार/क्लर्क विजय सिंह नेगी (सं. 4465112ए अब जेसी-509220एन), 09 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2005 से दी जाती है)

हवलदार/क्लर्क कुलदीप सिंह (सं. 4465623के अब जेसी-509221डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सारी गांगुला नायडू (सं. 2591163एन अब जेसी-439519ए), 15 मार्च 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 06 नवम्बर 2004 से दी जाती है)

हवलदार पी ईश्वर कुमार (सं. 2588794एल अब जेसी-439508एन), 01 दिसम्बर 2004

हवलदार एम के मोहना कुमार (सं. 2587784पी अब जेसी-439506एच), 01 जनवरी 2005

हवलदार मोहम्मद रफीक (सं. 2587517एन अब जेसी-439538एल), 30 जनवरी 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 10 जनवरी 2005 से दी जाती है)

हवलदार चित्रा श्री निवासा राव (सं. 2589451एफ अब जेसी-439544वाई), 12 जनवरी 2005

हवलदार बेबी ए (सं. 2587908वाई अब जेसी-439539एन), 06 फरवरी 2005

हवलदार अरवा गोपी (सं. 2592574वाई अब जेसी-439540एच), 01 मार्च 2005

दिवाकर  
अवर सचिव

सं. 416, दिनांक 26 जुलाई 2005.--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल

आईसी नं. नाम, आर्म

46032 प्रमोद एस गडवे, इन्फैन्ट्री

46033 सतीश कुमार, ए सी

46034 देविन्दर कुमार, इन्फैन्ट्री

46035 सन्तोष कुमार गुरंग, ए ओ सी

46036 रत्न कुमार अढपा के आर, इन्फैन्ट्री

46037 रक्षवीर, इंजीनियर्स

46038 सुखाचरन सिंह राय, इन्फैन्ट्री

46039 राम महार सिंह, ए ओ सी

46040 नरेन्द्रा सिंह पाल, इन्फैन्ट्री

46041 अनूप सिंह जाखर, आर्टी

46042 शैलेन्द्रा सिंह, आर्टी

46043 मधु सूदन सती, ए ओ सी

46044 के प्रभाकर हेब्बर, सिग्नल्स

46045 रविन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

46046 के वालाजी कासी राजा, इन्फैन्ट्री

46047 विजय बहादुर थापा, आर्टी

46048 संजय चौहान, ई एम ई

46049 सुनील यादव, आर्टी

46050 दुष्यन्त सिंह, आर्टी

46051 आर सी श्रीकान्त, आर्टी

46052 अश्विनी कुमार पंथी, आर्टी

46053 प्रबुध शर्मा, आर्टी

46054 मोलिस चन्द्रा, इंजीनियर्स



46055 देवदास पदमागिरिसवर्ण, आर्टी	46092 सोमदत्त गुर्जर, इंजीनियर्स
46056 संजीव दत्त, ए एस सी	46093 दुबे राकेश कुमार राम चन्द्र, इंजीनियर्स
46057 सुरेश कुमार, ई एम ई	46094 ए डी बेदारकर, ए ओ सी
46058 तेजिन्द्र कुमार एम पी, सिग्नल्स	46095 राम मणी पाण्डे, ए सी
46059 राजु सिंह, इंजीनियर्स	46096 सुनील शर्मा, आर्टी
46060 जतिन्द्र सिंह धवन, ई एम ई	46098 पौडापती नागराज, ए ओ सी
46061 विभय मान सिंह, आर्टी	46099 जग मोहन सिंह, ईन्ट
46062 संजय अहलुवालिया, आर्टी	46100 बालाकृष्ण पोखरीयाल, ई एम ई
46063 वरिन्द्र सिंह शरावत, इन्फैन्ट्री	46101 बी एस राजमोहन, आर्टी
46064 थोमस साजन अब्राहम, ए ओ सी	46102 राजीव जैसवाल, सिग्नल्स
46065 रोबिन जार्ज अब्राहम, इन्फैन्ट्री	46103 सर्वजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
46066 कुलदीप सिंह बंशतु, इन्फैन्ट्री	46104 ओम प्रकाश अहलावत, ए ओ सी
46067 हितेश चन्देल, इन्फैन्ट्री	46107 उमा शंकर, आर्टी
46068 बलराज सरदाना, आर्टी	46108 संजय डिमरी, सिग्नल्स
46069 वरगिस जार्ज, आर्टी	46109 वी कंदन अरुल, इंजीनियर्स
46070 हेगडे गौतम राधाकृष्णा, ए ओ सी	46110 रघुनन्दन सिंह शेखावत, ए एस सी
46071 विवेक मिश्रा, आर्टी	46111 सुरेश वर्मा, आर्टी
46072 इन्द्रा कुमार लाल, ए ओ सी	46112 विक्रांत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
46073 सिरिल पदमनाभन, आर्टी	46113 संजय माथुर, ई एम ई
46074 आइजक पी थीराटिल, आर्टी	46114 प्रभाकर कुमार, इंजीनियर्स
46075 अभय सिंह, इन्फैन्ट्री	46115 थेंद्रूप पलजर त्सेरिंग, ए एस सी
46076 दीप चन्द डागर, ए ओ सी	46116 संजीव कुमार सिंह, ए सी
46078 पुष्पेन्द्र सिंह मनकोटिया, इन्फैन्ट्री	46117 विवेक प्रकाश सिंह, ए सी
46079 कुलदीप सिंह सन्धू, आर्टी	46118 अनिल जॉन, ए ओ सी
46080 सुब्रता मुखर्जी, इन्फैन्ट्री	46119 चन्द्रप्रकाश सूरज नारायण मिश्रा, ईन्ट
46081 हरदेव सिंह, ए डी ए	46120 शर्मा राकेश कुमार ब्रह्मदेव, आर्टी
46082 हरीश चन्द्रा सिंह, आर्टी	46121 बृजेश कुमार, ए ओ सी
46083 हरलाल सिंह खारीता, ए एस सी	46122 प्रवीन धवन, ए एस सी
46084 जे एस भारद्वाज, ए ओ सी	46124 रविचन्द्रन डी धन्दापानी, ए डी ए
46085 राजेश कुमार शर्मा, ई एम ई	46125 संदीप चोपड़ा, आर्टी
46086 धर्मेन्द्रा सिंह, आर्टी	46126 जगवीर सिंह रंगी, आर्टी
46087 सुरेश चौधरी, आर्टी	46127 अजय कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
46088 गोरख कांतरार, ए ओ सी	46128 अजीत ढाका, आर्टी
46089 रंजन कुमार सिंह, इंजीनियर्स	46129 सर्वदीप सिंह ग्रेवाल, ए एस सी
46090 मनीश खन्ना, इन्फैन्ट्री	46130 दिनकर चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री
46091 ज्ञान प्रकाश यादव, इन्फैन्ट्री	46131 आलोक कुमार साहा, आर्टी

46132 अनिल सहगल, ए ओ सी	46180 राजेश कालिया, इन्फैन्ट्री
46133 रघुनाथ गोबिन्द अय्यर, ई एम ई	46181 शरीश एस पनसालकर, आर्टी
46134 अंजय कुमार ढाका, इन्फैन्ट्री	46182 दिनेश त्यागी, आर्टी
46135 कोहुक जयाजी दत्तात्रेया, आर्टी	46183 शानतनु हलदुले, ए सी
46136 मनोज कुमार, आर्टी	46184 विकास गोस्वामी, आर्टी
46138 गुरजीत सिंह मुल्लानी, इन्फैन्ट्री	46185 रिपुमर्दन सिंह राघव, आर्टी
46139 श्याम बिहारी सिंह, इन्फैन्ट्री	46186 मदन सिंह शेखावत, ए ओ सी
46141 अजय कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	46187 मनोज सिंह सेंगर, ई एम ई
46142 गौतम सुब्बिया, इन्फैन्ट्री	46188 रविन्द्र सिंह खांदका, आर्टी
46143 सेबस्टिन एम एस, इंजीनियर्स	46189 हरिन्द्र दीप सिंह रैनल, आर्टी
46144 संजय कुमार ठाकुर, ए ओ सी	46190 मनीश दुबे, ई एम ई
46145 हेमंत सिंह राजावत, इन्फैन्ट्री	46191 बृज भूषण भट्ट, आर्टी
46146 मीतिन्द्र सिंह संधू, ए ओ सी	46192 ओम प्रकाश सिंह, इन्फैन्ट्री
46147 मुरली वी जी, इंजीनियर्स	46193 उदयपाल सिंह यादव, ई एम ई
46148 मनोज कुमार, आर्टी	46194 फिरोज हामीद उस्मानी, इंजीनियर्स
46149 सन्दीप नेगी, आर्टी	46195 जनमजीत सिंह गौन्धरा, आर्टी
46150 अवतार सिंह पवार, ई एम ई	46196 विजय राज सिंह कटोच, सिग्नल्स
46151 संजीव वर्मा, आर्टी	46197 जगजीत सिंह रौटेला, इन्फैन्ट्री
46155 कंवरजीत गुलेरिया, आर्टी	46198 प्रदीप वर्मा, ए ओ सी
46156 सत्यपाल सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	46199 संजीव सिंह, आर्टी
46157 सन्दीप कुमार, ई एम ई	46200 मुकेश भटनागर, ए ओ सी
46158 विक्रमजीत सिंह तलवार, ए ओ सी	46201 अनुराग शर्मा, इन्फैन्ट्री
46159 राजेन्द्रा भंज, ए सी	46202 विनोद मैथ्यूस, इंजीनियर्स
46160 सुरिन्द्र सिंह जामवाल, इन्फैन्ट्री	46203 शैलेश पाठक, इन्फैन्ट्री
46161 राजिन्द्रा फल सिंह मारवाह, आर्टी	46204 अभिजीत हलदर, इन्फैन्ट्री
46162 सुभाष चक्रवर्ती, सिग्नल्स	46205 राजेश कंवर, ए ओ सी
46169 बिरेन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	46207 रविन्द्र सिंह राठौर, इंजीनियर्स
46170 मन मोहन मिश्रा, इंजीनियर्स	46208 कृष्णा कांत गुप्ता, आर्टी
46171 अजय सिंह कंवर, ए सी	46209 चरनदीप सिंह, इन्फैन्ट्री
46172 राजेश अरुण मोघे, मैक इन्फैन्ट्री	46211 सुरेश कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
46174 अजय कपिल, ए डी ए	46212 कमलेश चौहान, आर्टी
46175 हरविन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री	46213 शिवेश टंडन, आर्टी
46176 के पी सिंह राजावत, ए एस सी	46214 मयंक अवस्थी, ए सी
46177 राधेश्याम सिंह बिसेन, आर्टी	46215 रोबिन्द्र सिंह सीरोही, ई एम ई
46178 गुलशन भरला, इंजीनियर्स	46216 वेलाला विजया भास्कर, इन्फैन्ट्री
46179 मनमोहन सिंह, सिग्नल्स	46217 उपाध्याय रोथी राज, आर्टी

- 46219 शान्तनु बैनर्जी, आर्टी  
 46220 बलवीर सिंह अहलुवालिया, आर्टी  
 46221 बलकार सिंह, आर्टी  
 46222 अरविन्द कुमार वत्स, इन्फैन्ट्री  
 46223 मनीश उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 46224 संजय पाण्डे, ए ओ सी  
 46226 राकेश त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री  
 46227 वी एम बालाचन्द्रन, आर्टी  
 46228 शरनजीत सिंह, सिग्नल्स  
 46229 बारिन्द्र सिंह साहनी, इन्फैन्ट्री  
 46230 राजेश वर्धन, आर्टी  
 46231 अनिल कुमार जुयाल, इंजीनियर्स  
 46232 संजीव सेठी, आर्टी  
 46233 दिलबाग सिंह सन्धू, आर्टी  
 46234 ज.सविन्द्र सिंह डान्डा, आर्टी  
 46235 सन्दीप गुलाटी, इन्फैन्ट्री  
 46236 रन्जीत सिंह, आर्टी  
 46237 नवजीत सिंह दिल्लीन, ईण्ट  
 46238 अनुराग छावडा, इन्फैन्ट्री  
 46241 पूनीश सरीन, ए एस सी  
 46242 शैलेन्द्रा सिंह चौहान, आर्टी  
 46243 अरुण कुमार, इन्फैन्ट्री  
 46244 जावेद इकबाल, जैज  
 46245 राजदीप सिंह ग्रेवाल, इंजीनियर्स  
 46246 योगेन्द्रा रावत, इंजीनियर्स  
 46247 मनोज जाखड, ए ओ सी  
 46248 सुनील दत्त नौटियाल, इन्फैन्ट्री  
 46249 टी वी एस राजु, ए एस सी  
 46251 शैलेन्द्रा सिंह यादव, इन्फैन्ट्री  
 46252 अजय सिंह राठौर, सिग्नल्स  
 46254 रश्तार बन्धू डोगरा, ई एम ई  
 46255 हेमन्त पालीवाल, ईन्ट  
 46256 कंवर कुलजीत, इंजीनियर्स  
 46257 सत्य नारायणा नरेश, आर्टी  
 46258 अमित भारद्वाज, आर्टी  
 46259 ऋषि राज कानेत, इन्फैन्ट्री  
 46260 नवनीत सिंह बावेजा, ए सी  
 46261 नीतिन नराहर जोशी, ए ओ सी  
 46262 पंकज शर्मा, आर्टी  
 46264 शशिधरन पी, ई एम ई  
 46265 संजय भटनागर, ई एम ई  
 46266 संजीव बक्शी, इन्फैन्ट्री  
 46267 संजय दत्त, ई एम ई  
 46268 शैलेन्द्रा पाठक, ई एम ई  
 46269 अमित कुमार श्रीवास्तव, आ  
 46270 कुलदीप के शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 46271 सिद्धार्थ चौधरी, आर्टी  
 46272 राम पाल पाराशर, ए सी  
 46273 राजीव घई, आर्टी  
 46274 पविधरन चैरियल एनथोट, सिग्नल्स  
 46275 श्याम कांत दुबे, ए ओ सी  
 46276 रविन्द्र कुमार शर्मा, इंजीनियर्स  
 46277 अवीजीत नंदी, आर्टी  
 46278 पी अशोक, ई एम ई  
 46280 हरिश चन्द्रा जोशी, जैज  
 46281 हरिन्द्रा मनुभाई व्यास, ए ओ सी  
 46282 श्याम सुन्दर शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 46283 ललित कुमार जोशी, जैज  
 46284 मोहनजीत सिंह बैस, ए एस सी  
 46285 विनोद कुमार जोशी, इंजीनियर्स  
 46286 राजिन्द्र कुमार मलिक, आर्टी  
 46287 मनोज कुमार, इन्फैन्ट्री  
 46288 मनोज कुमार जोशी, इन्फैन्ट्री  
 46289 पिल्लई एस श्रीधरन, आर्टी  
 46290 राहुल पाण्डे, इन्फैन्ट्री  
 46291 अनिल कुमार झा, आर्टी  
 46295 राज कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 46296 तरुण मित्रा, आर्टी  
 46297 रविन्द्र कुमार गोगिया, ए सी  
 46298 मुकुल देव, आर्टी  
 46299 मनोज मिश्रा, ई एम ई  
 46300 अवदेश सिंह माथुर, ए सी

- 46301 अरुण शुक्ला, सिग्नल्स  
 46302 तरुण आनन्द, आर्टी  
 46303 तपस घाटक, आर्टी  
 46304 योगेन्द्रा सिंह, जैज.  
 46305 आशिष कुमार पुनिया, इन्फैन्ट्री  
 46306 नदीम अरशद, सिग्नल्स  
 46307 राजेश शेखावत, सिग्नल्स  
 47560 विकास मधोक, इंजीनियर्स  
 47561 शैलेन्द्रा सिंह रावत, इंजीनियर्स  
 47562 एम कार्तिकेयन, ए सी  
 47563 एस एस सलारिया, ए सी  
 47564 एस एस सोलन्के, इन्फैन्ट्री  
 47566 वी एम भूवन कृष्णन, इन्फैन्ट्री  
 47569 नीरज मदान, आर्टी  
 47570 रजनीश लाल, आर्टी  
 47571 हरीश भूटानी, ई एम ई  
 47573 विक्रम रैना, इन्फैन्ट्री  
 47575 एस के गुप्ता, ई एम ई  
 47576 मुकेश चढ़वा, ए एस सी  
 47577 एन के लोहानी, आर्टी  
 47578 वी एस चन्द्रावत, इन्फैन्ट्री  
 47579 अंजय मैनी, ए डी ए  
 47580 अजेय सेठी, आर्टी  
 47581 सी पी सिंह पसरौचा, इंजीनियर्स  
 47582 हरकिरत सिंह, एस सी  
 47583 सुनील यादव, इन्फैन्ट्री  
 47584 कमलदीप सानन, सिग्नल्स  
 47585 रविन्द्र सिंह, मैक इन्फैन्ट्री  
 47586 एम एस सोरोट, ए एस सी  
 47587 राजीव नेगी, इन्फैन्ट्री  
 47588 एस के सूद, आर्टी  
 47589 एस पी सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47590 जी एस डिल्लन, इन्फैन्ट्री  
 47592 एस एम इस्महल, इन्फैन्ट्री  
 47593 जी पी शर्मा, ए ओ सी  
 47594 आर डी शर्मा, ए ओ सी  
 47595 अजय शर्मा, आर्टी  
 47596 अतुल धर्मपुरी, मैक इन्फैन्ट्री  
 47597 सन्दीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47598 एम के सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47599 रामिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47602 नागा मल्लेश्वर राव जी, आर्टी  
 47603 वी पी सिंह कौशिक, इन्फैन्ट्री  
 47604 विवेक वेंकटरमन, इंजीनियर्स  
 47605 संजय जुल्का, आर्टी  
 47606 आर एस वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री  
 47607 अवनिन्द्र जोशी, इन्फैन्ट्री  
 47608 जयदेव सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47609 एस एस अलंग, इन्फैन्ट्री  
 47610 सी बी सिंह भादवाल, इन्फैन्ट्री  
 47611 एस के सिंह, ए ओ सी  
 47612 राजा भट्टाचार्जी, ई एम ई  
 47613 मनोज तिवारी, मैक इन्फैन्ट्री  
 47614 रोबर्टसन बिलावेद्रन, इन्फैन्ट्री  
 47615 राजेश परमार, ए एस सी  
 47617 मनीश त्रिपाठी, ए सी  
 47618 रानी राम कुमार, आर्टी  
 47620 सन्दीप वोहरा, इंजीनियर्स  
 47621 आर पी सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47624 मृगेन्द्रा कुमार, इन्फैन्ट्री  
 47625 आर एस रावत, आर्टी  
 47626 अंजय गंगवार, सिग्नल्स  
 47627 कुलदीप अहलावत, इन्फैन्ट्री  
 47628 रमनदीप कांग, सिग्नल्स  
 47629 एन के विश्वनाथ पाटिल, ए ओ सी  
 47631 सिसिर कुमार बाग, इन्फैन्ट्री  
 47632 ओम प्रकाश, इन्फैन्ट्री  
 47633 कंवलजीत सिंह, ए सी  
 47634 डी पी कुमार पिल्लई, मैक इन्फैन्ट्री  
 47635 एम एम बिटेकर, इन्फैन्ट्री  
 47636 एच एस घालिया, इन्फैन्ट्री  
 47637 मोहम्मद शाहनवाज, इन्फैन्ट्री

47638 मृत्युंजय ठाकुर, आर्टी	47678 राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री
47640 कौशल श्रीधरन, ए वी एन	47679 वी के थपलियाल, इंजीनियर्स
47641 नवाब सिंह इन्फैन्ट्री	47680 पी के पुन्डीर, ए एस सी
47642 विकास बलहारा, ए ओ सी	47681 रुपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
47643 जी एस कुलार, इन्फैन्ट्री	47682 अजय भट्टाचार्या, आर्टी
47644 अनुरोध मिश्रा, ई एम ई	47683 मिलन खुराना, ए डी ए
47645 संजय मलिक, इंजीनियर्स	47684 सुनील चावला, ई एम ई
47646 जी एस जामवाल, इन्फैन्ट्री	47685 मान सिंह गहलोत, मैक इन्फैन्ट्री
47647 ए डी कुमार, ए एस सी	47686 पी बी सिंह लांबा, इन्फैन्ट्री
47648 शिलैन्दर बैन्जामिन, इन्फैन्ट्री	47687 अजय बोथन, ई एम ई
47649 जे एस बब्बर, आर्टी	47688 अशरफ खान, इन्फैन्ट्री
47650 सुरिन्द्र सिंह, आर्टी	47689 दीपक सहगल, इन्फैन्ट्री
47651 शैलेश रेलकर, सिग्नल्स	47690 अरुण कुमार, ए ओ सी
47652 राजीव दलाल, इंजीनियर्स	47691 आर पी पाण्डे, आर्टी
47653 युधवीर सिंह, ए सी	47692 जी आर बी कलवाड, इन्फैन्ट्री
47654 सी एल फोतेदार, इन्फैन्ट्री	47693 सुखजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
47655 सिंह काइलोन रविन्दर, आर्टी	47694 एच एस राव, इन्फैन्ट्री
47656 पी के सुनील कुमार, आर्टी	47695 वी ए मधू, ए एस सी
47657 माईकल एन्थोनी जुदे फर्नांडिज, इंजीनियर्स	47697 इ हरि शंकर, ए एस सी
47658 ए एस मान, मैक इन्फैन्ट्री	47698 पी जी चक्रपाणी, आर्टी
47659 रनवीर सिंह, इन्फैन्ट्री	47702 सुनील बी कदम, इन्फैन्ट्री
47660 सार्थक घोष, ए एस सी	47703 वी वी नायक, ए डी ए
47661 सन्दीप जैन, इन्फैन्ट्री	47704 आर बी सिंह लांबा, इंजीनियर्स
47662 विक्रम कुमार, ए सी	47705 एच पी सिंह सिधू, इंजीनियर्स
47663 तरुण भाटिया, इन्फैन्ट्री	47706 डी के गुप्ता, सिग्नल्स
47665 सी वी साईलेश कुमार, इन्फैन्ट्री	47707 जी शशि कुमार खोट, ए डी ए
47666 नीतिन ए शीगारे, ए ओ सी	47708 गोपाल डी वशिष्ठ, ई एम ई
47667 हरमनदीप सिंह, ई एम ई	47709 जॉनसन जे लांबो, इन्फैन्ट्री
47668 विजय बी नायर, इन्फैन्ट्री	47710 बी लक्ष्मण जादव, आर्टी
47669 आशिष पोपली, ए एस सी	47711 राजेश कुमार अरोड़ा, ए ओ सी
47671 आर के बंसल, आर्टी	47712 हरमौत सिंह, आर्टी
47673 ए एस ठाकुर, इन्फैन्ट्री	47713 कृष्ण कुमार राजा, इन्फैन्ट्री
47674 जे जे सिंह भिंडर, ए ओ सी	47715 विवेक ढाल, इन्फैन्ट्री
47675 जीतेन वडेरा, इन्फैन्ट्री	47716 तरसेम सिंह, ए एस सी
47676 ए एम माथुर, ए सी	47717 अमर सिंह राठी, मैक इन्फैन्ट्री
47677 एम एस शेखों, ए ओ सी	47718 जयवीर सिंह सरण, इन्फैन्ट्री

47719 सुरेश कुमार, ए ओ सी	47762 रनदीप सिंह गुलेरिया, इन्फैन्ट्री
47720 संजय ओहरी, इंजीनियर्स	47765 विवेक ओबराय, ई एम ई
47721 पी विनायगम, आर्टी	47766 सतिन्द्र पाल सिंह, इन्ट
47722 राकेश कुमार, आर्टी	47767 संदीप कुमार जैन, इंजीनियर्स
47723 सन्दीप सिंह, इन्फैन्ट्री	47768 वी सन्जीव, आर्टी
47724 अतुल कुमार, ए ओ सी	47769 अनिल कुमार पाण्डे, ए ओ सी
47725 बलराज सिंह सोही, इन्फैन्ट्री	47770 अजय कुमार शर्मा, आर्टी
47726 उपेन्द्रा मधुकर विशाल, मैक इन्फैन्ट्री	47772 अजय सिंह शेखावत, इंजीनियर्स
47728 सुदीप सिंह, ए वी एन	47773 ब्राजेन्द्रा प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री
47730 सतीश चन्द्र, आर्टी	47774 तपन लाल शाह, इन्फैन्ट्री
47731 वेंकट हरिश गट्टी, इंजीनियर्स	47775 दलजीत सिंह पाढा, आर्टी
47732 कुलदीप सिंह चौहान, ए ओ सी	47776 थॉमस मैथ्यू, इन्फैन्ट्री
47734 चन्द्रा प्रकाश सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री	47778 विनीत कुमार, ई एम ई
47735 वनीता मेहता, ए ओ सी	47779 जगदीप सिंह गौराया, आर्टी
47736 राजीव मिश्रा, आर्टी	47780 कंवर पाल सिंह, ए सी
47737 गुनीत सिंह, ए सी	47781 मनिंदर सिंह चहल, इन्फैन्ट्री
47738 सनदीप चौधरी, ए ओ सी	47782 राकेश सिंह कुशवाहा, सिग्नल्स
47739 मृणाल कांति नाथ, इन्ट	47783 गुरविन्दर सिंह, आर्टी
47740 अनिल कुमार मिश्रा, ई एम ई	47784 विजय कुमार, ई एम ई
47741 एम सुरेश, इन्फैन्ट्री	47785 रत्न सिंह, इन्फैन्ट्री
47742 थॉमस कुट्टि सी पी, ए एस सी	47786 सन्दीप कुमार सीरोही, इन्फैन्ट्री
47743 हिम्मत सिंह, इन्फैन्ट्री	47787 सिंगाराजु राधाकृष्णा मूर्ति, ई एम ई
47744 गौरव चतुर्वेदी, मैक इन्फैन्ट्री	47789 अजय कुमार डबराल, ए ओ सी
47745 चिलमकुरी सुधाकर बाबू, आर्टी	47790 सुधीर कुमार, आर्टी
47746 प्रशांत के बानखाडे, इन्फैन्ट्री	47792 जगबीर सिंह दहिया, इन्ट
47749 राजीव चट्टा, ए सी	47793 बलजीत सिंह घोत्रा, इन्फैन्ट्री
47750 सुनील कौशल, इंजीनियर्स	47794 आशिष कुमार पाण्डे, इंजीनियर्स
47752 कमल, आर्टी	47795 अशोक कुमार, इंजीनियर्स
47754 आशिष कौहली, आर्टी	47796 राजेश कुमार राव, ए ओ सी
47755 अजय श्रीधर, सिग्नल्स	47797 अनिल कुमार गिरी, सिग्नल्स
47756 विकास चौधरी, सिग्नल्स	47798 अजय कोतवाल, इन्फैन्ट्री
47757 अतुल बिष्ट, इन्फैन्ट्री	47799 शरीश मामगैन, इन्फैन्ट्री
47758 कालोशशि विश्वास, इन्फैन्ट्री	47800 अरुण कुमार पुनिया, इन्फैन्ट्री
47759 प्रतीक मोहिल, इन्फैन्ट्री	47801 विक्रम मोहन पाटकी, इन्फैन्ट्री
47760 सुरेश चन्द्रा, आर्टी	47802 सूरज पाल सिंह सांगवान, इंजीनियर्स
47761 सन्जीव जैसवाल, इन्फैन्ट्री	47803 रन्धीर सिंह साचन, ए सी

- 47804 गुरलाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री  
 47805 विनिन्दर सिंह, सिग्नल्स  
 47807 ज्ञानिंद्र प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47808 संजय कृष्णा, आर्टी  
 47809 शशांगन नामबियार, ई एम ई  
 47810 हरजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47811 संजय सितान्यू, ई एम ई  
 47812 भजन सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री  
 47814 विवेक नायर, ए सी  
 47815 राजीव राम चन्द्र शिंदे, आर्टी  
 47817 राजेश कुमार सिंह, आर्टी  
 47818 सुरेन्द्र मोहन, इन्फैन्ट्री  
 47819 आलोक कुमार सिंह, आर्टी  
 47820 दिनेश सिंह, ईण्ट  
 47821 जसवंत सिंह धालिवाल, इन्फैन्ट्री  
 47822 मधुबल बी, सिग्नल्स  
 47823 विजय कुमार, ए ओ सी  
 47824 सन्तोष कुमार सिंह, ए ओ सी  
 47825 विकास वोहरा, इन्फैन्ट्री  
 47826 लोकेश चन्द्रा, आर्टी  
 47827 नागेन्द्र पाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47828 तुल शाह, इन्फैन्ट्री  
 47829 ब्रजिन्द्र सिंह, ई एम ई  
 47830 राजेश खोखर, इंजीनियर्स  
 47831 अशोक कुमार वर्मा, इन्फैन्ट्री  
 47832 संजय रावल, इंजीनियर्स  
 47833 सुखमिन्दर सिंह, आर्टी  
 47834 दविन्दर सिंह, ए सी  
 47835 सर्बजीत सिंह भिंडर, मैक इन्फैन्ट्री  
 47836 सन्दीप कुमार यादव, ए एस सी  
 47837 परमजीत सिंह, ईण्ट  
 47838 कुलदीप सिंह उप्पल, आर्टी  
 47839 अनिल धून, इन्फैन्ट्री  
 47840 जयदीप शर्मा, ए एस सी  
 47841 जयदीप पुरी, ए एस सी  
 47842 अनिल कुमार, इंजीनियर्स  
 47843 रविन्दर सिंह, आर्टी  
 47844 आलोक नरेश, इन्फैन्ट्री  
 47845 पी ए चैको, ई एम ई  
 47846 गुरिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47847 अजय मेहता, सिग्नल्स  
 47848 देवव्रत पागे, ए सी  
 47849 क्लेरैन्स अलफांसो ग्रेगोरी कारवलहो, इन्फैन्ट्री  
 47850 विपिन भाटिया, ईण्ट  
 47852 रतन श्रीवास्तवा, ए ओ सी  
 47853 देवेन्द्र सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 47854 प्रवीन कुमार, इन्फैन्ट्री  
 47856 प्रवीन चन्द्रा नेधानी, ईण्ट  
 47858 प्रद्युमन सिंह यादव, इन्फैन्ट्री  
 47859 समीर भाटिया, इंजीनियर्स  
 47860 रनबीर सेठ, आर्टी  
 47861 दीपक वशिष्ठ, इन्फैन्ट्री  
 47862 विजय कुमार, आर्टी  
 47863 गुप्ता सुनील परमेश्वर, आर्टी  
 47865 तेजवीर सिंह कादियान, इन्फैन्ट्री  
 47866 जयदीप पनसालकर, आर्टी  
 47867 सुरेश बाबू पी, इन्फैन्ट्री  
 47868 विरेन्द्रा सिंह भण्डारी, इंजीनियर्स  
 47869 राजु वालिया, ए एस सी  
 47871 सुशील कुमार नेहरू, ए ओ सी  
 47872 गोड़ चन्द्रा देय, आर्टी  
 47873 मुनी कृष्णानन मनी राज, इन्फैन्ट्री  
 47875 जोस एन टी, ए ओ सी  
 47876 हरपाल सिंह ग्रेवाल, सिग्नल्स  
 47877 सुरेश कुमार नारा, इन्फैन्ट्री  
 47878 सत्येन भाटिया, इन्फैन्ट्री  
 47879 प्रथिपाल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 47880 रन्जन कुमार सिकदार, सिग्नल्स  
 47881 पंकज शर्मा, आर्टी  
 47882 अनिल कुमार जोशी, इन्फैन्ट्री  
 47883 बी श्रीहरि, ए डी ए  
 47884 गोखरी संजय बालकृष्ण, इंजीनियर्स

47885 हरि कृष्ण राणा, ए एस सी	47928 सुधीर बुगालिया, ए सी
47886 राणा प्रताप सिंह, ए एस सी	47930 जी राजशेखर, ई एम ई
47887 वी पीटर क्रिसटोफर, इन्फैन्ट्री	47931 सतविन्दर पाल सिंह चीमा, ए ओ सी
47889 भूपेन्द्रा सिंह शेखावत, इन्फैन्ट्री	47932 शैलेन्द्रा शेखर मेहता, आर्टी
47892 राकेश शर्मा, ई एम ई	47933 राजीव सिंह, सिग्नल्स
47893 सुधान्शु चतुर्वेदी, आर्टी	47935 गुरप्रीत सिंह बेदी, मैक इन्फैन्ट्री
47894 चोरनजीत सिंह गिल, ए एस सी	47936 मुदुमबाई बालाजी सम्पत, इन्फैन्ट्री
47895 देबाशिस दास, इन्फैन्ट्री	47937 संजय कश्यप, ए एस सी
47896 सन्दीप मिश्रा, ए सी	47938 राज कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
47897 विश्वानाथ, इन्फैन्ट्री	47939 संजय गंगवार, ई एम ई
47898 ऋषि चौहान, ई एम ई	47941 राजेश कुमार जिंदल, इंजीनियर्स
47900 संजय कुमार झा, ए एस सी	47942 कृष्ण प्रसाद एन जी, ई एम ई
47901 अमित खोसला, इन्फैन्ट्री	47943 बाजपई सन्जीव विष्णु के आर, इंजीनियर्स
47902 लाकू तेशेरिंग शेरपा, इन्फैन्ट्री	47944 अनिल कुमार चौबे, इंजीनियर्स
47903 सुधान्शु रंजन मिश्रा, आर्टी	47945 शशी पाल सिंह, ई एम ई
47904 रमन कुमार शर्मा, आर्टी	47946 अलोक कुमार चौबे, इंजीनियर्स
47905 सतीश कुमार तेहलान, ए ओ सी	47947 गुरप्रीत सिंह जसवाल, इंजीनियर्स
47906 अरुण सी करादी, ईण्ट	47949 वी सतीस कुमार रेड्डी, इंजीनियर्स
47907 जलाज भार्गव, आर्टी	47950 सुनील कुमार, इंजीनियर्स
47909 बिरेन्दर सिंह दलाल, इन्फैन्ट्री	47951 वी मनि वानन, सिग्नल्स
47910 सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री	47952 पीयूष कृष्णा, सिग्नल्स
47911 नीलोटपाल मुखर्जी, इंजीनियर्स	47953 साजन कुमार एस, इंजीनियर्स
47913 वाई जगदीश्वरा राय, ईण्ट	47954 अमृत लाल, सिग्नल्स
47914 शरद भार्गव, इन्फैन्ट्री	47955 वाजिहूर रेहमान खान, ई एम ई
47915 रवि लाल थापा, ईण्ट	47956 प्रवीन कुमार श्रीवास्तवा, इंजीनियर्स
47916 बिमल कुमार जग्गी, सिग्नल्स	47957 मनोज कुमार प्रसाद, इंजीनियर्स
47917 गोपाल कटोच, इन्फैन्ट्री	47959 ब्रजिन्द्रा सिंह चौहान, इंजीनियर्स
47918 आशुतोष बहुगुणा, इन्फैन्ट्री	47960 धीरज मोहन, इंजीनियर्स
47919 नवनीत कुमार दहिया, आर्टी	47961 सुनील कुमार देव, इंजीनियर्स
47920 दलीप कुमार सिंह चौहान, ए सी	47962 प्रमोद कुमार जी मिश्रा, इंजीनियर्स
47921 प्रेम जीत सिंह, आर्टी	47963 प्रभाकर अपाजीराओ दालावाई, इंजीनियर्स
47922 प्रमोद ममतानी, इन्फैन्ट्री	47964 मेहता दर्शन बिपन, इंजीनियर्स
47924 केदार शुक्ला, ए ओ सी	47966 जय कृष्ण चावला, सिग्नल्स
47925 तेजिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री	47967 आर वेंकटेश्वरा राव, इंजीनियर्स
47926 सुरेन्द्र शिवराणा, ईण्ट	47970 रविन्दर सिंह, इंजीनियर्स
47927 डेन्डापती सुधाकर राओ, इन्फैन्ट्री	47971 राडकर गजानन सोनोपंत, ई एम ई



47972 सुनील कुमार, इंजीनियर्स	48017 राजेश कुमार, ए ई सी
47973 चन्द्रा मोहन दुआ, इंजीनियर्स	48018 हरि प्रसाद बी, ई एम ई
47975 ईश कुमार खुराना, इंजीनियर्स	48019 ओम बिहारी श्रीवास्तव, ई एम ई
47976 नरेन्द्रा कुमार, सिग्नल्स	48020 धेनाराशु सी, इंजीनियर्स
47977 विनोद हुईलगोल, ई एम ई	48021 बिश्वराज पाटिल, इंजीनियर्स
47978 वड़ीसत्या वेनु गोपाल, इंजीनियर्स	48022 शिव कुमार कटरा, इंजीनियर्स
47979 पदम सिंह राणा, ई एम ई	48023 प्रदीप कुमार लोहमी, इंजीनियर्स
47980 ओंकार पाल सिंह, इंजीनियर्स	48024 विरेन्द्रा पेटनी, इंजीनियर्स
47981 उत्पल कुमार शर्मा, ई एम ई	48025 मेन्डा नरायणा राव, इंजीनियर्स
47982 अलोक किनरा, ई एम ई	48026 वादला मधुलिति स्वामी, सिग्नल्स
47984 सन्जीव कुमार, इंजीनियर्स	48027 अजय कुमार दास, ई एम ई
47985 अब्राहम टी मैथ्यू, इंजीनियर्स	48028 प्रकाश नराहरी, ए ई सी
47987 सुबोध कुमार तौमर, इंजीनियर्स	48029 कृष्ण कुमार वी जी, इंजीनियर्स
47988 ब्रह्म शरण श्रीवास्तवा, सिग्नल्स	48030 श्री कुमार आर, इंजीनियर्स
47990 सुब्रोतो गांगुली, ई एम ई	48031 ललित नन्दा, सिग्नल्स
47992 सुरेश कुमार जीगू, ई एम ई	48032 विजय कुमार दुबे, इंजीनियर्स
47993 श्याम सुन्दर कामथ, ई एम ई	48033 मनोज कुमार जैन, इंजीनियर्स
47994 जगबाथुला कामेश्वरा राव, इंजीनियर्स	48034 नवल भुयनी, ई एम ई
47995 प्रणव कुमार श्रीवास्तवा, ई एम ई	48035 प्रकाश नरायण चन्द, इंजीनियर्स
47996 अशुतोष मिश्रा, इंजीनियर्स	48036 सलिल टंडन, ई एम ई
47997 एन्थोनी ए के, ई एम ई	48037 करनाम वेंकटेश्वरा प्रसाद, इंजीनियर्स
47998 अरुण कुमार अग्रवाल, इंजीनियर्स	48038 जगदीश प्रसाद, इंजीनियर्स
47999 संदीप भल्ला, ई एम ई	48039 राम कृष्णा तिवारी, इंजीनियर्स
48000 उमा कांता बेहरा, सिग्नल्स	48040 सेखर ए, ए ई सी
48001 शैलेश प्रकाश श्रीवास्तवा, सिग्नल्स	48041 दिनेश कुमार शर्मा, इंजीनियर्स
48002 अजय पाटक, ई एम ई	48042 राजीव सचदेवा, इंजीनियर्स
48006 संजीव गुप्ता, इंजीनियर्स	48044 सुक्रिति सिंह दहिया, इंजीनियर्स
48007 ब्रजेश कुमार, इंजीनियर्स	48045 पवनदीप सिंह चड्ढा, इंजीनियर्स
48008 राम बिहारी सिंह, इंजीनियर्स	48046 राजेश पुष्कर, ए सी
48009 गिरिधर, इंजीनियर्स	48047 सुनील कुमार यादव, ए सी
48010 समीर मिश्रा, सिग्नल्स	48049 दलजीत सिंह, मैक इन्फैन्ट्री
48011 शशांक सीहोरकर, इंजीनियर्स	48050 विपुल शिंघल, ए सी
48013 राकेश भनगोला, इंजीनियर्स	48051 सोरब तिवारी, सिग्नल्स
48014 विजय कुमार शर्मा, ए ई सी	48052 जसवंत सिंह नयाल, मैक इन्फैन्ट्री
48015 वेनुगोपाल टी, इंजीनियर्स	48054 मनोज नायर, आर्टी
48016 दीपक तुकाराम दियोरी, इंजीनियर्स	48056 विमल कुमार त्रिपाठी, आर्टी

48057 क्रिष्णा दत्ता, सिग्नल्स	48096 रंजीत सिंह घुम्मन, इन्फैन्ट्री
48058 समीर कुमार सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	48097 दिनेश हुड्डा, इन्फैन्ट्री
48059 अर्जुन सिंह गुलेरिया, आर्टी	48098 दवेन्द्रा कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
48060 दीपक अहुजा, ए ओ सी	48099 पीयूष अग्रवाल, आर्टी
48061 सुधानवा भट्टे, इन्फैन्ट्री	48100 यशवीर सिंह रांगी, इन्फैन्ट्री
48063 अजय रामकृष्णनन, इन्फैन्ट्री	48102 दीपक बक्शी, इन्फैन्ट्री
48064 विरिन्द्र कुमार, इन्फैन्ट्री	48104 सुरेश रमानायन, इंजीनियर्स
48065 जितेन्द्रा त्रिपाठी, सिग्नल्स	48105 सन्दीप सूद, ए ओ सी
48066 विनय कुमार मदीयान, इन्फैन्ट्री	48107 पुनीत मेहता, आर्टी
48067 राशिम बाली, इन्फैन्ट्री	48108 पी राजागोपालन, इन्फैन्ट्री
48068 चरण कानवर सिंह अहुवालिया, ए वी एन	48110 परमजीत सिंह गिल, ई एम ई
48069 रविन्द्र सिंह गिल, इन्फैन्ट्री	48111 रजत वीर, सिग्नल्स
48071 जितेन्द्र ओहरी, आर्टी	48113 अशिष अहुवालिया, ए ओ सी
48072 एन सेलवा कुमार, ई एम ई	48114 शकोताई करण समपथ, ई एम ई
48073 राहुल आर सिंह, आर्टी	48117 गिरीश जे लाल, आर्टी
48074 हरमेन्द्रा सिंह गिल, ए ओ सी	48118 प्रवीन कमार ऐरो, इन्फैन्ट्री
48075 रामिन्द्र सिंह सेठी, आर्टी	48119 शैलन्द्रा सिंह, ए सी
48076 के जयाचन्द्रन, इन्फैन्ट्री	48120 वीरेन्द्र वत्स, इन्फैन्ट्री
48077 भीरेन्द्रा कुमार गौतम, इन्फैन्ट्री	48121 कुलवीर सिंह दुदी, इन्फैन्ट्री
48078 ईन्दर मोहन सिंह परमार, इन्फैन्ट्री	48122 विग्नेश महन्ती, इंजीनियर्स
48079 अरविन्द सोरोही, ए सी	48123 सी एम सीनि अचन, ए ओ सी
48080 हेमराज सिंह परमार, आर्टी	48124 चञ्जान विनायक विष्णु, ए एस सी
48081 राजीव कुमार, ई एम ई	48126 अतुल सेठी, सिग्नल्स
48082 हर्ष छिन्नर, ए एस सी	48127 राजीव सुब्रामनियम अथरे, आर्टी
48083 विवेक डोगरा, सिग्नल्स	48128 अजय सेठी, इन्फैन्ट्री
48084 गुंतर गणेश, इन्फैन्ट्री	48130 वीरेन्द्र सिंह मलिक, आर्टी
48085 मनीष मोहन ऐरी, इन्फैन्ट्री	48131 करुण जीत ओहरी, ए सी
48086 नहेन्द्रा सिंह, ए ओ सी	48132 रुपेन्द्रा सिंह, इन्फैन्ट्री
48087 संदीप पूरी, इन्फैन्ट्री	48133 राकेश नरुला, ई एम ई
48088 संजीव कुमार, ई एम ई	48134 नरेश चन्द्रा, ए ओ सी
48089 डी श्रीनिधारा मूर्ति, इन्फैन्ट्री	48135 प्रेम सिंह जाखर, ए सी
48091 जगदीप सिंह खीमा, आर्टी	48136 विजय कुमार शर्मा, आर्टी
48092 ज्योतीर माया बहादुर सोनी थापर, ए एस सी	48137 प्रामित सक्सेना, इन्फैन्ट्री
48093 सुकुमार विनोद, इन्फैन्ट्री	48139 सुरशील कपूर, ए सी ए
48094 ज्योति चरणन चौहान, ए सी	48140 जाकदा लक्ष्मण, आर्टी
48095 पवनजीत सिंह हेर, इन्फैन्ट्री	48141 शैलेन्द्रा तल्लम, आर्टी

- 48142 एस मधु, आर्टी  
 48143 दिनेश सिंह, इन्फैन्ट्री  
 48144 किशोर महोत्रा, इन्फैन्ट्री  
 48145 गोगल वर्मा, इंण्ट  
 48146 मुनीत कुमार स्वामी, ए एस सी  
 48148 भद्रन कृष्णा सावंत, ए ओ सी  
 48150 बर्न अब्बास परवेज रफी, ई एम ई  
 48151 अर्यन्दा शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 48152 भास्करन सुनील कुमार महादेवन, ए सी  
 48154 संजय श्यामराओ पाटिल, इन्फैन्ट्री  
 48155 विपिन वर्मा, सिग्नल्स  
 48156 प्रेम कुमार विश्वा, आर्टी  
 48158 सन्दीप चन्द्रा जोशी, ए एस सी  
 48159 शरद कुमार श्रीवास्तव, आर्टी  
 48160 गौरव छिब्बर, ए ओ सी  
 48161 भूषण मेहता, इन्फैन्ट्री  
 48163 नवदीप सिंह बरार, इन्फैन्ट्री  
 48165 सन्दीप कपूर, इंजीनियर्स  
 48167 विनायक शंकर सुपेकर, आर्टी  
 48168 नंद किशोर साहेवराव जादव, आर्टी  
 48169 लोकेश साहनी, आर्टी  
 48170 आनन्द पी बलराज, इन्फैन्ट्री  
 48172 सन्दीप गुप्ता, ई एम ई  
 48173 मुनीप नारद, सिग्नल्स  
 48174 त्रिपुरारी कुमार सिंह, ए एस सी  
 48175 राजेश्वर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री  
 48176 पीयूष जोशी, ए ओ सी  
 48177 विकास कोले, ए एस सी  
 48178 योगेश्वर सिंह कटोच, इन्फैन्ट्री  
 48179 दिनेश सिंह डोड, इन्फैन्ट्री  
 48180 कोज थारी, इन्फैन्ट्री  
 48181 सन्जीव कुमार बक्शो, ए एस सी  
 48182 परमजीत सिंह दहिया, ए सी  
 48183 राजेश सचदेव, इन्फैन्ट्री  
 48185 ओम प्रकाश गतवाला, इन्फैन्ट्री  
 48186 दिवान सिंह, इन्फैन्ट्री  
 48187 वी जधाप्रकाश, आर्टी  
 48188 इकबाल सिंह, आर्टी  
 48189 गरिन्द्र सिंह दिरलन, इन्फैन्ट्री  
 48190 पवन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 48191 रविन्द्र कुमार वर्मा, ई एम ई  
 48193 कपिला बहुगुणा, ए एस सी  
 48194 सुधीर शरद कमविण्डे, ए ओ सी  
 48195 संजय एस, इन्फैन्ट्री  
 48196 विजयदीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 48197 गुरिन्द्रपाल सिंह गिल, इन्फैन्ट्री  
 48198 ललित अग्नीहोत्री, आर्टी  
 48199 अजय पाल सिंह, आर्टी  
 48200 संजय सोलंकी, इन्फैन्ट्री  
 48201 पवन कुमार बत्रा, इन्फैन्ट्री  
 48202 दीपक कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 48203 मुनेन्द्रा सिंह, सिग्नल्स  
 48204 युगद विशाल भोहनलाल, ए एस सी  
 48205 अश पाल शर्मा, ए एस सी  
 48207 सुबीर नाग, ए डी ए  
 48208 अजय कुमार, मैक इन्फैन्ट्री  
 48209 पंकज छिव, इंण्ट  
 48210 राजीव कुमार, इन्फैन्ट्री  
 48211 रवी सेठी, इन्फैन्ट्री  
 48213 दविन्द्र जीत सिंह, आर्टी  
 48214 सुधीर हंस, इन्फैन्ट्री  
 48216 अजय पसवोला, इन्फैन्ट्री  
 48219 विनोद टी मैथ्यू, इन्फैन्ट्री  
 48221 राकेश डी जिन्दे, ई एम ई  
 48223 विनय शर्मा, आर्टी  
 48224 संजय चड्ढा, सिग्नल्स  
 48225 राज कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री  
 48227 राजीव सिन्हा, आर्टी  
 48228 पंकज चतुर्वेदी, ए ओ सी  
 48229 नीलू आर्या, इन्फैन्ट्री  
 48231 विनय खोसला, इन्फैन्ट्री

48234 रोहित लोव, आर्टी	48275 राजीव चौहान, इन्फैन्ट्री
48235 एल डी पी इलियास, ए एस सी	48276 पंकज नारायण, सिग्नल्स
48236 मन्डा चन्द्राशेखर, आर्टी	48277 हरपाल सिंह सिरौही, इन्फैन्ट्री
48237 ई गोविन्द, आर्टी	48278 जे हेनरी रोबर्ट, इन्फैन्ट्री
48238 जीतिन्दर सिंह, ए एस सी	48280 सखामन सिंह, इन्फैन्ट्री
48239 अनिल सिंह चन्देल, ए ओ सी	48281 धीरज उपाध्याय, ई एम ई
48240 मनोज श्रीवास्तव, मैक इन्फैन्ट्री	48282 टेक चन्द मल्होत्रा, इन्फैन्ट्री
48241 राजेश कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री	48283 गुरुवन्त जीत सिंह भगीआना, इन्फैन्ट्री
48243 अजय सूद, आर्टी	48284 आनन्द सक्सेना, आर्टी
48244 नटराजन सुब्रामनियम, ए सी	48285 सुमीत पूर्ति, आर्टी
48245 करण महानजन, इन्फैन्ट्री	48286 अमित डंगवाल, ई एम ई
48246 अनुपम नगर, ए ओ सी	48287 किलारु सुरेश कुमार, इन्फैन्ट्री
48247 राजकरण सिंह, इन्फैन्ट्री	48288 सुबीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
48248 हन्नी बक्शी, इण्ट	48289 तरुण कुमार झा, सिग्नल्स
48249 प्राथीपा कुमार एम के, इंजीनियर्स	48290 गुरुचरण सिंह बिंदी, सिग्नल्स
48250 चटवाल मोहिन्दरजीत सिंह, ई एम ई	48291 नीरज अरोड़ा, आर्टी
48251 कमलदीप चतुर्वेदी, ई एम ई	48292 योगेश सोलन्की, ए ओ सी
48252 अरन वनर्जी, ए एस सी	48293 परचिन्दर सिंह बेदी, आर्टी
48255 कलुश भाटिया, सिग्नल्स	48294 स्वपन कुमार चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री
48256 राजेश नेगी, इन्फैन्ट्री	48295 सुधानु कुमार, ए एस सी
48257 रमनदीप सिंह भाटिया, ए ओ सी	48296 बाहादूर सिंह, इन्फैन्ट्री
48258 विनोद बासाकृष्णा श्रीखण्डे, इन्फैन्ट्री	48297 अशोक कुमार शर्मा, आर्टी
48261 हरीसन वर्मा, आर्टी	48299 विशाल एस माथुर, ए सी
48262 अरुण सूर्यवंशी, इन्फैन्ट्री	48300 सुनीत मेहरोत्रा, सिग्नल्स
48263 पंकज शर्मा, आर्टी	48301 विपन कुकरिया, इन्फैन्ट्री
48264 प्रशांत शरदचन्द्रा देशपाण्डे, ए सी	48302 पुषपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
48265 पी वी रामचन्द्रन मेनन, इन्फैन्ट्री	48303 अरुण शर्मा, ए एस सी
48266 सुशील मान, इन्फैन्ट्री	48304 कवलजीत सिंह नूरपूरी, आर्टी
48267 पी जय गोविन्द, आर्टी	48305 गोपाल सिंह राणा, इन्फैन्ट्री
48268 प्रवीन यादव, इंजीनियर्स	48306 जगदीश सिंह, ए सी
48269 विवेक श्रीवास्तव, ई एम ई	48307 प्रदीप सिंह सोडी, इंजीनियर्स
48270 सन्जीव खन्ना, ए सी	48308 सुखमिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
48271 कमलेन्द्रा सिंह भट्टी, इन्फैन्ट्री	48309 वरुण शमशेरे माला, आर्टी
48272 लीहोतहावम मानो शर्मा, इन्फैन्ट्री	48310 बालकरण सिंह, ए एस सी
48273 सन्दीप सिंह, आर्टी	48312 संजय विज, आर्टी
48274 अतुल सक्सेना, ए डी ए	48313 जतिन्दर कुमार पासन, ए सी

48314 जयदीप सिंह चीना, इन्फैन्ट्री	48357 रघूनाथ आर कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री
48315 मोहन लाल शर्मा, ए एस सी	48359 शैलेश गौर, ए एस सी
48316 हरमनजीत सिंह, ईण्ट	48360 शोइबल चटर्जी, सिग्नल्स
48317 किरण गोडे, आर्टी	48361 बिरेन्द्र सिंह सलाथिया, ईण्ट
48318 अतुल चौपड़ा, आर्टी	48362 राजेश शर्मा, ई एम ई
48319 ऋषि कपूर, इन्फैन्ट्री	48363 कंवलबीर सिंह शीना, आर्टी
48320 सन्दीप सूद, आर्टी	48364 सुमेश सेठ, आर्टी
48321 गुरकृपाल सिंह, इन्फैन्ट्री	48365 समीर रावत, ए सी
48322 विक्रम तनेजा, ए ओ सी	48366 रविन्द्र सिंह माथरू, इन्फैन्ट्री
48324 ईन्द्राजीत कुमार, ए सी	48367 पंकज मिश्रा, ईण्ट
48325 व्यास देव गुलाटी, ई एम ई	48368 अरुण कुमार झा, इन्फैन्ट्री
48326 आशीष प्रधान, ए ओ सी	48369 संजय सज्जनहार, सिग्नल्स
48327 राजीव रावत, इन्फैन्ट्री	48370 सन्दीप करणवाल, सिग्नल्स
48328 रघु वीर, आर्टी	48371 दर्शन सिंह, इन्फैन्ट्री
48330 रवि रमन बंशयाम, इंजीनियर्स	48372 पी श्री कुमार, ए डी ए
48331 नरेन्द्र कुमार शुक्ला, इन्फैन्ट्री	48373 रविन्द्र कुमार पालीवाल, ए सी
48333 शैकात राय, आर्टी	48375 अक्षय कुमार यादव, इन्फैन्ट्री
48335 मनु सोलन्की, इन्फैन्ट्री	48376 मनजीत सिंह, ए एस सी
48336 अनिविला वेनकटा सुब्रामनियम, सिग्नल्स	48377 अशीत बाजपई, इन्फैन्ट्री
48337 रंजन खनूजा, इन्फैन्ट्री	48378 दलजीत सिंह अलहावत, इन्फैन्ट्री
48338 रोहित सहानी, इन्फैन्ट्री	48379 पुनिन्द्र सिंह ढिल्लन, इन्फैन्ट्री
48339 दीपक पाण्डे, ई एम ई	48380 दीपक डढवाल, इन्फैन्ट्री
48340 कुलजीत सिंह जवांड़ा, आर्टी	48381 जिम जेम्स, ई एम ई
48342 दुर्गा लाल रीगर, इन्फैन्ट्री	48383 सन्दीप यादव, ए ओ सी
48343 हर्ष खन्ना, ए डी ए	48384 जोजो मैथ्यू, इन्फैन्ट्री
48344 चन्द्रा भान, इंजीनियर्स	48385 योग राज पाठक, इन्फैन्ट्री
48345 प्रवीन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	48386 प्रीत पाल चन्देल, इंजीनियर्स
48347 उपकार कृष्ण शर्मा, आर्टी	48387 दिवारका नायडू एस के, इन्फैन्ट्री
48348 हर्ष काला, आर्टी	48389 हरजित सिंह साही, इन्फैन्ट्री
48349 संदीप भाटिया, ई एम ई	48390 अनिश श्रीवास्तवा, ए एस सी
48350 सुधीर जी शर्मा, ए एस सी	48391 मनप्रीत सिंह, ए सी
48351 हरजिन्द्र सिंह चीमा, इन्फैन्ट्री	48393 जसमिन्द्र एस शेखों, आर्टी
48353 सुन्धीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	48394 मिलान माथुर, इन्फैन्ट्री
48354 हीरा लाल भट्टाचार्या, ई एम ई	48395 श्याम लाल शर्मा, आर्टी
48355 अमित कुमार चटर्जी, इन्फैन्ट्री	48396 रवि मुखर्जी, आर्टी
48356 धर्मेन्द्रा सिंह परमार, इन्फैन्ट्री	48398 सुभाष सिंह कट्टी, ए सी

- 48399 राजीव गौतम, इन्फैन्ट्री  
 48401 विनोद राजत, ए एस सी  
 48403 वितेक कुमार, इन्जीनियर्स  
 48404 ज्योति प्रकाश पाण्डा, आर्टी  
 48405 संजय वाधव, ए सी  
 48406 राणा धैरजी, इन्जीनियर्स  
 48407 विजय पञ्जानिया, इन्फैन्ट्री  
 48408 शोभित बाहादूर के सी, इन्फैन्ट्री  
 48409 सौमीत्रा, सिग्नल्स  
 48410 उदायन मुखर्जी, आर्टी  
 48411 अनुराग नौटियाल, ईण्ट  
 48412 विनोद कुमार अदुकिचा, ए डी ए  
 48414 रजनीकांत श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री  
 48415 राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री  
 48416 ललित मोहन झा, सिग्नल्स  
 48417 आर वेंकटरामन, इन्फैन्ट्री  
 48418 विमल कुमार कोहली, ए ओ सी  
 48419 संजय मलिक, इन्फैन्ट्री  
 48420 नवीन कुमार बिसारीया, ए एस सी  
 48422 कपिल भामा, इन्फैन्ट्री  
 48423 शिवाजी दामोदर पाटिल, आर्टी  
 48424 भारत सिंह, ए ओ सी  
 48425 प्रतीयूष शरण, ई एम ई  
 48426 राजीव तिखरी, आर्टी  
 48427 अरविन्द बगलिया, इन्जीनियर्स  
 48428 रत्नबीर सिंह, ए ई सी  
 48429 ग्यानान्द्रा प्रताप सिंह, ई एम ई  
 48431 सीमन्ता शेखर दास, इन्जीनियर्स  
 48432 सुनील भाटिया, ई एम ई  
 48433 विक्रम सिंह, इन्जीनियर्स  
 48434 राजाशेखरन पी, ई एम ई  
 48435 मुकेश कुम्हार, इन्जीनियर्स  
 48436 अलोक पुन्ज राय, इन्जीनियर्स  
 48437 अलोक चन्द्रा समन्ता, ई एम ई  
 48438 प्रसान्ना पी एस, इन्जीनियर्स  
 48439 भास्कर मुखर्जी, सिग्नल्स  
 48440 अशीत महापात्रा, ई एम ई  
 48441 जयचन्द्रन टो, सिग्नल्स  
 48442 जोय के, इन्जीनियर्स  
 48443 वीरेन्द्रा कुमार अग्रवाल, इन्जीनियर्स  
 48444 आनन्द कुमार के वी, ई एम ई  
 48445 गोपाल कृष्ण पंडिता, इन्जीनियर्स  
 48446 सुनील बी मोहारिल, इन्जीनियर्स  
 48447 पी बालासुब्रामण्यम, सिग्नल्स  
 48448 प्रसाद पी के, इन्जीनियर्स  
 48449 मनोज भटनागर, इन्जीनियर्स  
 48450 यीलानकी एस सांकरा राव, इन्जीनियर्स  
 48451 सुनीत विज, ई एम ई  
 48453 शिव दर्शन जोशी, इन्जीनियर्स  
 48454 दीपक कुमार, इन्जीनियर्स  
 48455 विनय तनेजा, इन्जीनियर्स  
 48457 अनिल जोतवानी, सिग्नल्स  
 48458 साजू थोमस, ई एम ई  
 48460 फरोज बशीर अहमद कारलेकर, इन्जीनियर्स  
 48461 कोदारु श्रीनन्दा बाबू, ई एम ई  
 48462 राजा गोपाल एस, इन्जीनियर्स  
 48464 नरदीप सिंह आनन्द, ई एम ई  
 48465 कारा सुधीर कुमार रिगनाल्ड, इन्जीनियर्स  
 48466 कृष्ण कांत अनंत कावले, इन्जीनियर्स  
 48468 लव कुमार शर्मा, इन्जीनियर्स  
 48469 नीरज शर्मा, इन्जीनियर्स  
 48470 सुदर्शन कुमार बी, इन्जीनियर्स  
 48472 कासुला प्रसाद कुमार, सिग्नल्स  
 48473 कपिल कुमार कपूर, ई एम ई  
 48474 कालू राम वर्मा, ई एम ई  
 48475 मरुनमाया मिश्रा, इन्जीनियर्स  
 48476 ऋषिरोद कुमार नायक, सिग्नल्स  
 48477 किरन बीर मारवाहा, ई एम ई  
 48478 महेश चन्द्र भारद्वाज, ई एम ई  
 48480 शशिधर एम बी, इन्जीनियर्स

48481 आशुतोष सी पुरी, इन्जीनियर्स  
 48482 मञ्जुनाथ बी टी, इन्जीनियर्स  
 48483 आशुतोष यादव, इन्जीनियर्स  
 48484 शाहिद शब्बर, ई एम ई  
 48485 कपूर सन्जीव सुदर्शन, ई एम ई  
 48486 विजय कुमार, सिग्नल्स  
 48487 उमेश जी, इन्जीनियर्स  
 48488 विपन कुमार निझावन, ए ई सी  
 48489 मोहन चन्द्र बहुगुणा, सिग्नल्स  
 48490 नीतिन कुमार तिवारी, सिग्नल्स  
 48491 राजवीर सिंह, ए ई सी  
 48492 अनिल कुमार बट्ट, सिग्नल्स  
 48494 अजीत कुमार, इन्जीनियर्स  
 48495 राजेश कुमार चौधरी, सिग्नल्स  
 48497 श्रीनिवास मूर्ति श्रीधर, ए ई सी  
 48498 अनंत प्रसाद मिश्रा, ई एम ई  
 48499 संजय कुमार, इन्जीनियर्स  
 48500 ज्ञान वीर, इन्जीनियर्स  
 48501 सुनील अब्राहम, इन्जीनियर्स  
 48502 अनिरु सिंह, इन्जीनियर्स  
 48505 पी मल्लथायम्बी, इन्जीनियर्स  
 48506 दिनेश कुमार गुप्ता, ए ई सी  
 48507 पूर्वोमाथ दुंडइया, इन्जीनियर्स  
 48508 रघू मलाली, इन्जीनियर्स  
 48509 एम वी एल नरसिम्हा राव, इन्जीनियर्स

-----16 दिसम्बर 2004-----

अजय गोयल  
 उप निदेशक  
 एम एस 8

सं. 417, दिनांक 25 जुलाई 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अधिवर्षिता आयु ग्रहण करने पर सेना से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

ले. जनरल पी एन शाही, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एल एम (एमआर-02562डब्ल्यू)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ले. जनरल ए के लहरी, वी एस एम (एमआर-02224वाई)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

मेजर जनरल पी एस वालदईया (एमआर-02629के)/एएमसी/पीसी, 29 फरवरी 2004 (अपराह)।

मेजर जनरल एन के मनचंदा (एमआर-03897ए)/एएमसी/पीसी, 31 मार्च 2004 (अपराह)।

मेजर जनरल बी एन बरगोहीन (एमआर-02862एक्स)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर सी वी कोशी (एमआर-02272वाई)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर पी पी सैनी (एमआर-02699एच)/एएमसी/पीसी, 31 मार्च 2004 (अपराह)।

कर्नल एम एस सांडील (एमआर-02465वाई)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

कर्नल ए एस कंडाला (एमआर-03266एक्स)/एएमसी/पीसी, 29 फरवरी 2004 (अपराह)।

कर्नल टी सी डे (एमआर-02900एच)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

कर्नल एम मोहन्ती (एमआर-02990पी)/एएमसी/पीसी, 29 फरवरी 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल जी चन्द (एमआर-03317ए)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एम आर दास (एमआर-03606पी)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एम एम बोरकर (एमआर-03474एम)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल वी एम उप्पल (एमआर-03768ए)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एस के पांडा (एमआर-04933एम)/एएमसी/पीसी, 31 मार्च 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एस सी शर्मा (एटीआर-16497एम)/एएमसी/पीसी, 31 जनवरी 2004 (अपराह)।

ले. जनरल एस पी कालरा, ए वी एस एम (एमआर-02094एफ)/एएमसी/पीसी, 31 अगस्त 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर एन के नन्दी (एमआर-03002डब्ल्यू)/एएमसी/पीसी, 31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर रमेश कुमार (एमआर-02695एम)/एएमसी/पीसी, 31 अगस्त 2004 (अपराह)।

कर्नल एम एम पूनेथा (एमआर-02581एफ)/एएमसी/पीसी, 30 सितंबर 2004 (अपराह)।

कर्नल एन एस देसाय (एमआर-03514एच)/एएमसी/पीसी, 31 अगस्त 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एच सी विश्वकर्मा (एमआर-02676एफ)/एएमसी/पीसी,  
31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल ए के चुग (एमआर-02980एल)/एएमसी/पीसी,  
30 सितम्बर 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल के ए राध (एमआर-04685एफ)/एएमसी/पीसी,  
30 सितम्बर 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल अशोक शाह (एमआर-04462के)/एएमसी/पीसी,  
31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल आर के गोस्वामी (एमआर-04551एच)/एएमसी/पीसी,  
31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल सी के उमाशंकर (एमआर-03026ए)/एएमसी/पीसी,  
31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एस के कपूर (एमआर-03027एच)/एएमसी/पीसी,  
31 अगस्त 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल अब्दुल हलीम (एमआर-03825डब्ल्यू)/एएमसी/पीसी,  
31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल पी चौधरी (एमआर-03826वाई)/एएमसी/पीसी,  
30 सितम्बर 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल यू एन मोहनता (एमआर-04470एच)/एएमसी/पीसी,  
31 जुलाई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल के सिकंदर (एमआर-07037के)/एएमसी/पीसी,  
30 सितम्बर 2004 (अपराह)।

मेजर जनरल टी राय (एमआर-02556एच)/एएमसी/पीसी,  
31 मई 2004 (अपराह)।

मेजर जनरल आर टी अवस्थी (एमआर-02915एल)/एएमसी/पीसी,  
30 अप्रैल 2004 (अपराह)।

मेजर जनरल एस आर कामतीकर (एमआर-02929एल)/  
एएमसी/पीसी, 30 जून 2004 (अपराह)।

ब्रिगेडियर एस सी दुआ (एमआर-02274के)/एएमसी/पीसी,  
30 अप्रैल 2004 (अपराह)।

कर्नल एस के सूरी (एमआर-02870डब्ल्यू)/एएमसी/पीसी,  
30 अप्रैल 2004 (अपराह)।

कर्नल बी पी सिंह (एमआर-04212एच)/एएमसी/पीसी,  
30 जून 2004 (अपराह)।

कर्नल एम एस कंग (एमआर-02704एच)/एएमसी/पीसी,  
30 अप्रैल 2004 (अपराह)।

कर्नल पी रामादासन (एमआर-02650एम)/एएमसी/पीसी,  
31 मई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल वी के पुरी (एमआर-02835एन)/एएमसी/पीसी,  
30 अप्रैल 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एम ए खान (एमआर-03491एम)/एएमसी/पीसी,  
31 मई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल एस बनर्जी (एमआर-03566वाई)/एएमसी/पीसी,  
31 मई 2004 (अपराह)।

ले. कर्नल ए के सक्सेना (एमआर-04029ए)/एएमसी/पीसी,  
30 जून 2004 (अपराह)।

शिव कुमार शर्मा  
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (कार्मिक)

धल सेना शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 418, दिनांक 25 जुलाई 2005--भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या, दिनांक 03 नवम्बर 1984 शीर्षक "नियमित सेना"--सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक 'कप्तान के पद पर' पी के अर्चाया (एम आर-04888 एल) के नाम के सामने:--

के स्थान पर : 14 दिसम्बर 1983

(नोशनल) वरिष्ठता 21 सितम्बर से मानी जाएगी।  
जिसका वेतन, भत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पढ़ा जाय : 14 दिसम्बर 1983

(नोशनल) वरिष्ठता 21 सितम्बर 83 से मानी जाएगी।  
जिसका वेतन, भत्ते तथा सेवा-निवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या, दिनांक 18 अप्रैल 1988 शीर्षक "नियमित सेना"--सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक 'कप्तान से मेजर के पद पर' में लक्ष्मी कान्त (एम आर-04810ए) के नाम के सामने:--

के स्थान पर : 22 अगस्त 1988

पढ़ा जाय : 22 अगस्त 1988

(नोशनल) वरिष्ठता 25 जून 1988 से मानी जाएगी।  
जिसका वेतन, भत्ते तथा सेवा-निवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या, दिनांक 29 जून 1991 शीर्षक "नियमित सेना"--सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक 'कप्तान से मेजर के पद पर' में पी के अर्चाया (एम आर-04888एल) के नाम के सामने:--

के स्थान पर : 04 फरवरी 1989

पढ़ा जाय : 04 फरवरी 1989

(नोशनल) वरिष्ठता 21 सितम्बर 1988 से मानी जाएगी। जिसका वेतन, भत्ते तथा सेवा-निवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या, दिनांक 25 जुलाई 1998 शीर्षक "नियमित सेना"-सेना चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक 'मेजर से ले. कर्नल के पद पर' में पी के आर्चाया (एम आर-04888एल) के नाम के सामने:--

के स्थान पर : 14 दिसम्बर 1997

पढ़ा जाय : 14 दिसम्बर 1997

(नोशनल) वरिष्ठता 21 सितम्बर 1997 से मानी जाएगी। जिसका वेतन, भत्ते तथा सेवा-निवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 05 सितम्बर 1998 शीर्षक "नियमित सेना"-सेना चिकित्सा

कोर (स्थायी कमीशन) उप शीर्षक 'मेजर से ले. कर्नल के पद पर' में लक्ष्मी कान्त (एम आर-04810ए) के नाम के सामने:--

के स्थान पर : 22 अगस्त 1997

पढ़ा जाय : 22 अगस्त 1997

(नोशनल) वरिष्ठता 25 जून 1997 से मानी जाएगी। जिसका वेतन, भत्ते तथा सेवा-निवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शिव कुमार शर्मा

डि. डि. डि. डि.

उप महानिदेशक (कार्मिक)

## MINISTRY OF DEFENCE

No. 412, dated 22nd July 2005—The President has made the following appointments on his Honorary Personal Staff w.e.f. 29th April 2005:—

## Principal Honorary Air ADC

Air Chief Marshal SP Tyagi, PVSM, AVSM, VM (8130) F(P)

## Honorary Air ADC

Air Mshl, SK Jain, PVSM, AVSM, VM (9716) F (P)

## Principal Honorary Army ADC

IC-16078 General J J Singh, PVSM, AVSM, VSM, ADC, (COAS)

## Honorary Army ADC (Armed Corps)

IC-16234 Lt. Gen. BS Thakur, PVSM, AVSM

## Honorary Army ADC (Infantry)

IC-16620 Lt. Gen. K Nagaraj, PVSM, UYSM

## Honorary Army ADC (Arty)

IC-17206 Lt. Gen. AS Jamwal, AVSM\*, VSM

## Honorary Army ADC (ASC/AOC/EME)

IC-16300 Lt. Gen. TA D' Cunha, (AOC)

S. D. BANGA  
Under Secy.

Kumar Bajia (27862), Ravishankar Patil (27863), Abhishek Tyagi (27864), Chintan Khanna (27865), Nitin Bakhshi (27866), Prasat Kalyat Thazathu Veetil (27867), Baljeet Singh Anand (27868), Vaidyanathan Magesh (27869), Nagaraj Kattaian (27870), Vihang Pramod Nadkarni (27871), Kishore Raju Gadhira (27872), Sudheer Parameshwaran (27873), Gaurav Sharma (27874), Prasenjit Pramanik (27876), Girish Chandra Mathpal (27877), Mehul Gupta (27878), Pankaj Rajain (27879), Manish Rastogi (27880), Abraham Jacob (27881), M Chandru (27882), Amardeep Singh (27883), Rohit Anand (27884), Radhakrishnan Ravindranath Senthil Kumar (27885), Ashish Karan (27886), Manu Gopal (27887), Sumit Sharma (27888), Deepak Krishnananda Prabhu (27889), Gaurav Dwivedi (27890), Nishant Verma (27891), Anirban Maitra (27892), Ganesh Kannan Kannan (27893), wef 05 Jan 04.

The President is pleased to grant Short Service Commission (On Probation) to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of AFO 59/98.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)  
BRANCH

Fg Offr Gopalakrishna Venu Kurup (27832), Basil Oscar Rebeiro (27833), Jahagirdar Nilesh Govind (27834), Anil Kumar (27835), Naredla Viswhanath (27836), Suresh Kumar (27837), Kammili Sree Phani Kumar (27838), Hajare Manoj Ramrao (27839), Nagendra DA (27840), Yudhvir Singh (27841), Vishal Goyal (27842), Rajarathinam Karthik (27843), Hivare Sachin Bhimrao (27844), Natarajan Rajagopalan (27845), Sameer Sudhir Deshmukh (27846), Ramachandran Pradeep (27847) wef 05 Jan 04, Fg Offr Shishir Chaturvedi (27926) wef 12 Jan 04, Fg Offr Anand Dutt (27932), Golla Joshva (27933) wef 21 Jan 04, Fg Offr Sunny Vyas (27934) wef 22 Jan 04.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)  
BRANCH

Fg Offr D'Mello Francis Mathew (27894), Upadrasta Vidyasagar Laxmayya (27895), R Yashavanth Raj (27896), Arun Singh (27897), M Dhanesekar (27898), Mukul Kaistha (27899), Abdul Rehman (27900), Srikant PA (27901), Manish Dahiya (27902), Sachin Sadasivan (27903), Ashish Tiwari (27904), Tejinder Singh Baath (27905), T Arunprasad (27906), Arjun Jadhav (27907), Vits Susan Vincent (27908), Rajneesh Thota (27909), Diptiman Mukhi Bhattacharya (27910), Gaurav Ramkrishna Karandikar (27911), Dhann Vir (27912), Chudasama Narendrasinh Juvasinh (27913), Saurabh Kalra (27914), Yogesh Parihar (27915), Tarun Shakti Daluiya (27916), Sachin Tom John (27917), Abhinay Shukla (27918), Prithviraj Singh Chouhan (27919), Tushar Joshi (27920), Vincet Garg (27921), Satish Kumar Pandari (27922), Puran Deo Ojha (27923), Vishwadeep Das (27924), Gireesh Krishnan (27925) wef 05 Jan 04, Fg Offr Saurabh

No. 413, dated 27th July 2005—The President is pleased to grant Provisional Short Service Commission to the undermentioned officers in the rank of Fg Offr wef the dates mentioned against their names under the provisions of Govt. of India, Min. of Defence letter No. Air HQ/22258/1/PO3(A)/1611/DOIA/D(Air-III) dated 19 Oct 1982.

## INDIAN AIR FORCE

AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)  
BRANCH

Fg Offr Preetham Shetty (27824), Rajan Vishwakarma (27825), Arpan Mishra (27826), Mahendran Natarajan (27827), Vinod Sanjeev (27828), Nikhil M (27829), Harshavardhan S Kotar (27830), Saurabh Mohan (27831) wef 05 Jan 04.

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL)  
BRANCH

Fg Offr Abhinandan Dass (27848), Naveen Kumar Jayram (27849), Sandeep Debnath (27850), Sampath Krishnan Muthuvel (27851), Vikram Chhiber (27852), Pankaj Kumar Padhy (27853), Tushar Rastogi (27854), Bannehland Dkhar Giri (27855), Abhishek Singh (27856), Manish Kumar Verma (27857), Nimmi Kaur (27858), Anupam Kapoor (27859), Nayan Kumar Sen (27860), Sajjad Khan (27861), Ravi

Singh Chauhan (27927), Suradeep Nath (27928), Kasinathan Ramachandran (27929), Kallol Bose (27930), Karthik Subramaniam (27931) wef 12 Jan 04.

S. SRIVASTAV  
Wg Cdr  
JDPO-3(D)

(ARMY BRANCH)

No. 414, dated 21st July 2005—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

REGUAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Subedar Major (GD)

- Sub (GD) Balbir Singh (JC-347097A), 13 Sep 2004  
Sub (GD) Satish Jadhav (JC-347195A), 17 Sep 2004  
Sub (GD) Chandrakant Kondiram Shinde (JC-347123W), 17 Sep 2004  
Sub (GD) Karnail Singh (JC-347160K), 05 Oct 2004  
Sub (GD) Aqbal Ahmed Khan (JC-347157K), 30 Sep 2004  
Sub (GD) Gurmit Singh (JC-216103M), 22 Dec 2004  
Sub (GD) Randhir Singh (JC-347179H), 01 Dec 2004

To be Subedar Major (Clk GD)

- Sub (Clk GD) Sukhjinder Singh (JC-216128Y), 08 Jan 2005  
Sub (Clk GD) Amarnath Dhiman (JC-216117M), 08 Jan 2005  
Sub (Clk GD) Rajaram (JC-347141Y), 03 Dec 2004  
Sub (Clk GD) Suram Chand (JC-347004A), 04 Oct 2004  
Sub (Clk GD) Bansi Lal (JC-347044F), 25 Oct 2004  
Sub (Clk GD) Jay Chandra Singh (JC-347035A), 19 Nov 2004  
Sub (Clk GD) Maheshar Singh (JC-347117H), 17 Nov 2004  
Sub (Clk GD) Basheshar Singh (JC-347058F), 25 Oct 2004  
Sub (Clk GD) Gurmeh Singh Dhaiya (JC-347013F), 03 Dec 2004  
Sub (Clk GD) Vinod Kumar Awasthi (JC-347086N), 04 Sep 2004  
Sub (Clk GD) Kishan Singh (JC-347045K), 06 Oct 2004  
Sub (Clk GD) Arjan Singh (JC-347183L), 16 Dec 2004

To be Subedar (GD)

- Nb Sub (GD) Jitendranath Shukla (JC-348975X), 24 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Rajinder Singh (JC-348978L), 13 Oct 2004  
Nb Sub (GD) Baldev Singh (JC-349001K), 01st Oct 2004  
Nb Sub (GD) Bhawan Singh (JC-349045H), 20 Oct 2004  
Nb Sub (GD) Vijay Kumar Datta (JC-348958X), 22 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Nikam Chandersen Pandurang (JC-348997W), 16 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Abdul Gaffar (JC-348921W), 20 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Darbara Singh (JC-348876P), 06 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Pritam Singh (JC-348916L), 13 Aug 2004  
Nb Sub (GD) Nipane Shamshundar Jijaba (JC-348959A), 21 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Raghmode Pandurang Niwaruttirao (JC-348965N), 22 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Kurban Ali (JC-349004Y), 10 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Tulsi Prasad (JC-348968F), 13 Oct 2004  
Nb Sub (GD) Awdesh Kumar Shukla (JC-348960P), 26 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Karmarkar Umrao Chepaji (JC-348962A), 26 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Nikam Subhash Narayan (JC-349022F), 16 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Lalit Bahadur Thapa (JC-348995L), 08 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Manglaram Vishnoi (JC-348956M), 24 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Mukhtiar Singh (JC-349046L), 16 Sep 2004  
Nb Sub (GD) M Anbuechhiyan (JC-348979N), 06 Oct 2004  
Nb Sub (GD) Hari Ram (JC-348825F), 07 Oct 2004  
Nb Sub (GD) Tejpal Singh (JC-348977H), 01 Oct 2004  
Nb Sub (GD) Ramesh Kumar (JC-349000H), 09 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Ram Prakash Shriwas (JC-349003W), 09 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Manjit Singh (JC-348966W), 25 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Sabir Khan (JC-348867N), 09 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Bhavar Vijay Bhimarav (JC-349047N), 25 Sep 2004  
Nb Sub (GD) Shamsuddin (JC-348913X), 01 Nov 2004  
Nb Sub (GD) Rajbir Singh (JC-348981L), 17 Sep 2004

Nb Sub (GD) Man Singh Thakur (JC-348970Y), 27 Sep 2004

Nb Sub (GD) Charan Singh (JC-349006K), 01 Nov 2004

Nb Sub (GD) Som Datt (JC-348815X), 01 Oct 2004

Nb Sub (GD) Top Raj Neeure (JC-348963H), 06 Oct 2004

Nb Sub (GD) Major Singh (JC-348980H), 07 Oct 2004

Nb Sub (GD) Harjinder Singh (JC-349016N), 03 Dec 2004

Nb Sub (GD) Bhadur Singh Kumhar (JC-348305W), 11 Nov 2004

Nb Sub (GD) Jabir Singh (JC-348754L), 15 Sep 2004

Nb Sub (GD) Guljar Singh (JC-348976P), 03 Nov 2004

Nb Sub (GD) Satyabir Singh (JC-349005F), 03 Nov 2004

Nb Sub (GD) Shinde Manikrao Shamrao (JC-349018Y), 02 Dec 2004

Nb Sub (GD) Jagir Singh (JC-349021Y), 02 Dec 2004

Nb Sub (GD) Rashpal Singh (JC-348967Y), 05 Oct 2004

Nb Sub (GD) Judge Singh (JC-348961X), 01 Oct 2004

Nb Sub (GD) Major Singh (JC-348767H), 16 Sep 2004

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Babu Ram (JC-348698X), 17 Dec 2004

To be Subedar (Clk GD)

Nb Sub (Clk GD) Boota Ram (JC-348433N), 06 Nov 2004

Nb Sub (Clk GD) Suresh Kumar (JC-348399Y), 04 Nov 2004

Nb Sub (Clk GD) Puran Singh (JC-348384W), 01 Oct 2004

Nb Sub (Clk GD) Subhash Chander (JC-348412X), 01 Oct 2004

Nb Sub (Clk GD) Satyavir Singh (JC-348385L), 18 Oct 2004

Nb Sub (Clk GD) Shishupal Singh (JC-348385Y), 01 Oct 2004

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Khondre Balu Aba (No. 1558236Y now JC-349927K), 23 Feb 2005

Hav (Clk GD) Surajmal (No. 1572359W now JC-349928M), 22 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Nikam Tanaji Shankar (No. 1572439N now JC-349931M), 08 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Azad Singh (No. 1572442N now JC-349934A), 29 Dec 2004

Hav (Clk GD) Raj Kumar Bhandral (No. 1572465P now JC-349935H), 20 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Jetha Ram (No. 1568227L now JC-349940N), 20 Jan 2004

Hav (Clk GD) Vijay Shankar Prasad (No. 1557975Y now JC-349941W), 24 Jan 2005

Hav (Clk GD) Satyawani (No. 1572476F now JC-349942Y), 28 Jan 2005

Hav (Clk GD) Magadum Rajendra Sadashiv (No. 1572481M now JC-349943F), 25 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Tanwar Prem Chand Niranjani Lal (No. 1570642L now JC-349950X), 25 Feb 2005

Hav (Clk GD) Shyam Veer (No. 1572488W now JC-349951A), 21 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Kulwant Singh (No. 1558543W now JC-349929P), 12 Jan 2005

Hav (GD) Manohar Singh (No. 1559844M now JC-349930K), 17 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Yeshbir Singh (No. 1567557X now JC-349932P), 28 Dec 2004

Hav (GD) Gurjant Singh (No. 1568487W now JC-349933X), 04 Jan 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Gurdev Singh (No. 1555905F now JC-349936L), 27 Dec 2005

Hav (GD) Wani Narayan Maruti (No. 1558070H now JC-349937N), 23 Dec 2004

Hav (GD) Jitendera Pal Singh (No. 1558272K now JC-349938W), 23 Dec 2005

Hav (GD) Hari Singh (No. 1574956K now JC-349939Y), 20 Dec 2004

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Gurmit Singh (No. 1558671M now JC-349944K), 05 Feb 2005

Hav (GD) Allabchaya Mirasi (No. 1558841M now JC-349945M), 05 Feb 2005

Hav (GD) Khamakar Bhimrao Dattatray (No. 1559253L now JC-349946P), 11 Feb 2005

Hav (GD) Sunil Motiram Jogi (No. 1554778L now JC-349947X), 05 Feb 2005

Hav (GD) Mansur Ansari (No. 1556550N now JC-349948A), 12 Feb 2005

Hav (GD) Rulda Ram (No. 1557922A now JC-349949H), 10 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Ashok Bapurao Satpute (No. 1559182P now JC-349952H), 05 Mar 2005

Hav (GD) Laxman Ramchandra Sakpal (No. 1559268N now JC-349953L), 05 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Gurjant Singh (No. 1559044N now JC-349960F), 25 Feb 2005

Hav (GD) Darshan Singh (No. 1556929X now JC-349961K), 11 Mar 2005

Hav (GD) Ethape Ramdas Nanabhau (No. 1559215P now JC-349962M), 12 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Jan 2005 without effect on pay & allowances)

Hav (GD) Rakesh Chandra Pandey (No. 1558632P now JC-349965A), 07 Mar 2005

Hav (GD) Jadhav Rajaram Baburao (No. 1559344P now JC-349966H), 12 Mar 2005

Hav (GD) Bahadur Singh (No. 1567785A now JC-349967L), 09 Mar 2005

Hav (GD) Rawail Singh (No. 1567796M now JC-349968N), 14 Mar 2005

Hav (GD) Davinder Singh (No. 1568435A now JC-349969W), 10 Mar 2005

Hav (GD) Ayub Khan (No. 1568763N now JC-349970L), 15 Mar 2005

Hav (GD) Sane Sybhash Shidu (No. 1568905A now JC-349971N), 13 Mar 2005

Hav (GD) Sarabjit Singh (No. 1569024N now JC-349972W), 15 Mar 2005

Hav (GD) Major Singh (No. 1569879W now JC-349973Y), 12 Mar 2005

Hav (GD) Malkit Singh (No. 1572462F now JC-349974F), 21 Mar 2005

Hav (GD) Charanjit Singh (No. 1580015M now JC-349975K), 10 Mar 2005

Hav (GD) Harbans Singh (No. 1556633Y now JC-349976M), 11 Mar 2005

Hav (GD) Tarsem Singh (No. 1557259N now JC-349977P), 10 Mar 2005

Hav (GD) Hoshiar Singh (No. 1558585H now JC-349978X), 13 Mar 2005

Hav (GD) Ashok Kumar (No. 1574846P now JC-349979A), 12 Mar 2005

Hav (GD) Kashmir Singh (No. 1556760N now JC-349980P), 17 Mar 2005

Hav (GD) Subhas Chandra Ram Khot (No. 1557661X now JC-349981X), 10 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01st Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Qamruddin (No. 1555318W now JC-349984L), 29 Mar 2005

Hav (GD) Motha Singh (No. 1555459L now JC-349985L), 25 Mar 2005

Hav (GD) Mohd Laeek (No. 1555550F now JC-349986W), 28 Mar 2005

Hav (GD) Sucha Singh (No. 1555886F now JC-349987Y), 22 Mar 2005

Hav (GD) Subhash Chandra (No. 1556821A now JC-349988F), 25 Mar 2005

Hav (GD) Kuldeep Singh (No. 1557280W now JC-349989K), 18 Mar 2005

Hav (GD) Ubhe Mohan Balu (No. 1559152X now JC-349990Y), 23 Mar 2005

Hav (GD) Vinod Kumar Sharma (No. 1571036F now JC-349991F), 28 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav (Clk GD) Shambhu Dayal (No. 1570030N now JC-349959M), 28 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay & allowances)

Hav (Clk GD) Ravindra Kumar Srivastav (No. 1572482P now JC-349964X), 09 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allowances)

Hav (Clk GD) Jasbir Singh (No. 1572629A now JC-349983H), 28 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allowances)

Hav (Clk GD) Murali KK (No. 1572830L now JC-349992K), 02 Apr 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Balveer Singh (No. 1575205P now JC-349963P), 09 Mar 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay & allowances)

Hav (SKT) Kulbeer Singh (No. 1575648W now JC-349982A), 06 Feb 2005

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay & allowances)

To be Subedar Major (Clk GD)

Sub (Clk GD) Giddaluri Ranganatha (JC-347181A), 02 Feb 2005

Sub (Clk GD) Hira Singh (JC-347182H), 01 Dec 2004

Sub (Clk GD) Pramod Kumar Rai (JC-347124Y), 03 Mar 2005

Sub (Clk GD) Jagannath (JC-347112K), 04 Feb 2005

Sub (Clk GD) Raj Singh (JC-224996A), 08 Nov 2004

To be Subedar Major (GD)

Sub (GD) Ashik Ali (JC-347216L), 21 Mar 2005

Sub (GD) Netaji Pandurang Ingle (JC-347080M), 21 Feb 2005

Sub (GD) Nirmal Singh (JC-347277H), 02 Mar 2005

Sub (GD) Hakam Singh (JC-347237F), 15 Jan 2005

Sub (GD) Musahab Ali (JC-347224K), 02 Feb 2005

Sub (GD) Kuldip Singh (JC-347094M), 11 Sep 2004

Sub (GD) Sadhu Singh (JC-347218W), 10 Feb 2005

Sub (GD) Ramdin Prasad (JC-347357A), 27 Jan 2005

To be Subedar Major (SKT)

Sub (SKT) Mam Chand (JC-347360A), 09 Feb 2005

Sub (SKT) Joginder Singh (JC-347359L), 10 Feb 2005

To be Subedar (CLK GD)

Nb Sub (CLK GD) Sagar Chand (JC-348659Y), 04 Apr 2005

Nb Sub (CLK GD) Prem Pal (JC-348436F), 05 Feb 2005

Nb Sub (CLK GD) Ram Chandra Larwal (JC-348456P), 03 Feb 2005

Nb Sub (CLK GD) Mohan Lal Dogra (JC-348454K), 24 Jan 2005

Nb Sub (CLK GD) Swarn Singh (JC-348460X), 18 Feb 2005

Nb Sub (CLK GD) Anil Kumar T V (JC-348457X), 21 Dec 2004

Nb Sub (CLK GD) Jagdish Babu (JC-348462H), 17 Feb 2005

To be Subedar (GD)

Nb Sub (GD) Hardial Singh (JC-349017W), 18 Mar 2005

Nb Sub (GD) Bahadar Singh (JC-348831P), 22 Feb 2005

Nb Sub (GD) Ashok Govind Sakpal (JC-349010M), 02 Mar 2005

Nb Sub (GD) Wagh Machhinder Bhausaheb (JC-349054K), 04 Mar 2005

Nb Sub (GD) Shridhar Bhau Uttekar (JC-349019F), 09 Feb 2005

Nb Sub (GD) Sohan Singh (JC-349025P), 30 Jan 2005

Nb Sub (GD) Sukhdev Singh (JC-349048W), 28 Jan 2005

Nb Sub (GD) Mohite Gajanan Lalasaheb (JC-349009X), 31 Jan 2005

Nb Sub (GD) Sukhbir Singh (JC-349030A), 28 Feb 2005

Nb Sub (GD) Rakesh (JC-349052Y), 21 Feb 2005

Nb Sub (GD) Shinde Vithal Jaisingh (JC-349012X), 26 Feb 2005

Nb Sub (GD) Rambir Singh (JC-349013A), 19 Jan 2005

Nb Sub (GD) Jagtap Shrish Kumar Bapusaheb (JC-349028H), 19 Jan 2005

Nb Sub (GD) Kadam Vasant Namadeo (JC-349064N), 24 Feb 2005

Nb Sub (GD) Bakshi Singh (JC-349024M), 24 Jan 2005

Nb Sub (GD) Balwinder Singh (JC-349026X), 20 Jan 2005

To be Subedar (SKT)

Nb Sub (SKT) Mohd Shameem (JC-348709Y), 14 Feb 2005

#### BENGAL ENGINEER GROUP

[To be Substantive Subedar Major (GD)]

Sub Mahipal Singh (JC-219525-H), 01 May 2004

Sub Gurdev Singh (JC-325222Y), 01 Sep 2004

Sub Jasbir Singh (JC-325119N), 01 Sep 2004

Sub Pargat Singh (JC-325441A), 01 Nov 2004

Sub Kishan Singh (JC-325431W), 01 Nov 2004

Sub Surendra Singh (JC-325232H), 01 Nov 2004

- Sub Gurnam Singh Pujwal (JC-325457L), 01 Nov 2004
- Sub Sudhansu Shekhar Barik (JC-325466M), 01 Dec 2004
- Sub Jiwan Singh (JC-325468X), 01 Dec 2004
- Sub Ram Bali Singh (JC-325578M), 01 Dec 2004
- Sub Bhima Charan Giri (JC-325580K), 01 Dec 2004
- [To be Substantive Subedar Major Clerk (GD)]
- Sub Hirendra Judder (JC-216004K), 01 Nov 2003
- Sub Janak Raj (JC-202927K), 01 Jan 2004
- Sub Surender Kumar (JC-210794N), 01 Feb 2004
- Sub Satya Narain (JC-210757A), 01 Feb 2004
- Sub Jagdish Raj (JC-216023P), 01 Feb 2004
- Sub Chiranji Lal Semwal (JC-215899P), 01 Feb 2004
- Sub Sat Narain (JC-325127M), 01 Mar 2004
- Sub Akshya Kumar (JC-325128P), 01 Mar 2004
- Sub Sudarshan Mishra (JC-325134H), 01 Apr 2004
- Sub Sohan Lal Sharma (JC-216001W), 01 Apr 2004
- Sub Subhash Chand Sharma (JC-325174K), 01 Apr 2004
- Sub Dev Dutt Verma (JC-325175M), 01 May 2004
- Sub Sahir Ahmed (JC-325259A), 01 May 2004
- Sub Pradip Kumar Sinha (JC-325715A), 01 May 2004
- Sub Sat Pal Singh Kandhol (JC-325180X), 01 May 2004
- Sub Rajender Kumar Sharma (JC-325183L), 01 Jun 2004
- Sub Ishwar Singh Khanchi (JC-325187F), 01 Jun 2004
- Sub Bimal Kishore Yadav (JC-325182H), 01 May 2004
- Sub Gaya Lal Rawat (JC-325189M), 01 Aug 2004
- Sub Harendra Singh (JC-325190F), 01 Aug 2004
- Sub Prakash Chand Sharma (JC-325264L), 01 Sep 2004
- Sub Raj Kumar (JC-325265N), 01 Sep 2004
- Sub Mohan Singh Dogra (JC-325196H), 01 Sep 2004
- Sub Rama Kanta Nayak (JC-219530N), 01 Sep 2004
- Sub Raj Kumar (JC-325267Y), 01 Oct 2004
- Sub Bhagat Singh (JC-325269K), 01 Oct 2004
- Sub Anand Prakash (JC-325272K), 01 Nov 2004
- Sub Jagat Singh Chandela (JC-325275X), 01 Nov 2004
- Sub Om Singh Rawat (JC-325277H), 01 Nov 2004
- Sub Hoshiyar Singh Rawat (JC-325475N), 01 Nov 2004
- To be Substantive Subedar Major (SKT)
- Sub Darshan Singh Cheena (JC-325140W), 01 Nov 2003
- To be Substantive Subedar Major (Survey)
- Sub Man Singh (JC-224826W), 01 May 2004
- Sub Suresh Kumar Singh (JC-224836A), 01 May 2004
- Sub Suresh Pal Singh (JC-326551F), 01 May 2004
- Sub Nand Kishore (JC-326553M), 01 May 2004
- Sub Harpal Singh (JC-210628A), 01 May 2004
- Sub Kam Singh (JC-216030L), 01 May 2004
- Sub Krishna Chand Srivastava (JC-325142K), 01 May 2004
- Sub Kamla Kant Chaubey (JC-325815L), 01 May 2004
- Sub Baljit Singh (JC-326557H), 01 Jun 2004
- Sub Sarbjit Kumar (JC-326835L), 01 Jun 2004
- Sub Akram Ali (JC-325816X), 01 Jul 2004
- Sub Narda Nand Melkania (JC-325613K), 01 Jan 2005
- To be Substantive Subedar (GD)
- Nb Sub Ravinder Singh (JC-328299M), 01 Apr 2004
- Nb Sub Pitamber Singh Negi (JC-328350F), 01 May 2004
- Nb Sub Lal Singh (JC-328301Y), 01 May 2004
- Nb Sub Ramesh Ram Arya (JC-328266Y), 01 May 2004
- Nb Sub Mohan Lal (JC-328302F), 01 May 2004
- Nb Sub Manwar Singh (JC-328314W), 01 May 2004
- Nb Sub Prasanta Kumar Pattnayak (JC-328303K), 01 May 2004
- Nb Sub Nand Kumar Roy (JC-328315Y), 01 May 2004
- Nb Sub Dinesh Chandra Trivedi (JC-328467A), 01 Jun 2004
- Nb Sub Nirmal Singh (JC-328322P), 01 Jun 2004
- Nb Sub Ram Prasad Rai (JC-328317K), 01 Jun 2004
- Nb Sub Deepak Kumar Thapa (JC-328351K), 01 Jun 2004
- Nb Sub Ram Gopal Singh (JC-328318M), 01 Jun 2004
- Nb Sub Kulwant Singh (JC-328352M), 01 Jun 2004
- Nb Sub Gurvinder Singh (JC-328323X), 01 Jun 2004
- Nb Sub Bhawan Singh Panda (JC-328316F), 01 Jun 2004
- Nb Sub Bharat Chandra Roy (JC-328320K), 01 Jun 2004
- Nb Sub Man Singh (JC-328321M), 01 Jun 2004
- Nb Sub M Basanta Singha (JC-328353P), 01 Jun 2004
- Nb Sub Ganga Singh (JC-328354X), 01 Jul 2004
- Nb Sub Tapan Kumar Saha (JC-328324A), 01 Jul 2004
- Nb Sub Shyam Babu Dwivedi (JC-328326L), 01 Jul 2004
- Nb Sub Dalbir Singh (JC-328349H), 01 Jul 2004

Nb Sub Dharam Pal Sharma (JC-328327N), 01 Jul 2004	Nb Sub Sarbjit Singh (JC-328385X), 01 Aug 2004
Nb Sub Rasham Singh (JC-328328W), 01 Jul 2004	Nb Sub Dalip Singh (JC-328386A), 01 Aug 2004
Nb Sub Birtal Singh (JC-328329Y), 01 Jul 2004	Nb Sub Bhagwan Singh (JC-328387H), 01 Aug 2004
Nb Sub Munshi Lal (JC-328369A), 01 Jul 2004	Nb Sub Jaspal Singh (JC-328389N), 01 Aug 2004
Nb Sub Jay Prakash Singh (JC-328331W), 01 Jul 2004	Nb Sub Ganesh Chandra (JC-328419A), 01 Aug 2004
Nb Sub Vashist Singh (JC-328334K), 01 Jul 2004	Nb Sub Farooque Khan (JC-328346Y), 01 Aug 2004
Nb Sub Harish Chandra (JC-328336F), 01 Jul 2004	Nb Sub Subal Chandra Ghosh (JC-328573Y), 01 Aug 2004
Nb Sub Uma Nand (JC-328340X), 01 Jul 2004	Nb Sub Manwar Singh (JC-328377Y), 01 Aug 2004
Nb Sub Ashok Kumar (JC-328337X), 01 Jul 2004	Nb Sub Hari Kishor (JC-328388L), 01 Aug 2004
Nb Sub Joginder Singh (JC-328333F), 01 Jul 2004	Nb Sub Jagat Singh (JC-328370P), 01 Aug 2004
Nb Sub Baldev Singh (JC-328356H), 01 Jul 2004	Nb Sub Devendra Singh (JC-328384P), 01 Aug 2004
Nb Sub Kunwar Singh (JC-328343L), 01 Jul 2004	Nb Sub Mohan Singh (JC-328390H), 01 Sep 2004
Nb Sub Gurnam Singh (JC-328357L), 01 Jul 2004	Nb Sub Dhyan Singh (JC-328391L), 01 Sep 2004
Nb Sub Narayan Singh (JC-328359W), 01 Jul 2004	Nb Sub Shri Pal Singh Sisodia (JC-328392N), 01 Sep 2004
Nb Sub Kumar Ghautri (JC-328757X), 01 Apr 2004	Nb Sub Sekhra Nand (JC-328393W), 01 Sep 2004
Nb Sub Surender Prakash (JC-328342H), 01 Jul 2004	Nb Sub Pushp Raj (JC-328420P), 01 Sep 2004
Nb Sub Jagdish Prasad (JC-328338A), 01 Jul 2004	Nb Sub Dinesh Chander (JC-328394Y), 01 Sep 2004
Nb Sub Om Prakash Pandey (JC-328526F), 01 Aug 2004	Nb Sub Nirmal Singh (JC-328395F), 01 Sep 2004
Nb Sub Milkha Singh (JC-328665L), 01 Aug 2004	Nb Sub Suresh Chander (JC-328396K), 01 Sep 2004
Nb Sub Balbir Singh (JC-328361N), 01 Aug 2004	Nb Sub Milap Singh (JC-328397M), 01 Sep 2004
Nb Sub Lachhiman Chand (JC-328347F), 01 Aug 2004	Nb Sub Ram Singh (JC-328398P), 01 Sep 2004
Nb Sub Joginder Singh (JC-328348K), 01 Aug 2004	Nb Sub Hayat Singh (JC-328421X), 01 Sep 2004
Nb Sub Nand Kumar Yadav (JC-328375M), 01 Aug 2004	Nb Sub Balwinder Singh (JC-328400F), 01 Sep 2004
Nb Sub Dharam Pal (JC-328418X), 01 Aug 2004	Nb Sub Narendra Singh (JC-328401K), 01 Sep 2004
Nb Sub Ranjit Das (JC-328376W), 01 Aug 2004	Nb Sub Ram Pratap Singh (JC-328402N), 01 Sep 2004
Nb Sub Chander Singh Dhami (JC-328371X), 01 Aug 2004	Nb Sub Jagjit Singh (JC-328403P), 01 Sep 2004
Nb Sub Bikram Singh Rawal (JC-328372A), 01 Aug 2004	Nb Sub Kapil Pundir (JC-328404X), 01 Sep 2004
Nb Sub Kalyan Singh Khatayat (JC-328373H), 01 Aug 2004	Nb Sub Naresh Kumar (JC-328422A), 01 Sep 2004
Nb Sub Sunder Singh (JC-328374L), 01 Aug 2004	Nb Sub Thomas Kuria Kose (JC-328423H), 01 Sep 2004
Nb Sub Haridya Narayan Singh (JC-328378F), 01 Aug 2004	Nb Sub Hakim Singh (JC-328424L), 01 Sep 2004
Nb Sub Mohan Singh (JC-328379K), 01 Aug 2004	Nb Sub Lakhvir Singh (JC-328425N), 01 Sep 2004
Nb Sub Satendra Prasad Singh (JC-328380Y), 01 Aug 2004	Nb Sub Raj Singh (JC-328426W), 01 Sep 2004
Nb Sub Satwan Singh (JC-328381F), 01 Aug 2004	Nb Sub Mani Mohan Sinha (JC-328427Y), 01 Sep 2004
Nb Sub Ajit Singh (JC-328382K), 01 Aug 2004	Nb Sub Sukhpal Singh (JC-328439N), 01 Sep 2004
Nb Sub Natabar Majhi (JC-328383M), 01 Aug 2004	Nb Sub Ram Naresh Singh (JC-328428F), 01 Sep 2004
Nb Sub Devendra Singh (JC-328384P), 01 Aug 2004	Nb Sub Babu Lal (JC-328430Y), 01 Sep 2004



Nb Sub Satender Singh (JC-328431F), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Nikha Ram Banyal (JC-328440H), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Manwar Singh (JC-328432K), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Amar Singh (JC-328433M), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Ram Niwas Chouhan (JC-328434P), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Haridwar Prasad (JC-328441W), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Tej Bahadur Singh (JC-328442M), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Nandan Singh (JC-328443W), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Dharam Singh (JC-328444Y), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Naresh Singh (JC-328445F), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Bijeshwar Nath Singh (JC-328446K), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Bhaiya Lal (JC-328447M), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Mahesh Pal Singh (JC-328449X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Labh Singh (JC-328450M), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Joginder Singh (JC-328451P), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Ganesh Singh Bohra (JC-328452X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Navin Chander Upadhyay (JC-328453A), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Digar Singh (JC-328455L), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-328456N), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Dilip Bora (JC-328470A), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Nabadwip Sharma (JC-328471H), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Baldev Singh (JC-328666N), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Rama Pati Tripathi (JC-328472L), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Jagdish Singh (JC-328474A), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Doola Ram (JC-328476F), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Puran Singh (JC-328477K), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Bindo Prasad Singh (JC-328478M), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Gian Singh (JC-328479P), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Hira Singh Bisht (JC-328481M), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Girish Chand (JC-328482P), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Savita Prasad (JC-328483X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Vijendra Kumar Verma (JC-328484A), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Tarun Chandra Borah (JC-328507H), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Chandra Kishore Singh (JC-328485H), 01 Oct 2004

Nb Sub Surendra Prasad (JC-328487W), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Gole Badan Ghosh (JC-328550X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Jugal Kishore Roy (JC-328488W), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Sukumar Pal (JC-328576A), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Gulab Sunil Sitaram (JC-328510W), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Krishna Pal Singh Chauhan (JC-328527K), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Jaibal Singh (JC-328489Y), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Jaspal Singh Negi (JC-328577P), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Jagir Singh (JC-328490N), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Vinod Kumar (JC-328491W), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Ram Chandra (JC-328511Y), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Diwan Singh Dhami (JC-328512F), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Manjit Singh (JC-328513K), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Inder Singh (JC-328578X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Kanchan Singh (JC-328492Y), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Harender Prasad (JC-328515P), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Bhupinder Singh (JC-328493F), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Prakash Chandra Bhatt (JC-328516X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Dev Raj (JC-328517A), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Madan Singh (JC-328518X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Shashi Kant Pandey (JC-328519L), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Jibeshwar Saikia (JC-328528M), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Ram Awadh Ram (JC-328529P), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Vijay Bahadur Ram (JC-328530K), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Tinkari Mondal (JC-328531M), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Raj Kishore Barik (JC-328532P), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Gurmej Singh (JC-328533X), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Kanhiya Lal (JC-328534A), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Satya Prakash (JC-328535H), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Sate Singh (JC-328536L), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Kuldip Singh (JC-328537N), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Mohan Singh (JC-328538W), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Khem Singh (JC-328540N), 01 Nov 2004  
 Nb Sub Raghunandan Prasad (JC-328541W), 01 Nov 2004

Nb Sub Akhileshwar Prasad Singh (JC-328542Y), 01 Nov 2004	Nb Sub Ram Sahare Singh (JC-328579A), 01 Dec 2004
Nb Sub Bhupender Singh (JC-328543F), 01 Nov 2004	Nb Sub Shambhu Prasad Sana (JC-328590Y), 01 Jan 2005
Nb Sub Govind Singh Khaira (JC-328551A), 01 Nov 2004	Nb Sub Chandra Bindu Sav (JC-328591F), 01 Jan 2005
Nb Sub Ramesh Chandra (JC-328552H), 01 Nov 2004	Nb Sub Chandra Kishore Singh (JC-328592K), 01 Jan 2005
Nb Sub Ramu Singh Tanwar (JC-328553L), 01 Nov 2004	Nb Sub Rajendra Prasad Pandey (JC-328594P), 01 Jan 2005
Nb Sub Hoshidar Singh (JC-328555W), 01 Nov 2004	Nb Sub Uma Shankar Singh (JC-328593M), 01 Jan 2005
Nb Sub Bhuwadeshwar Singh (JC-328556Y), 01 Nov 2004	Nb Sub Kailash Chandra Upreti (JC-328595X), 01 Jan 2005
Nb Sub Ram Darsh Ram (JC-328557F), 01 Nov 2004	Nb Sub Baldev Singh (JC-328596A), 01 Jan 2005
Nb Sub Ram Murti (JC-328558K), 01 Nov 2004	Nb Sub Chandrika Singh (JC-328636W), 01 Jan 2005
Nb Sub Beant Singh (JC-328559M), 01 Nov 2004	Nb Sub Tilak Raj (JC-328620W), 01 Jan 2005
Nb Sub Surrender Singh (JC-328560F), 01 Nov 2004	Nb Sub Balbir Singh (JC-328637Y), 01 Jan 2005
Nb Sub Ganesh Singh (JC-328562M), 01 Nov 2004	Nb Sub L Babusana Singha (JC-328621N), 01 Jan 2005
Nb Sub Balkar Singh (JC-328563P), 01 Nov 2004	Nb Sub Bhuwan Chandra (JC-328622W), 01 Jan 2005
Nb Sub Suresh Kumar K (JC-328545M), 01 Nov 2004	Nb Sub Ram Singh (JC-328623X), 01 Jan 2005
Nb Sub Hari Nath Singh (JC-328564X), 01 Nov 2004	Nb Sub Goutam Banik (JC-328598L), 01 Jan 2005
Nb Sub Sombir Singh (JC-328565A), 01 Nov 2004	Nb Sub Kunwar Singh (JC-328638F), 01 Jan 2005
Nb Sub Kashi Nath Bhumali (JC-328566A), 01 Nov 2004	Nb Sub Jai Narain Singh (JC-328639K), 01 Jan 2005
Nb Sub Raghunandan Singh (JC-328568N), 01 Dec 2004	Nb Sub Satya Pal Singh (JC-328642K), 01 Jan 2005
Nb Sub Yogindra Pal Singh (JC-328569W), 01 Dec 2004	Nb Sub Balbir Singh (JC-328643M), 01 Jan 2005
Nb Sub Harbhajan Singh (JC-328635N), 01 Dec 2004	Nb Sub Jaspinder Singh (JC-328597H), 01 Jan 2005
Nb Sub Vijay Kumar (JC-328580P), 01 Dec 2004	Nb Sub Ishwar Singh (JC-328285M), 29 Dec 2004
Nb Sub Ram Pravesh Kumar (JC-328581X), 01 Dec 2004	Nb Sub Bhupender Chandra Bhatt (JC-328619W), 01 Jan 2005
Nb Sub Hira Singh (JC-328582A), 01 Dec 2004	[To be Substantive Subedar Clerk (GD)]
Nb Sub Sukhdev Singh (JC-328618N), 01 Dec 2004	Nb Sub Sadhan Lal Gupta (JC-326141L), 01 Dec 2003
Nb Sub Pan Singh (JC-328583H), 01 Dec 2004	Nb Sub Brajesh Kumar Singh (JC-326575L), 01 May 2004
Nb Sub Uday Vir Singh (JC-328584L), 01 Dec 2004	Nb Sub Baljit Singh (JC-326801Y), 01 May 2004
Nb Sub Mahendra Singh (JC-328585N), 01 Dec 2004	Nb Sub Dharamvir Singh (JC-326604P), 01 May 2004
Nb Sub Bharat Singh (JC-328586W), 01 Dec 2004	Nb Sub Prem Chand Khandewal (JC-326606A), 01 May 2004
Nb Sub Pushkar Singh (JC-328587W), 01 Dec 2004	Nb Sub Indra Bhanu Singh (JC-326659Y), 01 May 2004
Nb Sub Mahender Singh (JC-328588F), 01 Dec 2004	Nb Sub Ram Narain (JC-326608L), 01 Jun 2004
Nb Sub Mathura Ram (JC-328589K), 01 Dec 2004	Nb Sub Suresh Kumar (JC-326660N), 01 Jun 2004
Nb Sub Pradip Singh (JC-328561K), 01 Nov 2004	Nb Sub Vijay Kumar Sayal (JC-326802A), 01 Jun 2004
Nb Sub Ramji Singh (JC-328486L), 01 Oct 2004	Nb Sub Deep Chand (JC-326733P), 01 Jul 2004
Nb Sub Babu P (JC-328539Y), 01 Nov 2004	Nb Sub Satya Pal Sharma (JC-326804L), 01 Jul 2004

- Nb Sub Sajjan Singh Sangwan (JC-325980W), 01 Jun 2004
- Nb Sub Chand Singh (JC-326021M), 01 Jun 2004
- Nb Sub Ranbir Singh (JC-326950L), 01 Aug 2004
- Nb Sub Parshotam Dass (JC-326735A), 01 Sep 2004
- Nb Sub Bikramjit Singh (JC-326736H), 01 Sep 2004
- Nb Sub Harbans Singh (JC-326737L), 01 Sep 2004
- Nb Sub Sanjeev Kumar Saxena (JC-326861M), 01 Sep 2004
- Nb Sub Lal Bahadur (JC-326806W), 01 Sep 2004
- Nb Sub Dharendra Pratap Singh (JC-326862P), 01 Oct 2004
- Nb Sub Harnek Singh (JC-326864A), 01 Oct 2004
- Nb Sub Raju M (JC-326865H), 01 Oct 2004
- Nb Sub Pradeep Kumar (JC-326807Y), 01 Oct 2004
- Nb Sub Dilawar Singh (JC-326661W), 22 Jun 2004
- Nb Sub Jasbir Singh (JC-326866L), 01 Nov 2004
- Nb Sub Devendra Kumar Singh (JC-326869A), 01 Nov 2004
- Nb Sub Jitendra Chandra Barman (JC-326870N), 01 Nov 2004
- Nb Sub Dhananjay Dey (JC-326871W), 01 Nov 2004
- Nb Sub Deepak Singh (JC-326872Y), 01 Nov 2004
- Nb Sub Kena Ram Biswas (JC-326874K), 01 Dec 2004
- Nb Sub Ramesh Kumar (JC-326875M), 02 Dec 2004
- Nb Sub Roshan Lal (JC-326876P), 01 Dec 2004
- Nb Sub Bharat Bhushan Raina (JC-326877X), 01 Dec 2004
- Nb Sub Rajbir Singh (JC-326878A), 01 Dec 2004
- Nb Sub Siya Ram (JC-327101H), 01 Dec 2004
- Nb Sub Mohan Singh Bhakuni (JC-326873F), 01 Dec 2004
- Nb Sub Ram Naresh Prasad Singh (JC-326879H), 01 Jan 2005
- Nb Sub Dinesh Singh Karki (JC-326880X), 01 Jan 2005
- Nb Sub Bachan Singh (JC-326881A), 01 Jan 2005
- Nb Sub Swaran Singh (JC-326882H), 01 Jan 2005
- Nb Sub Basant Kumar Das (JC-326884N), 01 Jan 2005
- To be Substantive Subedar (SKT)
- Nb Sub Rattan Singh (JC-327938W), 01 Apr 2004
- Nb Sub Shri Kant Mishra (JC-327927K), 01 May 2004
- Nb Sub Govind Saha (JC-327909F), 01 Jun 2004
- Nb Sub Khun Khun Ram (JC-328056F), 01 Sep 2004
- Nb Sub Subhash Chand (JC-328057K), 01 Jan 2005
- To be Substantive Subedar Clerk (Store)
- Nb Sub Jaya Ram Barik (JC-326666P), 01 Sep 2004
- To be Substantive Subedar (Survey)
- Nb Sub Virender Singh Negi (JC-326476H), 01 May 2004
- Nb Sub Charanjit Singh (JC-326836N), 02 Jun 2004
- Nb Sub Ran Singh (JC-326837W), 01 Jun 2004
- Nb Sub Wazir Singh (JC-326838Y), 02 Jun 2004
- Nb Sub Surinder Singh (JC-327296W), 01 Jun 2004
- Nb Sub Om Prakash Singh (JC-327910W), 01 Jun 2004
- Nb Sub Dhruv Kumar Singh (JC-326477L), 01 Jul 2004
- Nb Sub Surjeet Singh (JC-327280F), 01 Sep 2004
- Nb Sub Tarsem Singh (JC-327911Y), 01 Oct 2004
- Nb Sub Indra Narayan Yadav (JC-326979N), 30 Sep 2004
- Nb Sub Tarlochan Singh (JC-327012X), 30 Sep 2004
- Nb Sub Narinder Singh (JC-327122M), 30 Sep 2004
- Nb Sub Devendra Chandra Joshi (JC-327123P), 30 Sep 2004
- Nb Sub Ramesh Kumar Tanwar (JC-327222X), 30 Sep 2004
- Nb Sub Avtar Singh (JC-326822N), 01 Jan 2005
- Nb Sub Rajendra Prasad (JC-326823W), 01 Jan 2005
- Nb Sub Chandan Singh (JC-327018Y), 01 Jan 2005
- To be Substantive Subedar (RT)
- Nb Sub Dalvir Singh (JC-325725K), 01 Jan 2004
- Nb Sub Ram Nagina Pandey (JC-325702H), 01 Dec 2004
- Nb Sub Ramesh Jha (JC-325703L), 01 Dec 2004.
- To be Nb Sub (GD)
- Hav Mahipal Singh (No. 1470764A now JC-329496F), 27 Sep 2004@
- Hav Ramesh Chandra (No. 1468441Y now JC-329497K), 26 Sep 2004@
- Hav Bharat Singh (No. 1469214L now JC-329498M), 11 Dec 2004#
- Hav Mukhtar Singh (No. 1468990Y now JC-329499P), 04 Jan 2005#
- Hav Pushpendra Kumar (No. 1467832X now JC-329500Y), 05 Mar 2005%

Hav Jamuna Datt (No. 1466764M now JC-329501F), 05 Mar 2005%

Hav Rup Chand Singh (No. 1469528M now JC-329502K), 03 Mar 2005%

Hav Sagar Singh (No. 1471869W now JC-329503M), 11 Mar 2005%

Hav Man Singh Negi (No. 1471947H now JC-329504P), 23 Mar 2005%

Hav Ramendra Singh (No. 1471946A now JC-329505X), 22 Mar 2005%

Hav Shambhoo Prasad (No. 1472024K now JC-329506A), 07 Mar 2005%

Hav Mahesh Kumar Paswan (No. 1472003N now JC-329507H), 17 Mar 2005%

Hav Sukhwinder Singh (No. 1471976X now JC-329508L), 22 Mar 2005%

Hav Jai Vallabh Singh (No. 1472296K now JC-329509N), 19 Mar 2005%

Hav Guru Charan Singh (No. 1464123X now JC-329510H), 05 Mar 2005%

Hav Jullundur Singh (No. 1465466A now JC-329511L), 24 Mar 2005%

Hav Diwan Chand (No. 1466213X now JC-329512N), 07 Mar 2005%

Hav Anarul Islam (No. 1467083M now JC-329513W), 29 Mar 2005%

Hav Bhulla Singh (No. 1467578Y now JC-329514Y), 04 Mar 2005%

Hav Kalyan Singh Waldia (No. 1467599P now JC-329515F), 09 Mar 2005%

Hav Iqbal Singh (No. 1467969K now JC-329516K), 02 Mar 2005%

Hav Darshan Singh (No. 1468260N now JC-329517M), 19 Mar 2005%

Hav Vijay Shankar Singh Yadawa (No. 1468424Y now JC-329518P), 05 Mar 2005%

Hav Sukhwinder Singh (No. 1468645L now JC-329519X), 09 Mar 2005%

Hav Nagendra Prasad Singh (No. 1469337A now JC-329520M), 03 Mar 2005%

Hav Gorakh Nath Chaubey (No. 1469341A now JC-329521P), 01 Apr 2005%

Hav Dalbir Singh (No. 1469235F now JC-329522X), 07 Mar 2005%

Hav Pawan Kumar (No. 1469533X now JC-329523A), 07 Mar 2005%

Hav Ghan Shyam Singh (No. 1470680M now JC-329524H), 31 Mar 2005%

Hav Balvir Singh (No. 1469549H now JC-329525L), 07 Mar 2005%

Hav Satya Narayan Sharma (No. 1469067N now JC-329526N), 04 Mar 2005%

Hav Din Dayal (No. 1467915H now JC-329527W), 17 Mar 2005%

Hav Kunwar Bahadur Singh (No. 1469477K now JC-329528Y), 07 Mar 2005%

Hav Manak Chand Sharma (No. 1469531H now JC-329529F), 12 Mar 2005%

Hav Rishi Kumar (No. 1466487H now JC-329530W), 07 Apr 2005%

Hav Kuldip Singh (No. 1467227K now JC-329531Y), 12 Mar 2005%

Hav Hemanta Kumar Deka (No. 1468251M now JC-329532F), 07 Mar 2005%

Hav Ravendra Singh (No. 1468343Y now JC-329533K), 09 Mar 2005%

Hav Diwan Singh (No. 1467185H now JC-329534M), 07 Mar 2005%

Hav Ishwar Chandra Tiwari (No. 1468846K now JC-329535P), 07 Mar 2005%

Hav Jagtar Singh (No. 1468938W now JC-329536X), 21 Mar 2005%

Hav Ramvir Singh (No. 1469084N now JC-329537A), 24 Mar 2005%

Hav Shiv Singh (No. 1469426W now JC-329538H), 07 Mar 2005%

Hav Alam Singh (No. 1470578K now JC-329539L), 14 Mar 2005%

Hav Vijay Singh (No. 1469582A now JC-329540A), 07 Mar 2005%

Hav Vinod Prakash (No. 1469622W now JC-329541H), 03 Mar 2005%

Hav Chander Kiran Singh (No. 1469581X now JC-329542L), 07 Mar 2005%

Hav Bipin Chandra Borah (No. 1469686P now JC-329543N), 31 Mar 2005%

Hav Sidheshwar Kumar Singh (No. 1469650X now JC-329544W), 24 Mar 2005%

Hav Mohan Ram (No. 1470066X now JC-329545Y), 02 Mar 2005%

Hav Chandan Singh (No. 1470064M now JC-329546F), 07 Mar 2005%

Hav Ram Bahadur Singh Parmar (No. 1470011N now JC-329547K), 17 Mar 2005%

Hav Devender Singh (No. 1470271Y now JC-329548M), 07 Mar 2005%

Hav Naval Kishor (No. 1470323K now JC-329549P), 07 Mar 2005%

Hav Probir Kumar Biswas (No. 1470340K now JC-329550K), 26 Mar 2005%

Hav Rajender Singh (No. 1470328H now JC-329551M), 04 Apr 2005%

Hav Sharda Prasad (No. 1470371K now JC-329552P), 08 Mar 2005%

Hav Vishan Singh Rawat (No. 1470588N now JC-329553X), 07 Mar 2005%

Hav Bal Gopal Patra (No. 1470645K now JC-329554A), 23 Mar 2005&

Hav Kishori Lal (No. 1470626Y now JC-329555H), 25 Apr 2005&

Hav Md Moziber Rahman (No. 1471015W now JC-329556L), 30 Mar 2005\*

Hav Kapil Muni Singh (No. 1465471L now JC-329557N), 28 Mar 2005&

Hav Avtar Singh (No. 1469736P now JC-329558W), 24 Mar 2005&

Hav Harjit Singh (No. 1471302A now JC-329559Y), 28 Mar 2005&

Hav Kashmir Singh (No. 1471200K now JC-329560N), 18 Mar 2005&

Hav Raj Singh (No. 1471240L now JC-329561W), 21 Mar 2005&

Hav Munish Kumar Parashar (No. 1471335L now JC-329562Y), 04 Apr 2005&

Hav Jaswinder Singh (No. 1471339F now JC-329563F), 23 Mar 2005&

Hav Avtar Singh (No. 1471348H now JC-329564K), 22 Mar 2005&

Hav Darshan Singh (No. 1471346X now JC-329565M), 28 Mar 2005&

Hav Bahadur Singh (No. 1471317M now JC-329566P), 06 April 2005&

Hav Radha Muni Singh (No. 1471355Y now JC-329567X), 22 Mar 2005&

Hav Puran Singh (No. 1471634K now JC-329568A), 21 Mar 2005&

Hav Sukhjinder Singh (No. 3381914M now JC-329569H), 28 Mar 2005&

Hav Raj Kumar Singh Yadav (No. 1471767A now JC-329570X), 22 Mar 2005&

Hav Dharam Dev Yadav (No. 1471766X now JC-329571A), 28 Mar 2005&

Hav Jai Mukar (No. 1471810W now JC-329572H), 21 Apr 2005\*

Hav Sabha Ram (No. 1471813K now JC-329573L), 20 Apr 2005\*

Hav Chanchal Singh (No. 1470225K now JC-329574N), 20 Apr 2005\*

Hav Soneshwar Ram Chairy (No. 1471937Y now JC-329575W), 19 Apr 2005\*

Hav Jogender Singh (No. 1472109A now JC-329576Y), 21 Apr 2005\*

Hav Ishwari Datt Joshi (No. 1472108X now JC-329577F), 21 Apr 2005\*

Hav Kalyan Singh (No. 1472120Y now JC-329578K), 19 Apr 2005\*

Hav Kamal Singh (No. 1472121F now JC-329579M), 21 Apr 2005\*

Hav Tank Prasad Joshi (No. 1472137M now JC-329580F), 21 Apr 2005\*

Hav Ganesh Bahadur Thapa (No. 1472132N now JC-329581K), 20 Apr 2005\*

Hav Narad Singh (No. 1472192H now JC-329582M), 15 Apr 2005\*

Hav Hawa Singh (No. 1472182Y now JC-329583P), 29 Apr 2005\*

Hav Narender Singh (No. 1472200W now JC-329584X), 19 Apr 2005\*

Hav Ram Babu (No. 1472204M now JC-329585A), 18 Apr 2005\*

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Nalin Vilochan Kumar (No. 1466048X now JC-329586H), 01 Mar 2005&

Hav Pritpal Singh (No. 1466154N now JC-329587L), 01 Mar 2005&

Hav Bhumesh Kumar Sharma (No. 1466438A now JC-329588N), 01 Mar 2005&

Hav Sarwan Singh (No. 1466545F now JC-329589W), 01 Mar 2005&

Hav Dharambir Singh (No. 1467525A now JC-329590L), 01 Mar 2005&

Hav Bharat Bhushan Purohit (No. 1467692W now JC-329591N), 01 Apr 2005\*

Hav Daya Shankar Verma (No. 1468116Y now JC-329592W), 01 Apr 2005\*

Hav Ashok Kumar (No. 1468267X now JC-329593Y), 01 Apr 2005\*

Hav Palitapabana Rout (No. 1468815K now JC-329594F), 01 Apr 2005\*

Hav Prakash Chand (No. 1469524M now JC-329595K), 01 Apr 2005\*

To be Nb Sub (Svy)

Hav Shyam Karan Kurmi (No. 6923793F now JC-329596M), 02 Nov 2004@@

Hav Santosh Kumar Mishra (No. 13982907N now JC-329597P), 11 Apr 2005##

Hav Naresh Pal (No. 4564818X now JC-329598X), 12 Apr 2005##

Hav Autul Kumar Tripathi (No. 6390597W now JC-329599A), 12 Apr 2005##

Hav Venukuttan Pillai (No. 1475744W now JC-329600K), 15 Mar 2005&

Hav Binod Kumar Pandey (No. 1478365L now JC-329601M), 26 Apr 2005\*

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay & allces).

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2005 without effect on pay & allces).

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay & allces).

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allces).

@@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay & allces).

##(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Feb 2005 without effect on pay & allces).

#### MADRAS ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Rajendran Pillai R (No. 1380177N now JC-308183P), 01 Apr 2005%

Hav (GD) S Antonisamy (No. 1379242W now JC-308200K), 01 May 2005@

Hav (GD) Basappa Madiwalar (No. 1372298A now JC-308202P), 01 May 2005@

Hav (GD) R Paul Raj (No. 1374453K now JC-308204A), 01 May 2005@

Hav (GD) Peethambaran VN (No. 1376126H now JC-308205H), 01 May 2005@

Hav (GD) Ramachandran (No. 1377206M now JC-308211W), 01 May 2005@

Hav (GD) Jyoteppa Ajur (No. 1374957H now JC-308212Y), 01 May 2005@

Hav (GD) Sree Kumaran K (No. 1374936M now JC-308213F), 02 May 2005@

Hav (GD) Divakaran C (No. 1376273L now JC-308216P), 02 May 2005@

Hav (GD) S Palanichamy (No. 1376512P now JC-308217X), 02 May 2005@

Hav (GD) Thomas N James (No. 1375414H now JC-308219H), 01 May 2005@

Hav (GD) M Sampath (No. 1375806W now JC-308220X), 02 May 2005@

Hav (GD) G Manohara Rao (No. 1376852X now JC-308222H), 02 May 2005@

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allces).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allces).

Hav (GD) Jose PT (No. 1379922W now JC-308069X), 03 Jan 2005@

Hav (GD) R Kenchaiah (No. 1382095K now JC-308072X), 10 Jan 2005@

Hav (GD) S Arjunan (No. 1375772N now JC-308090A), 03 Dec 2004#

Hav (GD) Radhakrishnan K (No. 1375936Y now JC-308097K), 14 Dec 2004#

Hav (GD) PN Sathavahana Reddy (No. 1380248K now JC-308113W), 20 Jan 2005\$

Hav (GD) MSA Sridhar (No. 1378396W now JC-308125L), 01 Feb 2005&

Hav (GD) Suresh D (No. 1378576Y now JC-308126N), 01 Feb 2005&

Hav (GD) Nageswara Rao G (No. 1378745P now JC-308129F), 12 Feb 2005&

Hav (GD) Loganathan R (No. 1379194F now JC-308130W), 01 Feb 2005&

Hav (GD) Irappa Kutoli (No. 1379407K now JC-308131Y), 01 Feb 2005&

Hav (GD) T Soundara Rajan (No. 1379426P now JC-308132F), 01 Feb 2005&

Hav (GD) Govindaraju ST (No. 1380048N now JC-308133K), 01 Feb 2005&

Hav (GD) S Krishnan (No. 1380140M now JC-308135P), 01 Feb 2005&

Hav (GD) G Damodaran (No. 1380252M now JC-308136X), 01 Feb 2005&

Hav (GD) J Gunasekaran (No. 1380283M now JC-308137A), 01 Feb 2005&

Hav (GD) Pazhani (No. 1380289N now JC-308138H), 01 Feb 2005&

Hav (GD) B Venkateswarulu (No. 1374843X now JC-308139L), 02 Feb 2005&

Hav (GD) Ganapathi (No. 1373796Y now JC-308140A), 01 Feb 2005&

Hav (GD) Suresh Kumar P (No. 1378207F now JC-308142L), 24 Feb 2005&

Hav (GD) Umapathi S (No. 1372978A now JC-308145Y), 14 Feb 2005&

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allces).

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allces).

\$(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allces).

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allces).

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) S Arulappan (JC-225748W), 01 Mar 2005

Sub (GD) Sunder Sekaran M (JC-225750N), 01 Mar 2005

Sub (GD) Krishnamoorthy (JC-225783Y), 01 Apr 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) KR Garisankar Reddy (JC-307027Y), 23 Dec 2004

Nb Sub (GD) Janardhanan TR (JC-307055L), 01 Dec 2004

Nb Sub (GD) Sivasankara Kurup T (JC-307068H), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) M Srinivasa Rao (JC-307074W), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) B Veera Raju (JC-307104H), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) Gopi P (JC-307105L), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) Govindan P (JC-307111Y), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) K Ruban (JC-307113K), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) V Rajendiran (JC-307115P), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) A Veluswamy (JC-307124W), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) G Arockiaswamy (JC-307128M), 01 Apr 2005

Nb Sub (GD) J Dakshina Murthy (JC-307132P), 01 Apr 2005

Nb Sub (GD) Sivanagouda Bagali (JC-307135H), 01 Apr 2005

Nb Sub (GD) Jaya Kumar R (JC-307142Y), 01 Apr 2005

Nb Sub (GD) Mohanan C (JC-307143F), 01 Apr 2005

Nb Sub (GD) Surendran TP (JC-307320H), 02 Mar 2005

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) R Gunasekaran (JC-215773F), 01 Feb 2005

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) P Kanna Rao (JC-306986H), 01 Oct 2004

Nb Sub (GD) R Vasanta Kumar (JC-307024L), 01 Dec 2004

Nb Sub (GD) V Kumaran (JC-307067A), 01 Jan 2005

Nb Sub (GD) P Maruthan (JC-307072L), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Dayananda AU (JC-307073N), 03 Feb 2005

Nb Sub (GD) N Rajasekaran (JC-307075Y), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Rethnakaran PC (JC-307076F), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Uthaman KP (JC-307093F), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Ramappa Tirilapur (JC-307094K), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Soundara Rajan M (JC-307095M), 02 Feb 2005

Nb Sub (GD) A Kaliraj (JC-307097X), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Dharmalingam M (JC-307098A), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) Rajan PV (JC-307099H), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) G Venkata Rami Reddy (JC-307100M), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) D Lakshmi Pathi (JC-307101P), 01 Feb 2005

Nb Sub (GD) M Surya Rao (JC-307102X), 10 Feb 2005

Nb Sub (GD) C Chennappan (JC-307065P), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) Appachen Chandy (JC-307107W), 01 Mar 2005

Nb Sub (GD) P Siva Subramanyam (JC-307123N), 01 Mar 2005

## To be Substantive Sub Maj Clks (GD)

Sub Clk John K V (JC-305301M), 12 Jul 2004  
 Sub Clk Rajagopalan C V (JC-305316P), 23 Apr 2004  
 Sub Clk Devadasan P K (JC-305320X), 18 Jun 2004  
 Sub Clk Bharukuttan V M (JC-305327F), 02 Jul 2004  
 Sub Clk M Venkateswarlu (JC-305346M), 24 May 2004  
 Sub Clk Udhay (JC-305365X), 03 Jun 2004  
 Sub Clk B Sundhakara Reddy (JC-305375F), 04 Jun 2004  
 Sub Clk Ranjit Kumar G (JC-305463X), 21 Jun 2004  
 Sub Clk Parameshwaranpillai K (JC-305505Y), 06 Sep 2004  
 Sub Clk Suresh Kurup R (JC-305510K), 15 Jul 2004  
 Sub Clk Sajeevan S (JC-305565N), 28 Jul 2004  
 Sub Clk Ratnagiri Rao Gullapalli (JC-305616W), 06 Aug 2004  
 Sub Clk T Ranganayakulu (JC-305617Y), 03 Sep 2004  
 Sub Clk Mahesh Babu KR (JC-305734K), 06 Sep 2004  
 Sub Clk Jaya Singh (JC-305657A), 21 Oct 2004  
 Sub Clk Krishnan R (JC-305740X), 01 Sep 2004  
 Sub Clk K Dakshina Murthy (JC-305795F), 18 Oct 2004  
 Sub Clk Benith Nazareth (JC-305798P), 14 Oct 2004  
 Sub Clk Dharm Pal (JC-305806H), 01 Oct 2004  
 Sub Clk Antony J Lopez (JC-305831F), 13 Dec 2004  
 Sub Clk Pradip Kumar Das (JC-305841L), 08 Dec 2004  
 Sub Clk Haridasan V (JC-305853A), 01 Dec 2004  
 Sub Clk Kartar Singh (JC-219436K), 21 Mar 2005  
 Sub Clk B Kajendran (JC-305286H), 06 Apr 2005

## To be Substantive Sub Clks (GD)

Nb Sub Clk L Sundara Raj (JC-306549H), 07 Jul 2004  
 Nb Sub Clk John T. Thomas (JC-306550X), 01 Jul 2004  
 Nb Sub Clk Franklin Jose PS (JC-306552H), 01 Jul 2004  
 Nb Sub Clk Chandra Mohan T N (JC-306553L), 08 Sep 2004  
 Nb Sub Clk James P (JC-306551A), 01 Jul 2004  
 Nb Sub Clk C Gnana Sekar (JC-306554N), 23 Jul 2004  
 Nb Sub Clk Rajan Babu B (JC-306555W), 27 Jul 2004  
 Nb Sub Clk Sunil Kumar K M (JC-306556Y), 02 Aug 2004  
 Nb Sub Clk Rajeev M P (JC-306557F), 02 Aug 2004  
 Nb Sub Clk Suresh T V (JC-306558K), 10 Aug 2004

Nb Sub Clk Kutty Krishnan K D (JC-306977P), 01 Sep 2004

Nb Sub Clk A Arokia Samy (JC-306559M), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Clk Mani M V (JC-306560F), 01 Sep 2004  
 Nb Sub Clk Johnson Xavier (JC-306582A), 16 Nov 2004  
 Nb Sub Clk Sampath Kumar K (JC-306493F), 25 Jan 2005  
 Nb Sub Clk Sobha Kumar P V (JC-306499H), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Clk Vikraman T V (JC-306576M), 01 Oct 2004  
 Nb Sub Clk Vidyanandan T V (JC-306577P), 08 Oct 2004  
 Nb Sub Clk Raveendran K (JC-306580P), 27 Oct 2004  
 Nb Sub Clk V Unnikrishnan (JC-306581X), 16 Oct 2004  
 Nb Sub Clk P Panchatcharam (JC-306603L), 01 Nov 2004

Nb Sub Clk Nuton Nagaraj D (JC-306604N), 01 Nov 2004

Nb Sub Clk Sasidharan M (JC-306605W), 16 Nov 2004  
 Nb Sub Clk Dasan P K (JC-306621N), 23 Feb 2005  
 Nb Sub Clk Jose P V (JC-306622W), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Clk Mohandas P K (JC-306626M), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Clk J. Ramaraj (JC-306627P), 01 Dec 2004  
 Nb Sub Clk Rajan Puthukkudi (JC-306649N), 01 Dec 2004

Nb Sub Clk A Manoharan (306650H), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Clk Prakashan V K (JC-306651L), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Clk Hindraj R (JC-306652N), 01 Jan 2005  
 Nb Sub Clk Rajan A (JC-306653W), 01 Feb 2005  
 Nb Sub Clk Karunakaran Mangatt (JC-306655F), 01 Mar 2005

Nb Sub Clk Rajan P R (JC-306657M), 01 Mar 2005  
 Nb Sub Clk Joji Joseph (JC-306658P), 02 Mar 2005  
 Nb Sub Clk Chandran M (JC-306980F), 11 Mar 2005  
 Nb Sub Clk Sunil Kumar K (JC-306659X), 14 Mar 2005  
 Nb Sub Clk I Mathias (JC-306660M), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Clk Sabu B (JC-306661P), 01 Apr 2005  
 Nb Sub Clk Unnikrishnan Unnithan (JC-306662X), 01 Apr 2005

## To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Ethiraj T (JC-307008N), 30 Dec 2004



Nb Sub (GD) K. Mani (JC-307136L), 02 May 2005  
 Nb Sub (GD) Govind (JC-307150X), 01 May 2005  
 Nb Sub (GD) T R Mani (JC-307154N), 01 May 2005  
 Nb Sub (GD) Jijimon N M (JC-307156Y), 02 May 2005  
 Nb Sub (GD) Sathya Kumar K (JC-307161K), 02 May 2005  
 Nb Sub (GD) A Karuppasamy (JC-307163P), 02 May 2005

To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub (GD) K Gajendran (JC-207478K), 03 Jan 2005  
 Sub (GD) Venkatesh (JC-207489W), 27 Aug 2004  
 Sub (GD) K Kumaresan (JC-210328Y), 08 Sep 2004  
 Sub (GD) T R Nagaraj (JC-210335P), 15 Oct 2004  
 Sub (GD) K Maneswara Rao (JC-210339L), 03 Jan 2005  
 Sub (GD) Jambunathan T (JC-210345Y), 01 Nov 2004  
 Sub (GD) S Mahaboob Subhani (JC-215729X), 18 Oct 2004  
 Sub (GD) Chacko K C (JC-215730M), 05 Nov 2004  
 Sub (GD) Mohanan G (JC-215746X), 16 Nov 2004  
 Sub (GD) R Jeganathan (JC-215766L), 01 Dec 2004  
 Sub (GD) Xavier Yesudoss (JC-215772Y), 03 Dec 2004  
 Sub (GD) Nesamony C (JC-219313X), 03 Dec 2004  
 Sub (GD) Raja Gopalan T V (JC-219479Y), 01 Dec 2004

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) P Tamil Kumaran (JC-306773P), 11 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) A Vijaya Bhaskar (JC-306855X), 18 Oct 2004  
 Nb Sub (GD) Kumaran N (JC-306859N), 22 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) M Singaravelu (JC-306877W), 30 Jul 2004  
 Nb Sub (GD) Anbuselvam D (JC-306882F), 01 Aug 2004  
 Nb Sub (GD) M Krishna Moorthy (JC-306984X), 01 Oct 2004  
 Nb Sub (GD) S Bhima Rao (JC-306985A), 04 Oct 2004  
 Nb Sub (GD) G. Murugesan (JC-306989W), 01 Oct 2004  
 Nb Sub (GD) Bathavachalam (JC-306991N), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) Joseph George (JC-306992W), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) A Amirtharaj (JC-306993Y), 01 Nov 2004

Nb Sub (GD) A G Elumalai (JC-307003P), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) Kumaraswamy T B (JC-307004X), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) A Anthony (JC-307005A), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) P Srinivasan (JC-307006H), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) Elangovan G (JC-307007L), 01 Nov 2004  
 Nb Sub (GD) S John Peter (JC-307012W), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Vasanthan T (JC-307013Y), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Sadasivan Pillai P C (JC-307014F), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Sunny P J (JC-307015K), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) George T P (JC-307019A), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) I Adinarayana (JC-307020P), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) S Selvaraj (JC-307023H), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) S Muthuramalingam (JC-307028F), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Johnny Kutty K V (JC-307030Y), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Muraleedharan Pillai K (JC-307031F), 01 Jan 2005  
 Nb Sub (GD) Irishikesakarnavar (JC-307032K), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Krishnappa Dandannavar (JC-307033M), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Hanamanth (JC-307034P), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Mohanan G (JC-307050M), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) R V V Sathyanarayana (JC-307051P), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) K Nagarathinam (JC-307052X), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) G Askar Ali (JC-307053A), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) M Govindudu (JC-307054H), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Teeka Ramkumar M (JC-307056N), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Gangadharan K (JC-307057W), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) N Nagarajan (JC-307058Y), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Sadanandan K K (JC-307059F), 01 Dec 2004  
 Nb Sub (GD) Syamalanagaraja M (JC-307061Y), 01 Jan 2005  
 Nb Sub (GD) Nagarajan G (JC-307069L), 11 Jan 2005  
 Nb Sub (GD) Alex M G (JC-307070A), 01 Jan 2005

Nb Sub (GD) Dayanandan J (JC-307071H), 01 Jan 2005 To be Substantive Sub (Religious Teachers)	Hav (GD) Ezhumalai T (No. 1372808W now JC-308143N), 11 Mar 2005\$
Nb Sub (RT) Shivnath Pandey (JC-305606M), 09 Dec 2004	Hav (GD) B Anthonappa (No. 1371273F now JC-308144W), 12 Feb 2005\$
Nb Sub (RT) Mayanand Mishra (JC-305607P), 09 Dec 2004 To be Substantive Sub (GD)	Hav (GD) S Gagari Singh (No. 15315053F now JC-308147X), 03 Mar 2005&
Nb Sub (GD) M Sekaran (JC-306963F), 01 Oct 2004	Hav (GD) L Chaoba Singh (No. 15315140P now JC-308148M), 07 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Sugunan A P (JC-306990L), 02 Oct 2004	Hav (GD) Paul M D (No. 1374350W now JC-308149P), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Nadarajan T (JC-307110H), 11 Mar 2005	Hav (GD) Shaji S (No. 1379409P now JC-308150K), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Gunasekaran R (JC-307125Y), 01 Apr 2005	Hav (GD) Abdul Rahiman R Y (No. 1377007Y now JC-308152P), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Shaik Mastan Vali (JC-307126F), 01 Apr 2005	Hav (GD) Raman P (No. 1371133P now JC-308153X), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) M Malairajan (JC-307131M), 01 Apr 2005	Hav (GD) S Rajendran (No. 15303865H now JC-308154A), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Haridasan K (JC-307133X), 04 Apr 2005	Hav (GD) A Dhakshna (1370945W now JC-308155H), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Subramani R (JC-307137N), 04 Apr 2005	Hav (GD) K Natarajan (No. 1375295X now JC-308156L), 02 Mar 2005&
Nb Sub (GD) J Thirumal (JC-307139Y), 06 Apr 2005	Hav (GD) A Bridow Sagayaraj (No. 1380956W now JC-308158W), 02 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Haridasan K P (JC-307155W), 01 May 2005	Hav (GD) Tajudeen Baba (No. 1383437Y now JC-308159Y), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) D Henry Mohan David (JC-307159M), 02 May 2005	Hav (GD) K Anbazhagan (No. 15301679N now JC-308162Y), 07 Mar 2005&
Nb Sub (GD) R Chandrasekar (JC-307183H), 02 May 2005	Hav (GD) Kamalakshan U (No. 15301903P now JC-308163F), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) R Paneer Selvam (JC-307184L), 01 May 2005	Hav (GD) Radhakrishna Pillai M (No. 1372434L now JC-308164K), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) A Chinnakannan (JC-307188F), 01 May 2005	Hav (GD) S Rajasekaran Nair (No. 15308938N now JC-308165M), 07 Mar 2005&
Nb Sub (GD) Ganesan J (JC-307199N), 02 May 2005	Hav (GD) T Gurunatha (No. 15311792W now JC-308166P), 01 Mar 2005&
Nb Sub (GD) S Maharaja (JC-307423P), 01 Apr 2005 To be Nb Sub (GD)	Hav (GD) S Bose (No. 1370976W now JC-308172H), 01 Apr 2005*
Hav (GD) G Kumaradhas (No. 1379773N now JC-308067M), 2 Mar 2005%	Hav (GD) Shanmugam (No. 1375247X now JC-308174N), 01 Apr 2005*
Hav (GD) Krishna K (No. 1375518K now JC-308085P), 01 Dec 2004@	Hav (GD) Jonny George (No. 1380973W now JC-308179M), 01 Apr 2005*
Hav (GD) S John Peter (No. 1376541K now JC-308112N), 01 Jan 2005#	Hav (GD) N Subbarayudu (No. 1373875N now JC-308184X), 01 Apr 2005*
Hav (GD) M Kesavan (No. 1378045F now JC-308119X), 01 Jan 2005#	
Hav (GD) G Pethanan (No. 1378583P now JC-308127W), 12 Feb 2005\$	
Hav (GD) Anil Kumar A (No. 1378597P now JC-308128Y), 07 Mar 2005\$	
Hav (GD) M Selvam (No. 1380136K now JC-308134M), 28 Mar 2005\$	
Hav (GD) S Ramachandran (No. 1373832Y now JC-308141H), 28 Feb 2005\$	

Hav (GD) Radhakrishnan Nair K (No. 1375250X now JC-308186H), 01 Apr 2005\*

Hav (GD) Dayalan G (No. 1378699L now JC-308188N), 01 Apr 2005\*

Hav (GD) D Raghu Natha Reddy (No. 1375950L now JC-308189W), 01 Apr 2005\*

Hav (GD) A Edward (No. 1378704L now JC-308192W), 01 Apr 2005\*

%(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances).

@(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances).

# (Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

\$(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

&(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

\*(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Hav (GD) Magenthiran (No. 1370455H now JC-308151M), 02 Mar 2005%

Hav (GD) T Chandran (No. 1376699M now JC-308157N), 01 Mar 2005%

Hav (GD) Ramesh P V (No. 15301113A now JC-308160N), 01 Mar 2005%

Hav (GD) P M Palani (No. 1371014Y now JC-308171A), 01 Apr 2005#

Hav (GD) R Senthur Pandian (No. 1375702P now JC-308173L), 01 Apr 2005#

Hav (GD) S Arockiaraj (No. 1372513A now JC-308175W), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Pitcha Pillai N (No. 1375046Y now JC-308176Y), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Sankaran R (No. 1375410M now JC-308177F), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Vasudevan K (No. 1377248Y now JC-308178K), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Shaik Ibrahim Vali (No. 1374167N now JC-308181K), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Amaranathan K M (No. 1375279A now JC-308187L), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Vijayan K (No. 1377081A now JC-308190L), 01 Apr 2005#

Hav (GD) Antony Cruz S (No. 1377696L now JC-308191N), 12 Apr 2005#

Hav (GD) A James William Peter (No. 1376801K now JC-308208W), 01 May 2005&

Hav (GD) B Saravanan (No. 1374945N now JC-308215M), 02 May 2005&

%(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

#(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

&(Granted Seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

ROSY SHARMA  
Dy. Secy

No. 415, the 22nd Jul 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Jai Baksh Singh (JC-220116F), 01 Jun 2004

Sub Inderjit Singh (JC-210892N), 07 Jun 2004

Sub Chalke Ankush Ganpat (JC-199211X), 06 Aug 2004

Sub Gawate Bhausahab Dashrath (JC-188447M), 01 Oct 2004

Sub Mahender Singh (JC-412066W), 23 Dec 2004

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Indreswar Baruah (JC-412511K), 01 Jan 2005

11 GR

To be Subedar Major

Sub Man Dhoj Rai (JC-222821Y), 01 Jan 2005

Sub/Clk Dhan Bir Singh Rawat (JC-634002P), 11 Feb 2005

Sub Biraj Kumar Subba (JC-213021Y), 01 Mar 2005

Sub Man Prasad Rai (JC-222822F), 01 Apr 2005

To be Subedar

Nb Sub Jang Bahadur Tamang (JC-634375F), 12 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Jan 2005)

Nb Sub Chandra Bahadur Rai (JC-634334Y), 01 Feb 2005

Nb Sub Dhanu Karna Subba (JC-634356X), 01 Feb 2005

Nb Sub/Musn Parshu Ram Rai (JC-634390X), 04 Apr 2005

- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Tek Dhan Limbu (JC-634412L), 01 Feb 2005
- Nb Sub Dal Bahadur Tamang (JC-634426L), 07 Feb 2005
- Nb Sub Naresh Kumar Rai (JC-634427L), 21 Feb 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Jas Bahadur Rai (JC-634407A), 01 Feb 2005
- Nb Sub Mangal Rai (JC-634410A), 09 Feb 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Dhan Bahadur Tamang (JC-634411H), 01 Feb 2005
- Nb Sub Nima Lama (JC-634413N), 01 Feb 2005
- Nb Sub Mahender Singh Pradhan (JC-634403K), 01 Feb 2005
- Nb Sub Pravin Rai (JC-634428W), 01 Feb 2005
- Nb Sub Tank Kumar Tamang (JC-634434K), 01 Feb 2005
- Nb Sub Karna Bahadur Rai (JC-634429Y), 01 Feb 2005
- Nb Sub Karna Bahadur Tamang (JC-634430N), 01 Feb 2005
- Nb Sub Akkal Bahadur Rai (JC-634421M), 10 Feb 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Bishnu Raj Rai (JC-634425H), 01 Feb 2005
- Nb Sub Milan Subba (JC-634439H), 01 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Shuvo Kumar Rai (JC-634437X), 01 Feb 2005
- Nb Sub Mishra Bahadur Loxom (JC-634438A), 01 Feb 2005
- Nb Sub Sahar Man Limbu (JC-634441A), 01 Feb 2005
- Nb Sub Jayant Kumar Rai (JC-634448K), 01 Feb 2005
- Nb Sub Ram Prasad Menyambo (JC-634449M), 01 Feb 2005
- Nb Sub Bham Bahadur Rai (JC-634505A), 01 Feb 2005
- Nb Sub Shanmsher Bahadur Limbu (JC-634495F), 01 Feb 2005
- Nb Sub Nirgam Chandra Rai (JC-634458N), 01 Feb 2005
- Nb Sub Raj Kumar Limbu (JC-634459W), 01 Feb 2005
- Nb Sub Shyam Prakash Rai (JC-634518X), 01 Feb 2005
- Nb Sub Dharma Raj Lama (JC-634461N), 01 Feb 2005
- Nb Sub Harka Raj Rai (JC-634462W), 01 Feb 2005
- Nb Sub Aita Singh Rai (JC-634466M), 11 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Prahlad Rai (JC-634467P), 12 Feb 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Kalyan Tamang (JC-634496K), 01 Feb 2005
- Nb Sub Krishna Kumar Rai (JC-634472A), 01 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Dev Jang Tamang (JC-634480Y), 09 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Em Prasad Subba (JC-634478F), 01 Feb 2005
- Nb Sub Punam Tamang (JC-634481F), 01 Feb 2005
- Nb Sub Anoop Kumar Syangbo (JC-634485X), 01 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub Dilip Kumar Rai (JC-634508N), 12 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub/Clk Narayan Keshav (JC-634253Y), 26 Feb 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub/Clk Yogender (JC-634272K), 01 Mar 2005
- Nb Sub Hari Ram Pandit Chhetri (JC-634487H), 31 Mar 2005
- (Gtd seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2005)
- Nb Sub/Clk Shakti Singh (JC-634350W), 01 Apr 2005

9 GR

To be Naib Subedar

Hav Bharat Kaji KC (No. 5845567Y now JC-629693H), 01 Jan 2005

Hav Hari Bahadur Khatri (No. 5845525M now JC-629694L), 07 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Hav Prem Kumar Chhetri (No. 5845357Y now JC-629683Y), 05 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Hav Bhuwan Singh Chhetri (No. 5845696Y now JC-629684F), 05 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Hav Prem Bahadur Thapa (No. 5845424W now JC-629685K), 17 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Sher Bahadur Karki (No. 5845465H now JC-629686M), 07 Dec 2004/11 Nov 2004\*

Hav Tilak Ram Roka Chhetri (No. 5845779K now JC-629687F); 04 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Hav Laxman Thapa (No. 5845826W now JC-629688X), 03 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Hav Dan Bahadur Karki (No. 5845751K now JC-629689A), 11 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Hav Bel Bahadur Chhetri (No. 5845528A now JC-629690P), 07 Jan 2005/01 Dec 2004\*

Hav Narayan Bahadur Thapa (No. 5845454W now JC-629691X), 11 Dec 2004/01 Dec 2004\*

Hav Lok Bahadur Khatri (No. 5845782K now JC-629692A), 11 Dec 2004/02 Dec 2004\*

Hav Prem Bahadur Sahi (No. 5845400P now JC-629677L), 21 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Padam Singh Chhetri (No. 5845387W now JC-629678N), 03 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Ram Bahadur Sen (No. 5845358F now JC-629679W), 03 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Jhalak Bahadur Chhetri (No. 5845487F now JC-629680L), 03 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Arjun Bahadur Khadka (No. 5845804X now JC-629681N), 14 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Hav Ramji Shankhi Chhetree (No. 5845446X now JC-629682W), 17 Nov 2004/01 Nov 2004

Hav Bhim Bahadur Chhetri (No. 5846720W now JC-629671K), 26 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Govinda Bahadur Mall (No. 5845331K now JC-629672M), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Lok Bahadur Thapa (No. 5845329M now JC-629673H), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Shworgendra Bahadur Khatry (No. 5845343Y now JC-629674X), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Chitra Bahadur Chhetri (No. 5845873N now JC-629675A), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Besh Bahadur Karki Chhetri (No. 5845389F now JC-629676H), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority without effect on pay and allowances.)

Hav Prem Raj Adhikari (No. 5845749M now JC-629652Y), 12 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Hav Kul Bahadur Bhandari (No. 5846076P now JC-629653F), 01 Apr 2004

Hav Tej Narayan Tiwari (No. 5846338A now JC-629654K), 01 Apr 2004

Hav Ashil Kumar Shahi (No. 5846624F now JC-629655M), 01 Apr 2004

Hav/Clk Daroga Sah (No. 5846294N now JC-629656P), 07 May 2004/01 May 2004\*

Hav Chitra Bahadur Thapa (No. 5845340L now JC-629657X), 26 Jun 2004/24 Apr 2004\*

Hav Mohan Bahadur Sahi, SM (No. 5845771X now JC-629664N), 08 Jun 2004/01 Jun 2004\*

Hav/Clk Partap Singh (No. 5846265Y now JC-629666Y), 01 Sep 2004/01 Jul 2003\*

Hav Rudra Bahadur Chhetry (No. 5845746K now JC-629667F), 01 Oct 2004/01 Apr 2004\*

Hav Amrit Bahadur Malla (No. 5845651Y now JC-629668K), 01 Jul 2004

Hav Bala Krishna KC (No. 5845378P now JC-629669M), 01 Aug 2004

Hav Bom Bahadur Panta Chhetri (No. 5845801F now JC-629670F), 01 Sep 2004

Hav Prem Bahadur Basnet (No. 5845284X now JC-629658A), 26 Jul 2004/30 Apr 2004\*

Hav Ram Bahadur Chhetri (No. 5845388Y now JC-629659H), 26 Jul 2004/30 Apr 2004\*

Hav Om Bahadur Adhikari (No. 5845420H now JC-629660X), 26 Jul 2004/30 Apr 2004\*

Hav Gopal Singh Thapa (No. 5845292W now JC-629661A), 01 May 2004

Hav Pirth Bahadur Thapa (No. 5845383A now JC-629662H), 01 May 2004

Hav Dhan Bahadur Khadka (No. 5845500A now JC-629663L), 26 Jul 2004/01 May 2004\*

Hav Lok Bahadur Mall (No. 5845018Y now JC-629646L), 13 Apr 2004/01 Nov 2004\*

Hav Rudra Bahadur Thapa (No. 5845198M now JC-629647N), 28 Mar 2004/01 Feb 2004\*

Hav Dal Bahadur Sen (No. 5845239L now JC-629648W), 28 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Hav Prem Chandra K C (No. 5845515H now JC-629649Y), 28 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Hav Prem Bahadur Bharti Chhetri (No. 5845831F now JC-629650N), 10 Mar 2004/01 Mar 2004\*

Hav Bhim Bahadur Khadka (No. 5846100A now JC-629651W), 10 Mar 2004/01 Mar 2004\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances.)

3 GR

To be Naib Subedar

- Hav Nem Bahadur Gurung (No. 5244879L now JC-607596L), 09 Feb 2005/01 Nov 2004\*
- Hav Sher Bahadur Thapa (No. 5245055P now JC-607597N), 09 Feb 2005/19 Nov 2004\*
- Hav Kaji Raj Thapa (No. 5245482W now JC-607598W), 03 Feb 2005/01 Dec 2004\*
- Hav Krishna Prasad Gurung (No. 5244648P now JC-607599Y), 20 Feb 2005/01 Jan 2005\*
- Hav Hem Bahadur Rana (No. 5245146Y now JC-60759IM), 05 Dec 2004/01 Dec 2004\*
- Hav Aita Man Gurung (No. 5245199X now JC-607592P), 07 Jan 2005/01 Dec 2004\*
- Hav Bishnu Bahadur Thapa (No. 5245501L now JC-607593X), 05 Dec 2004/01 Dec 2004\*
- Hav Dud Man Gurung (No. 5245470W now JC-607594A), 24 Jan 2005/01 Dec 2004\*
- Hav Durga Bahadur Rana (No. 5245034Y now JC-607595H), 21 Feb 2005/01 Nov 2004\*
- Hav Bhim Bahadur Magar (No. 5245068M now JC-607586F), 01 Dec 2004/01 Nov 2004\*
- Hav Shuk Bahadur Rana (No. 5244642N now JC-607587K), 20 Jan 2005/01 Jan 2005\*
- Hav Ananta Bahadur Thapa (No. 5245136P now JC-607588M), 05 Dec 2004/01 Nov 2004\*
- Hav Kul Bahadur Rana (No. 5245465L now JC-607589P), 22 Nov 2004/01 Nov 2004\*
- Hav Top Bahadur Thapa (No. 5245454X now JC-607590K), 28 Jan 2005/01 Nov 2004\*
- Hav Dev Bahadur Thapa (No. 5245282P now JC-607581H), 08 Nov 2004/12 Oct 2004\*
- Hav Khim Bahadur Thapa (No. 5245336L now JC-607582L), 08 Nov 2004/12 Oct 2004\*
- Hav Clk Nagendra Yadav (No. 5245123K now JC-607583N), 08 Nov 2004/01 Nov 2004\*
- Hav Ganga Bahadur Thapa (No. 5244898W now JC-607584W), 23 Nov 2004/01 Oct 2004\*
- Hav Pam Bahadur Gurung (No. 5245169A now JC-607585Y), 27 Nov 2004/01 Nov 2004\*
- Hav Shree Bahadur Rana (No. 5245121M now JC-607576X), 01 Oct 2004
- Hav Purna Bahadur Gurung (No. 5245119P now JC-607577A), 01 Oct 2004
- Hav Dal Kumar Thapa (No. 5245128W now JC-607578H), 01 Oct 2004
- Hav Naresh Thapa (No. 5245768A now JC-607579L), 01 Oct 2004
- Hav Bir Bahadur Sahi (No. 5244861P now JC-607580A), 31 Oct 2004/01 Oct 2004\*
- Hav Dila Ram Shrestha (No. 5244662F now JC-607571Y), 01 Oct 2004
- Hav Kem Bahadur Gurung (No. 5244815A now JC-607572F), 01 Oct 2004
- Hav Prem Bahadur Thapa (No. 5244690N now JC-607573K), 01 Oct 2004
- Hav Ishor Prasad Gurung (No. 5245073X now JC-607574M), 01 Oct 2004
- Hav Him Bahadur Gurung (No. 5245104M now JC-607575P), 01 Oct 2004
- Hav Man Bahadur Gurung (No. 5244646K now JC-607566N), 01 Oct 2004
- Hav Tej Raj Gurung (No. 5244640H now JC-607567W), 01 Oct 2004
- Hav Kul Bahadur Sing Rana (No. 5244633M now JC-607568Y), 01 Oct 2004
- Hav Narayan Bahadur Gurung (No. 5244793M now JC-607569F), 01 Oct 2004
- Hav Guman Singh Thapa (No. 5244377H now JC-607570W), 01 Oct 2004
- Hav Bishnu Prasad Tiwari (No. 5245463A now JC-607561P), 01 Aug 2004
- Hav Nar Bahadur Gurung (No. 5244585X now JC-607562X), 08 Nov 2004/01 Aug 2004
- Hav Nar Bahadur Thapa (No. 5244656N now JC-607563A), 08 Nov 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Khem Bahadur KC (No. 5245464H now JC-607564H), 01 Oct 2004/01 Aug 2004\*
- Hav Sher Bahadur Thapa (No. 5244625N now JC-607565L), 01 Oct 2004
- Hav Om Nath Rana (No. 5244615K now JC-607555F), 01 Jul 2004
- Hav Nand Bahadur Pun (No. 5245030H now JC-607556K), 01 Jul 2004
- Hav Bir Bahadur Pun (No. 5244527N now JC-607557M), 27 Aug 2004/01 Jul 2004\*
- Hav Faram Bahadur Pun (No. 5244571X now JC-607558P), 27 Aug 2004/01 Jul 2004\*
- Hav Anup Kumar Rana (No. 5245084K now JC-607559X), 01 Aug 2004
- Hav Raj Bahadur Gurung (No. 5245098K now JC-607560M), 01 Aug 2004
- Hav Sher Bahadur Tamang (No. 5244533F now JC-607549M), 01 May 2004

Hav Indra Bahadur Gurung (No. 5244579K now JC-607550H), 01 Jun 2004

Hav Man Bahadur Thapa (No. 5244621X now JC-607551L), 03 Jun 2004/01 Jun 2004\*

Hav Bhel Bahadur Thapa (No. 5245427P now JC-607552N), 15 Jul 2004/01 Jun 2004\*

Hav Bed Bandhu Regmi (No. 5245438F now JC-607553W), 15 Jul 2004/15 Jun 2004\*

Hav Raju Thapa (No. 5244590H now JC-607554Y), 01 Jul 2004

Hav Sanjay Kumar (No. 5245399N now JC-607543L), 03 May 2004/01 Feb 2004\*

Hav Lekh Nath Tiwari (No. 5245466N now JC-607544N), 26 Apr 2004/01 Mar 2004\*

Hav Vijay Bahadur Thapa (No. 5244380H now JC-607545W), 06 May 2004/30 Mar 2004\*

Hav Sher Bahadur Gurung (No. 5244557L now JC-607546Y), 06 May 2004/30 Mar 2004\*

Hav Ram Bahadur Magar (No. 5244452F now JC-607547F), 06 May 2004/01 Apr 2004\*

Hav Ghan Bahadur Pun (No. 5244500W now JC-607548K), 14 Apr 2004/01 Apr 2004\*

\*(Granted seniority without effect on pay and allowances.)

#### THE BIHAR REGIMENT

##### To be Sub Maj GD/Clk

Sub Amrendra Kumar Lakra (JC-205243Y), 18 May 2004/01 Mar 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2004 without effect on pay and allowances.)

Sub Dhir Bahadur Singh, Sena Medal (JC-558378A), 01 Oct 2004

Sub/Clk Ramadhar Prasad (JC-558117M), 05 Dec 2004/01 Apr 2003 (Notional Seniority)\*

\*(Granted Notional seniority in the rank of Sub Maj (Clk) wef 01 Apr 2003 without effect on pay and allowances.)

Sub Magu Bading, Sena Medal (JC-558461X), 02 Jan 2005/01 Nov 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Sub Paulus Kujur (JC-224572K), 01 Mar 2005

Sub Ramesh Chandra Yadav (JC-558540M), 01 Mar 2005

Sub Umesh Kunwar (JC-558424K), 23 Mar 2005/01 Nov 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

##### To be Sub (GD/Clk)

Nb Sub Sudhir Sharma (JC-558847X), 01 Aug 2004

Nb Sub/Clk Upendra Nath Barik (JC-558789Y), 11 Sep 2004/01 Jul 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub/Clk Bibeka Nanda Das (JC-558799H), 01 Dec 2004/01 Nov 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub/Clk wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Pradeep Kumar Kujur (JC-558877P), 11 Dec 2004/01 Nov 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Ram Narayan Singh (JC-558983N), 15 Dec 2004/15 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 15 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Ram Dular Ram (JC-558874F), 03 Jan 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Joseph Kachhwa (JC-559032H), 12 Jan 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Hari Ram Sah (JC-559120Y), 18 Jan 2005/01 Sep 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Sonika Hembrom (JC-558863P), 01 Mar 2005/01 Dec 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Sunil Minz, Sena Medal (JC-558879A), 01 Mar 2005/01 Feb 2005 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Bimal Nag (JC-559074P), 14 Mar 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Amar Nath Pandey (JC-558895X), 15 Mar 2005/01 Aug 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Nb Sub Binda Sah (JC-558897H), 15 Mar 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)



Nb Sub Nand Kumar Singh (JC-559080H), 21 Apr 2005/  
04 Mar 2005 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 04 Mar 2005  
without effect on pay and allowances.)

#### THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major

Sub Avtar Singh (JC-224420H), 09 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub Maj wef  
01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

To be Subedars

Nb Sub Joginder Singh (JC-499017F), 27 Mar 2005

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Dec  
2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-499319N), 15 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kulwinder Singh (JC-499328P), 15 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sarabjit Singh (JC-499348H), 15 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kirpal Singh (JC-499135P), 04 Apr 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhminder Singh (JC-499155H), 20 Jan 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 04  
Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dalwinder Singh (JC-499127W), 24 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gulzar Singh (JC-499170X), 20 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 19  
Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lakhbir Singh (JC-499198X), 24 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-499199A), 24 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Jagraj Singh (JC-499204A), 20 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gurmit Singh, SC (JC-499264P), 05 Apr 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 01  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rashpal Singh, SM (JC-498984A), 24 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 02  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sarbjit Singh (JC-499146F), 19 Mar 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 08  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sucha Singh (JC-498995W), 11 Apr 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub wef 11  
Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Balbir Singh (JC-499118P), 01 Mar 2005

Nb Sub Raghbir Singh (JC-499291Y), 01 Apr 2005

Nb Sub Satnam Singh (JC-499292F), 01 Apr 2005

To be Substantive Subedars Clerk

Nb Sub Clk Charan Singh (JC-498815H), 17 Jan 2005

(Granted ante date of seniority in the rank of Sub Clk wef  
01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Clk Avtar Singh (JC-498958H), 01 Apr 2005

#### THE GRENADIERS

To be Subedar

Nb Sub Shiv Pal Ram (JC-449259N), 01 Mar 2004

Nb Sub Raj Narayan Singh (JC-448831K), 01 Mar 2004

Nb Sub Tafsir Khan (JC-449006Y), 01 Mar 2004

Nb Sub Kailash Chand (JC-449089P), 01 Mar 2004

Nb Sub Dindayal Singh (JC-449245N), 01 Mar 2004

Nb Sub Prakash Chand (JC-449283K), 01 Mar 2004

Nb Sub Brij Lal (JC-449101L), 01 Mar 2004

Nb Sub Jaidev Singh (JC-449109X), 01 Mar 2004

Nb Sub Man Singh (JC-449320M), 01 Mar 2004

Nb Sub Suresh Singh (JC-449312N), 01 Mar 2004

Nb Sub Mahabir Singh (JC-449082L), 01 Mar 2004

Nb Sub Jagbir Singh Ruhil (JC-449083N), 01 Mar 2004

Nb Sub Satyabir Singh (JC-449128H), 01 Mar 2004

Nb Sub Jagat Singh (JC-449129L), 01 Mar 2004

Nb Sub Daya Ram Singh (JC-449125P), 01 Mar 2004



- Nb Sub Arjun Ram (JC-449188X), 01 Mar 2004
- Nb Sub Ramesh Kumar (JC-449189A), 01 Mar 2004
- Nb Sub Sujan Singh (JC-449208A), 01 Mar 2004
- Nb Sub Bhim Singh Gujar (JC-449249K), 01 Mar 2004
- Nb Sub Ram Dayal Gujar (JC-449252K), 01 Mar 2004
- Nb Sub Raghubir Singh Jat (JC-449255X), 01 Mar 2004
- Nb Sub Bhumi Dev (JC-449281Y), 01 Mar 2004
- Nb Sub Jagdish Singh (JC-449282F), 01 Mar 2004
- Nb Sub Pandor Chandu Bhai Jema Bhai (JC-449316K), 01 Mar 2004
- Nb Sub Samde Khan (JC-449287A), 01 Mar 2004
- Nb Sub Sadan Singh Tomar (JC-449298M), 01 Mar 2004
- Nb Sub Gyanendra Singh (JC-449317M), 01 Mar 2004
- Nb Sub Man Singh (JC-449320M), 01 Mar 2004
- Nb Sub Rakesh Singh (JC-449371A), 01 Mar 2004
- Nb Sub Jagbir Singh (JC-449325L), 01 Mar 2004
- Nb Sub Raj Singh Gour (JC-449333K), 01 Mar 2004
- Nb Sub Rajendra Pratap Singh (JC-449377F), 01 Mar 2004
- Nb Sub Ajit Singh (JC-449348M), 01 Mar 2004
- Nb Sub Sita Ram (JC-449430F), 01 Mar 2004
- Nb Sub Bharat Singh (JC-449505N), 01 Mar 2004
- Nb Sub Ram Bhagat (JC-449180L), 11 Mar 2004
- Nb Sub Manwar Khan (JC-449106K), 21 Mar 2004
- Nb Sub Vidhyadhar Jakhar (JC-448824N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Gordhan Singh Rajput (JC-448857Y), 01 Apr 2004
- Nb Sub Visheshwar Lal (JC-449012M), 01 Apr 2004
- Nb Sub Babu Lal (JC-449013P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Ajmer Singh (JC-449028X), 01 Apr 2004
- Nb Sub Ramesh Singh (JC-449046A), 01 Apr 2004
- Nb Sub Vijay Singh (JC-449068Y), 01 Apr 2004
- Nb Sub Gaje Singh (JC-449363F), 01 Apr 2004
- Nb Sub Raj Bahadur Singh Sengar (JC-449302K), 01 Apr 2004
- Nb Sub Ram Vakil Singh (JC-449111P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Amar Singh Dayal (JC-449095H), 01 Apr 2004
- Nb Sub Darshan Kumar (JC-449161A), 01 Apr 2004
- Nb Sub Karnail Singh (JC-449158A), 01 Apr 2004
- Nb Sub Yad Ram Singh (JC-449164N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Mohan Lal (JC-449179W), 01 Apr 2004
- Nb Sub Rajender Prasad Meena (JC-449173P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Sultan Singh Rathore (JC-449200N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Mangi Lal (JC-449431K), 01 Apr 2004
- Nb Sub Sohan Singh (JC-449226H), 01 Apr 2004
- Nb Sub Dhana Ram Chowdhary (JC-449352P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Umed Singh (JC-449234F), 01 Apr 2004
- Nb Sub Bajrang Lal (JC-449258L), 01 Apr 2004
- Nb Sub Dharam Pal Singh (JC-449354A), 01 Apr 2004
- Nb Sub Ramesh Chander (JC-449293N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Raj Kumar (JC-449318P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Raj Pal Singh (JC-449309N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Brij Mohan Singh (JC-449310P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Jaswant Singh (JC-449321P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Ghanshyam Singh (JC-449367X), 01 Apr 2004
- Nb Sub Shatrughna Singh (JC-449364K), 01 Apr 2004
- Nb Sub Harjiwan Singh Yadav (JC-449326N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Sat Pal Singh (JC-449341H), 01 Apr 2004
- Nb Sub Gumai Singh (JC-449343N), 01 Apr 2004
- Nb Sub Pryag Singh Bhati (JC-449380F), 01 Apr 2004
- Nb Sub Yash Pal Singh (JC-449381K), 01 Apr 2004
- Nb Sub Shamsher Singh (JC-449369H), 01 Apr 2004
- Nb Sub Jai Karan Singh (JC-449387L), 01 Apr 2004
- Nb Sub Puran Singh (JC-449425W), 01 Apr 2004
- Nb Sub Jeet Ram (JC-449446M), 01 Apr 2004
- Nb Sub Ramesh Chand (JC-449464P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Harish Kumar (JC-449559P), 01 Apr 2004
- Nb Sub Rameshwar (JC-449465X), 07 Apr 2004
- Nb Sub Jaiveer Singh (JC-449451X), 06 May 2004
- Nb Sub Jare Singh (JC-449347K), 07 May 2004
- Nb Sub Shyambir Singh Tomar (JC-449418A), 09 May 2004
- Nb Sub Bhoore Singh Bhadoria (JC-449440L), 19 May 2004
- Nb Sub Mahipal Singh (JC-449344W), 30 May 2004
- Nb Sub Mahendra Singh (JC-448974K), 01 Jun 2004
- Nb Sub Prakash Chand (JC-448963X), 01 Jun 2004
- Nb Sub Jagdish Lal (JC-449239A), 01 Jun 2004
- Nb Sub Kailash Chand Meena (JC-449349M), 08 Jun 2004

Nb Sub Ganesh Dutt (JC-449480M), 22 Jun 2004	Nb Sub Mohan Lal (JC-449384X), 01 Oct 2004
Nb Sub Shish Ram Gujar (JC-449489F), 22 Jun 2004	Nb Sub Siya Ram (JC-449427F), 01 Oct 2004
Nb Sub Nahar Singh Moond (JC-449552L), 22 Jun 2004	Nb Sub Rohtash Singh (JC-449514P), 01 Oct 2004
Nb Sub Hawa Singh (JC-449579H), 22 Jun 2004	Nb Sub Roshan (JC-449549L), 01 Oct 2004
Nb Sub Dharambir (JC-449601H), 22 Jun 2004	Nb Sub Jeewan Khan (JC-449598N), 01 Oct 2004
Nb Sub Rajbir Singh (JC-449644X), 22 Jun 2004	To be Nb Sub
Nb Sub Surinder Singh (JC-449278Y), 28 Jun 2004	Hav Vala Praful Kumar Bhagvat Singh (No. 2682120M now JC-449882K), 10 Jul 2004
Nb Sub Jeet Ram (JC-449153F), 01 Jul 2004	Hav Ved Parkash (No. 2675519F now JC-449883M), 1 Oct 2004
Nb Sub Dharambir (JC-448985W), 11 Jul 2004	(Granted seniority in the rank of Sub wef 11 Jul 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Baljit Singh (JC-449092P), 23 Jul 2004	Hav Chauhan Kamlesh Bhai Govind Bhai (No. 2682879A now JC-449884P), 8 Nov 2004
Nb Sub Mangtu Ram (JC-449313W), 01 Aug 2004	(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Ajit Singh (JC-449397P), 01 Aug 2004	Hav Ram Hari (No. 2679494X now JC-449885X), 12 Sep 2004
Nb Sub Phool Mohammed (JC-449403X), 01 Aug 2004	Hav Randhir Singh (No. 2676305X now JC-449886A), 17 Nov 2004
Nb Sub Balram (JC-449331Y), 02 Aug 2004	(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Mustak Ali Khan (JC-448563L), 01 Sep 2004	Hav Nirmal Kumar (No. 2677691F now JC-449887H), 1 Nov 2004
Nb Sub Lal Khan (JC-449131H), 01 Sep 2004	Hav Satyabir (No. 2676727H now JC-449888L), 1 Nov 2004
Nb Sub Nanda Ram Jat (JC-449353X), 01 Sep 2004	Hav Ved Singh (No. 2677965F now JC-449889N), 6 Nov 2004
Nb Sub Patel Bhupendra Kumar Kashiram (JC-449379M), 01 Sep 2004	Hav Harkesh Singh Gujar (No. 2687388N now JC-449890H), 20 Nov 2004
Nb Sub Amar Singh Shekhawat (JC-449417X), 01 Sep 2004	Hav Vijender (No. 2679234M now JC-449891L), 15 Dec 2004
Nb Sub Patel Singh (JC-449437L), 01 Sep 2004	(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Nov 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Lila Ram Khatana (JC-449609P), 01 Sep 2004	Hav Nanak Singh Meena (No. 2679694N now JC-449892N), 20 Nov 2004
Nb Sub Ashok Kumar (JC-449250Y), 12 Sep 2004	Hav Ram Lakhan Singh (No. 2676514P now JC-449893W), 25 Jan 2005
Nb Sub Balbir Singh (JC-449439W), 29 Sep 2004	(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Nov 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Gagan Singh (JC-448893K), 01 Oct 2004	Hav Tej Pal Singh (No. 2676136F now JC-449894Y), 20 Nov 2004
Nb Sub Tirath Ram (JC-448894M), 01 Oct 2004	Hav Premvir Singh (No. 2680294N now JC-449895F), 1 Dec 2004
Nb Sub Dharamvir Singh (JC-449056K), 01 Oct 2004	Hav Ashok Angrala (No. 2677067H now JC-449896K), 1 Dec 2004
Nb Sub Jit Chand (JC-449159H), 01 Oct 2004	
Nb Sub Madan Lal (JC-449168K), 01 Oct 2004	
Nb Sub Chhagan Lal Meena (JC-449241X), 01 Oct 2004	
Nb Sub Raj Kumar (JC-449199K), 01 Oct 2004	
Nb Sub Daya Ram (JC-449269X), 01 Oct 2004	
Nb Sub Irsad Ali (JC-449210X), 01 Oct 2004	
Nb Sub Yogesh Meena (JC-449262N), 01 Oct 2004	
Nb Sub Man Singh (JC-449286X), 01 Oct 2004	
Nb Sub Satya Pal (JC-449288H), 01 Oct 2004	
Nb Sub Hari Singh (JC-449375W), 01 Oct 2004	
Nb Sub Bajrang Singh (JC-449342L), 01 Oct 2004	

Hav Ayub Khan (No. 2675805H now JC-449897M), 9 Dec 2004

Hav Sher Singh (No. 2677774M now JC-449898P), 19 Dec 2004

Hav Ashok Kumar (No. 2673737F now JC-449899X), 19 Dec 2004

Hav Gul Faham (No. 2675733K now JC-449900F), 1 Jan 2005

Hav Usman Ali (No. 2676212H now JC-449901K), 1 Jan 2005

Hav Rusmat Ali (No. 2675657H now JC-449902M), 1 Jan 2005

Hav Daleep Singh (No. 2677696A now JC-449903P), 1 Jan 2005

Hav Karni Ram (No. 2675449N now JC-449904X), 1 Jan 2005

Hav Mast Ram (No. 2682099P now JC-449905A), 1 Jan 2005

Hav Babu Lal (No. 2676526K now JC-449906H), 1 Jan 2005

Hav Darshan Lal (No. 2674924M now JC-449907L), 1 Jan 2005

Hav Dharmendra Singh (No. 2680133L now JC-449908N), 1 Jan 2005

#### The Dogra Regiment

##### To be Sub Maj

Sub Kishori Lal (JC-518552Y), 7th Mar 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Jan 2005 without effect on pay & allowances)

Sub Ramji Dass (JC-518746F), 25 Feb 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 1 Feb 2005 without effect on pay & allowances)

##### To be Sub

Nb Sub Shashi Paul (JC-519091M), 31 May 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 25 Apr 2004 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Ramesh Chand Chandel (JC-519197Y), 25 Apr 2004

Nb Sub Bakshi Ram (JC-519255X), 20 Jul 2004

Nb Sub Dharam Singh (JC-519256A), 1 Aug 2004

Nb Sub Parlihad Singh (JC-519362Y), 14 Dec 2004+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 1 Sep 2004 without effect on pay & allowances)

Nb Sub Raghu Nath (JC-519325L), 1 Oct 2004

Nb Sub Hans Raj (JC-519326N), 1 Oct 2004

Nb Sub Ashok Kumar (JC-519580X), 1 Oct 2004

Nb Sub Bal Ram (JC-519582H), 1 Oct 2004

Nb Sub Kamal Singh (JC-519432M), 1 Nov 2004

Nb Sub Davinder Singh (JC-519583L), 1 Nov 2004

Nb Sub Ram Krishan (JC-519627X), 28 Nov 2004

Nb Sub Krishan Lal (JC-519606F), 1 Dec 2004

Nb Sub Sohan Lal (JC-519621W), 1 Dec 2004

Nb Sub Joginder Singh (JC-519622Y), 1 Dec 2004

Nb Sub Ruldu Ram (JC-519642M), 1 Jan 2005

Nb Sub Ajmer Singh (JC-519670Y), 1 Jan 2005

Nb Sub Roshan Lal (JC-519695L), 1 Feb 2005

Nb Sub Tarsem Singh (JC-519730H), 1 Feb 2005

##### To be Sub/Clk

Nb Sub/Clk Sukhdev Sharma (JC-519200N), 1 Oct 2004

Nb Sub/Clk Virender Kumar Pathania (JC-519257H) 1 Jan 2005

#### JAK RIF

##### To be Substantive Sub Maj (GD)

Sub Kuldip Singh (JC-578569W) JAK Rif 01 Jan 2005

Sub Waryam Chand (JC-578763L) JAK Rif 01 Mar 2005

Sub Vidya Dhar (JC-578689P) JAK Rif 01 Apr 2005

##### To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Kishore Singh (JC-579475L) JAK Rif 01 Aug 2004

Nb Sub Shankar Dass (JC-579542L) JAK Rif 01 Aug 2004

Nb Sub Sushil Kumar Singh (JC-579552P) JAK Rif 01 Aug 2004

Nb Sub Om Raj (JC-579553X) JAK Rif 01 Aug 2004

Nb Sub Mangla Prasad (JC-579585A) JAK Rif 01 Aug 2004

Nb Sub Mohinder Singh (JC-579595K) JAK Rif 01 Aug 2004

Nb Sub Dhanattar Singh (JC-579237Y) JAK Rif 01 Sep 2004

Nb Sub Harjit Singh, SM (JC-579538H) JAK Rif 01 Sep. 2004

Nb Sub Padamdev Singh (JC-579569H) JAK Rif 01 Sep 2004

Nb Sub Niranjana Dass Thakur (JC-579601M) JAK Rif 01 Sep 2004

Nb Sub Ram Singh (JC-579469P) JAK Rif 01 Oct 2004	Sub Balkrishna Rajaram Bhosle (JC-203660M), 17 Jan 2005*
Nb Sub Jasbeer Singh (JC-579549P) JAK Rif 01 Oct 2004	*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Ramesh Singh (JC-579570X) JAK Rif 01 Oct 2004	Sub Patil Sudhakar Maruti (JC-218447K), 27 Jan 2005*
Nb Sub Prem Chand Bhat (JC-579626Y) JAK Rif 01 Oct 2004	*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Harash Singh Khatri (JC-579557M) JAK Rif 01 Nov 2004	To be Sub
Nb Sub Balak Singh (JC-579573L) JAK Rif 01 Nov 2004	Nb Sub Bhosale Chandrakant Dhondiram (JC-459117K), 17 Jun 2004*
Nb Sub Nar Singh (JC-579231X) JAK Rif 01 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Ram Bahadur Khatri (JC-579418K) JAK Rif 01 Dec 2004	Nb Sub Samsul Haque Ali (JC-458921Y), 01 Jan 2005*
Nb Sub Chaman Lal (JC-579566P) JAK Rif 01 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Lakhvir Singh (JC-579598X) JAK Rif 01 Dec 2004	Nb Sub Krushna Gangaram Mahadik (JC-458991X), 01 Oct 2004*
Nb Sub Jaswant Singh (JC-579628K) JAK Rif 01 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 19 Aug 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Dhurba Chhetri (JC-579534M) JAK Rif 14 Dec 2004	Nb Sub Dharme Chandrakant Govind (JC-459049F), 05 Oct 2004*
Nb Sub Ram Singh (JC-579647P) JAK Rif 19 Dec 2004	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Dhan Bahadur Gurung (JC-579277A) JAK Rif 01 Jan 2005	Nb Sub Adkurkar Nivrutti Krishna (JC-458858P), 27 Dec 2004*
Nb Sub Man Bahadur Gurung (JC-579460A) JAK Rif 01 Jan 2005	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Gagan Singh (JC-579496F) JAK Rif 01 Jan 2005	Nb Sub Kanta Ramkushna Sawant (JC-458919F), 03 Dec 2004*
Nb Sub Vikram Dev Singh (JC-579563F) JAK Rif 01 Jan 2005	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Maninder Singh Nikhal (JC-579571A) JAK Rif 01 Jan 2005	Nb Sub Patil Subarao Aba (JC-459018F), 04 Dec 2004*
Nb Sub Bakhshish Singh (JC-579634X) JAK Rif 01 Jan 2005	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Devinder Singh (JC-579644F) JAK Rif 01 Jan 2005	Nb Sub Patil Shahu Kallappa (JC-459063N), 03 Jan 2005*
Nb Sub Harbans Singh (JC-579820N) JAK Rif 01 Jan 2005	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Jaswant Singh (JC-579497K) JAK Rif 01 Feb 2005	Nb Sub Chavan Vishvanath Sakharam (JC-459083F), 01 Dec 2004*
Nb Sub Sunil Kumar (JC-579632M) JAK Rif 01 Feb 2005	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Bhola Ram (JC-579640L) JAK Rif 01 Feb 2005	Nb Sub Jayant Bhavaku Kowadkar (JC-458962H), 24 Dec 2004*
Nb Sub Baldev Dass Sharma (JC-579701X) JAK Rif 01 Feb 2005	*(Granted seniority in the rank of Sub wef 18 Oct 2004 without effect on pay and allowances)
Nb Sub Ranjit Singh (JC-579657Y) JAK Rif 01 Mar 2005	
The Maratha LI	
To be Sub Maj	
Sub Lakhe Ashruba Baburao (JC-204263A), 25 Jan 2005*	
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)	

Nb Sub Yadav Ravindranath Sadashiv (JC-459103K), 11 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Daddikar Sanjay Chandrakant (JC-458923K), 01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Walekar Parakash Ramchandra (JC-459009A), 01 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub More Yuvaraj Khandu (JC-459088A), 01 Dec 2004

To be Sub Clk

Nb Sub Clk D Balaji (JC-458818N), 27 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Clk Sutar Ajit Vasant (JC-458837Y), 07 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Clk Abdhesh Singh (JC-458854Y), 01 Jan 2005

To be Sub Maj

Sub Sadashiv Kamate (JC-212543H), 07 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

To be Sub Maj Clk

Sub Clk Dhembare Vasant Ramchandra (JC-224376K), 18 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

To be Sub

Nb Sub Lasune Hamid Allauddin (JC-458979W), 22 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2003 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Garad Hanumant Bhimrao (JC-458613Y), 22 Mar 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 03 Mar 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhikale Dasharath Tukaram (JC-458976H), 20 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhimrao Baburao Patil (JC-458942P), 12 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Thote Rajendra Pandhari (JC-459011X), 27 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shelake Bhanudas Kundalik (JC-458929L), 12 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ghogle Vilas Mahadev (JC-458996W), 27 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Yamagar Subhash Mahadeo (JC-458859X), 04 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Govind Bhaorao Kangane (JC-458860M), 10 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub S Chellapan (JC-459019K), 28 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Maruti Dattatray Kumbhar (JC-458981N), 12 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 20 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raul Deepak Bhaskar (JC-458903W), 31 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dajiba Patil (JC-459130N), 21 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Patelia Balvant Sinh Ramsinh (JC-459214F), 16 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ramanagouda Biradar (JC-458967F), 08 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Chavan Baliram Jagannath (JC-459020Y), 14 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Bhosale Dattatray Keshav (JC-458948W), 25 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shaikh Nabab (JC-459101Y), 11 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Muhammad Ameer Khan (JC-459068M), 13 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sayed Garibvalley (JC-459121M), 13 Feb 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kharate Vishnu Arjun (JC-459126L), 18 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Krishna Narayan Sutar (JC-458876X), 12 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kadam Madhavarao Shripatirao (JC-458892P), 13 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Vasappa HR (JC-459010P), 14 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mohan Sonyabapu Lagad (JC-459039X), 15 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Digambar Parshuram Naik (JC-458895H), 16 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 07 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mahadeo Dadaso Bhosale (JC-459023M), 11 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Ram Kunwar (JC-458862X), 01 Feb 2005

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Viswothaman V. (JC 439109K), 2 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rajendiran P (JC-438927Y), 1 Oct 2004

Nb Sub Komala Kumaran KM (JC-439137W), 1 Oct 2004

Nb Sub Prakasan K (JC-438932K), 13 Oct 2004

Nb Sub Mareddy Indrakar Reddy (JC-439357A), 01 Dec 2004

Nb Sub Singappa Shivappa Hundekar (JC-439192M) 19 Jan 2005

Nb Sub R Muthiah (JC-439023L) 5 Feb 2005

Nb Sub Ramesh NM (JC-439067H), 1 Mar 2005

#### THE SIKH LI

To be Sub (GD)

Nb Sub Darshan Singh (JC-508947M), 22 Jun 2004

Nb Sub Sohan Singh (JC-508826L), 01 Oct 2004

Nb Sub Darshan Singh (JC-508827N), 01 Oct 2004

Nb Sub Tarsem Singh (JC-508692X), 01 Nov 2004

Nb Sub Sukhwant Singh (JC-508828W), 01 Dec 2004

Nb Sub Nirmal Singh (JC-508859W), 01 Dec 2004

Nb Sub Jasmel Singh (JC-508968H), 01 Dec 2004

Nb Sub Amrik Singh (JC-509015M), 13 Dec 2004

Nb Sub Raghbir Singh (JC-508737M), 01 Jan 2005

Nb Sub Balwinder Singh (JC-508764W), 01 Jan 2005

Nb Sub Sucha Singh (JC-508784K), 01 Jan 2005

Nb Sub Dharampal Singh (JC-508831W), 01 Jan 2005

Nb Sub Tasvir Singh (JC-508832Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Dharampal Singh (JC-508742X), 08 Mar 2005

Nb Sub Ram Singh (JC-508805P), 01 Mar 2005

Nb Sub Mukhtiar Singh (JC-508911M), 01 Mar 2005

Nb Sub Zora Singh (JC-509022H), 01 Mar 2005

Nb Sub Sital Singh (JC-508830N), 01 Feb 2004

Nb Sub Gurtej Singh (JC-508861N), 01 Apr 2004

Nb Sub Kuldip Singh (JC-508912W), 01 Jun 2004

Nb Sub Hardip Singh (JC-508755P), 12 Jun 2004

Nb Sub Dilbag Singh (JC-508756X), 01 Jul 2004

Nb Sub Chanan Singh (JC-508791A), 15 Oct 2004

Nb Sub Nirbhai Singh (JC-508878F), 04 Nov 2004

Nb Sub Harjinder Singh (JC-508937H), 08 Nov 2004

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-508866M), 29 Nov 2004

Nb Sub Partap Singh (JC-508620N), 01 Dec 2004

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-508846Y), 01 Dec 2004

Nb Sub Sohan Singh (JC-508775H), 01 Dec 2004

Nb Sub Jagraj Singh (JC-508694H), 01 Dec 2004

Nb Sub Gurjant Singh (JC-508741P), 01 Dec 2004

Nb Sub Kashmir Singh (JC-508888L), 01 Dec 2004

Nb Sub Harbans Singh (JC-508782Y), 01 Jan 2005

Nb Sub Paramjit Singh (JC-508938L), 01 Jan 2005

Nb Sub Bakhtawar Singh (JC-508889N), 01 Jan 2005

Nb Sub Mehar Singh (JC-508873H), 01 Jan 2005

Nb Sub Charan Singh (JC-508733W), 01 Jan 2005

Nb Sub Pala Singh (JC-508896K), 01 Jan 2005

Nb Sub Manjit Singh (JC-508729N), 01 Feb 2005

Nb Sub Gurmukh Singh (JC-508786P), 01 Feb 2005

Nb Sub Balbir Singh (JC-509016P), 01 Feb 2005

To be Sub (Clerk) (GD)

Nb Sub (Clk) Suresh Kumar T (JC-508704F), 01 Mar 2005

Nb Sub (Clk) James K M (JC-508719K), 01 Mar 2005

Nb Sub (Clk) Kanwar Sain (JC-508711X), 01 Mar 2005

Nb Sub (Clk) Gajraj Singh (JC-508722K), 01 Mar 2005

Nb Sub (Clk) Jai Bhagwan (JC-508724P), 01 Mar 2005

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Bikash Chandra Bhandari (No. 455888A now JC-569495L), 22 Nov 2004@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 08 Jun 2004.)

Hav Devi Dayal (No. 2979405M now JC-569496N), 30 Aug 2004@@

@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2004.)

Hav Shiv Dayal (No. 4553895M now JC-569497W), 01 Dec 2004@@@

@@@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 04 Sep 2004.)

Hav Sarsandkar Bhaulal Kishan (No. 4558751N now JC-569498Y), 21 Nov 2004#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 06 Sep 2004.)

Hav Baisane Bhaidas Totaram (No. 4552441M now JC-569499F), 13 Dec 2004##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Ram Kumar Tamong (No. 4553924W now JC-569500L), 01 Oct 2004

Hav Raj Kuwar (No. 4553336H now JC-569501N), 01 Dec 2004\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Hari Datt Bhat (No. 4553079W now JC-569502W), 05 Nov 2004\$\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Paras Nath Yadav (No. 4553257N now JC-569503Y), 05 Nov 2004\$\$\$

\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Ramayan Singh (No. 4553271A now JC-569504F), 05 Nov 2004\$\$\$\$

\$\$\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Ram Lal (No. 4553325W now JC-569505K), 05 Nov 2004%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 12 Oct 2004.)

Hav Shiv Saran Mall (No. 4551891X now JC-569506M), 10 Nov 2004%%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 31 Oct 2004.)

Hav Rameshwar Dass (No. 4552515W now JC-569507P), 15 Dec 2004%%%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 22 Nov 2004.)

Hav Khandare Sanjay Gopalrao (No. 4560739L now JC-569508X), 14 Dec 2004%%%

%%%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 24 Nov 2004.)

Hav Omesh Kumar (No. 4552527A now JC-569509A), 15 Jan 2005&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Dec 2004.)

Hav Gunanidhi Nayak (No. 4554611K now JC-569510P), 04 Jan 2005&&

&&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jan 2005.)

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (GD)

Hav Lalan Singh Yadav (No. 4262366H now JC-559402X), 01 Aug 2004

Hav Parimal Gadanayak (No. 4266732Y now JC-559403A), 17 Oct 2004 (Seniority)\*



- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Uday Kumar (No. 4261680K now JC-559404H), 19 Dec 2004/13 Sep 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Ranjit Kumar Ojha (No. 4260014M now JC-559405L), 07 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Awadh Kishore Singh (No. 4261239F now JC-559406N), 25 Jan 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Hajendra Oraon (No. 4265073H now JC-559407W), 11 Jan 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Shree Bhagwan Tiwari (No. 4260585L now JC-559408Y), 18 Dec 2004/15 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Kanta Prasad (No. 4261738W now JC-559409F), 18 Jan 2005/01 Nov 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Ratnakar Mohanta (No. 4262360F now JC-559410W), 01 Jan 2005/01 Dec 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Baij Nath Prasad (No. 4259060P now JC-559411Y), 19 Jan 2005/12 Dec 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 12 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Lohra Ekka (No. 4261189F now JC-559378M), 16 Nov 2004/17 Sep 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 17 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Dwarika Nath Singh (No. 4260129A now JC-559379P), 24 Nov 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Girishdeo Rai (No. 4262260W now JC-559380K), 25 Nov 2004/14 Sep 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 14 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Ramesh Sahoo (No. 4267000P now JC-559381M), 28 Nov 2004/18 Aug 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 18 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Pramod Kumar Sa (No. 4260778L now JC-559382P), 01 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Bijay Kumar Tiwari (No. 4262784X now JC-559383X), 03 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Babuli Nayak (No. 4262231F now JC-559384A), 06 Dec 2004/01 Sep 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Arun Kumar Singh (No. 4262638X now JC-559385H), 06 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Arjuna Das (No. 4263394F now JC-559386L), 06 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Suresh Chandra Nath (No. 4264029N now JC-559387N), 06 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Pramod Kumar Jena (No. 4264751L now JC-559388W), 06 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Bhikhari Singh (No. 8031710W now JC-559389Y), 06 Dec 2004/01 Oct 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Dusmanta Kumar Nayak (No. 4263814W now JC-559390N), 08 Dec 2004/08 Jul 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 08 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Sunil Kumar (No. 4262720N now JC-559391W), 11 Dec 2004/01 Sep 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)  
Hav Mundrika Prasad (No. 4262233M now JC-559392Y), 20 Dec 2004/01 Aug 2004 (Seniority)\*
- \*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)



Hav Bimbadhar Samal (No. 4266522Y now JC-559393F),  
31 Dec 2004/04 Jul 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 04 Jul 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Jogeswar Mahanta (No. 4266675H now JC-  
559394K), 01 Jan 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Manoj Kumar (No. 4266356W now JC-559395M),  
03 Jan 2005/04 Aug 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 04 Aug 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Bhimsen Mukhi (No. 4262036K now JC-559396P),  
03 Jan 2005/01 Oct 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Jitendra Kumar Singh (No. 4260509Y now JC-  
559397X), 04 Jan 2005/26 Nov 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 26 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Satya Narayan Mahto (No. 4268784N now JC-  
559398A), 11 Jan 2005/15 Dec 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 15 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Rajendra Prasad Bhoi (No. 4262328M now JC-  
559399H), 11 Jan 2005/15 Dec 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 15 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Gerald Manjela (No. 4261722L now JC-559400M),  
21 Jan 2005/01 Sep 2004 (Seniority)\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect  
from 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances.)

#### JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Yoginder Datt (No. 13742752X now JC-579969P),  
14 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Juzar Singh (No. 13746434L now JC-579970K), 01  
Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Surinder Mohan (No. 13749593N now JC-579971M),  
01 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Subash Chander (No. 13749556A now JC-579972P),  
09 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Oct 2004.)

Hav Sher Singh (No. 13748886M now JC-579973X), 01  
Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 30 Oct 2004.)

Hav Subhash Chand (No. 13745739Y now JC-579974A),  
18 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Nov 2004.)

Hav Varinder Singh Jamwal (No. 13747290A now JC-  
579975H), 01 Nov 2004

Hav Bali Ram (No. 13747745L now JC-579976L), 01  
Nov 2004

Hav Varinder Singh (No. 13747778W now JC-579977N),  
01 Nov 2004

Hav Yudhvir Singh (No. 13746619M now JC-579978W),  
25 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Nov 2004.)

Hav Birender Singh (No. 13751973L now JC-579979Y),  
23 Nov 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Nov 2004.)

Hav Gaman Singh Thapa (No. 13746513A now JC-  
579982Y), 03 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2004.)

Hav Bur Singh (No. 13746413P now JC-579983F), 03  
Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2004.)

Hav Amrik Singh (No. 13746433H now JC-579984K),  
03 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2004.)

Hav Chain Singh (No. 13746491M now JC-579985M),  
03 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2004.)

Hav Onkar Chand (No. 13747851X now JC-579986P),  
07 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2004.)

Hav Dalel Chand (No. 13747856H now JC-579987X),  
07 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect  
on pay and allowances wef 01 Dec 2004.)

Hav Vijay Kumar Bhandari (No. 13746658L now JC-579988A), 01 Dec 2004

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk Laxman Singh (No. 13750311W now JC-579980N), 01 Dec 2004

Hav/Clk Jaya Kumar S (No. 13750343Y now JC-579981W), 01 Dec 2004

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Baldev Kumar (No. 3986940L now JC-520079X), 15 Nov 2004+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Dina Nath (No. 3983133L now JC-520080M), 09 Nov 2004

Hav Vijay Kumar (No. 3983068W now JC-520081P), 11 Dec 2004

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Durga Bahadur Simall Thapa (No. 5751276A now JC-623594K), 08 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Naveen Kumar (No. 5752927X now JC-623595M), 20 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Oct 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Bala Krishna Thapa (No. 5750971H now JC-623596P), 24 Dec 2004\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Jhalak Prasad Gurung (No. 5750995M now JC-623598A), 04 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Man Bahadur Rana (No. 5751002P now JC-623599H), 04 Jan 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay and allowances.)

JAK LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Sham Lal (No. 9086667W now JC-593318K), 08 Jan 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Nov 2004.)

Hav Raj Kumar (No. 9085797M now JC-593319M), 05 Jan 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004.)

Hav Ram Lal (No. 9084967Y now JC-593320F), 05 Feb 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004.)

Hav Gh Ahmed Akhoun (No. 9086608K now JC-593321K), 14 Feb 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005.)

Hav Mohd Rafeeq (No. 9086979M now JC-593322M), 05 Jan 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005.)

Hav/Clk Tara Singh (No. 9088326K now JC-593307X), 17 Jan 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2005.)

#### THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Kashmir Singh (No.4461274N now JC-509209P), 01 Nov 2004

Hav Mukha Singh (No.4466723F now JC-509210K), 31 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Dec 2004.)

Hav Kuldip Singh (No.4466421P now JC-509211M), 05 Dec 2004

Hav Ajmer Singh (No.4468659N now JC-509212P), 05 Dec 2004

Hav Karnail Singh (No.4464811Y now JC-509213X), 01 Jan 2005

Hav Harpal Singh (No.4464638A now JC-509214A), 01 Jan 2005

Hav Harjinder Singh (No.4466409N now JC-509215H), 01 Jan 2005

Hav Harbans Singh (No.4464201M now JC-509218W), 01 Feb 2005

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav/Clk Ramesh Chandra (No.4464359P now JC-509216L), 15 Jan 2005

Hav/Clk Ved Parkash (No.4464907F now JC-509217N), 15 Jan 2005

Hav/Clk Nanda Ram Yadav (No.4464987K now JC-509219Y), 06 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 01 Mar 2005.)

Hav/Clk Vijay Singh Negi (No.4465112A now JC-509220N), 09 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 01 Mar 2005.)

Hav/Cik Kuldip Singh (No. 4465623K now JC-509221W), 01 Mar 2005

**THE MADRAS REGIMENT**

To be Nb Sub

Hav Sari Gangula Naidu (No. 2591163N now JC-439519A), 15 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 06 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav P Eswar Kumar (No. 2588794L now JC-439508N), 01 Dec 2004

Hav MK Mohana Kumar (No. 2587784P now JC-439506H), 01 Jan 2005

Hav Mohammad Rafiq (No. 2587517N now JC-439538L), 30 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Jan 2005 without effect on pay and allowances.)

Hav Chitra Srinivasa Rao (No. 2589451F now JC-439544Y), 12 Jan 2005

Hav Baby A (No. 2587908Y now JC-439539N), 06 Feb 2005

Hav Arava Gopi (No. 2592574Y now JC-439540H), 01 Mar 2005

**DIWAKAR**  
Under Secy.

No. 416, dated 26th July 2005.—The President is pleased to make the following promotions :—

**REGULAR ARMY**

**PERMANENT COMMISSION**

Maj to Lt Col

IC No. Name and Arm

IC-46032 Promod S Gadhave, Inf

IC-46033 Satish Kumar, AC

IC-46034 Devindar Kumar, Inf

IC-46035 Santosh Kumar Gurung, AOC

IC-46036 Rathna Kumar Adapa KR, Inf

IC-46037 Rakshvir, Engrs

IC-46038 Sukhcharan Singh Rai, Inf

IC-46039 Ram Mahar. Singh, AOC

IC-46040 Narendra Singh Pal, Inf.

IC-46041 Anoop Singh Jakhar, Arty

IC-46042 Shalendra Singh, Arty

IC-46043 Madhu Sudan Sati, AOC

IC-46044 K Prabhakar Hebbar, Sigs

IC-46045 Ravindra Kumar Singh, Inf

IC-46046 K Balaji Kasi Raja, Inf

IC-46047 Vijay Bahadur Thapa, Arty

IC-46048 Sanjay Chauhan, EME

IC-46049 Sunil Yadava, Arty

IC-46050 Dushyant Singh, Arty

IC-46051 RC Srikanth, Arty

IC-46052 Aswani Kumar Panthey, Arty

IC-46053 Prabudh Sharma, Arty

IC-46054 Maulis Chandra, Engrs

IC-46055 Devdas Padmagiriswaran, Arty

IC-46056 Sanjeev Dutt, ASC

IC-46057 Suresh Kumar, EME

IC-46058 Tejinder Kumar MP, Sigs

IC-46059 Raju Singh, Engrs

IC-46060 Jatinder Singh Dhawan, EME

IC-46061 Vibhai Man Singh, Arty

IC-46062 Sanjay Ahluwalia, Arty

IC-46063 Varinder Singh Sharawat, Inf

IC-46064 Thomas Sajan Abraham, AOC

IC-46065 Robin George Abraham, Inf

IC-46066 Kuldeep Singh Banshtu, Inf

IC-46067 Hitesh Chandel, Inf

IC-46068 Balraj Sardana, Arty

IC-46069 Varghese George, Arty

IC-46070 Hegde Goutham Radhakrishna, AOC

IC-46071 Vivek Misra, Arty

IC-46072 Indra Kumar Lal, AOC

IC-46073 Cyril Padmanabhan, Arty

IC-46074 Isaac P Therattil, Arty

IC-46075 Abhay Singh, Inf

IC-46076 Deep Chand Dagar, AOC

IC-46078 Pushpender Singh Mankotia, Inf

IC-46079 Kuldip Singh Sandhu, Arty

IC-46080 Subrata Mookherjee, Inf

IC-46081 Hardev Singh, ADA

IC-46082 Harish Chandra Singh, Arty

IC-46083 Harlal Singh Kharinta, ASC

IC-46084 JS Bhardwaj, AOC	IC-46128 Ajit Dhaka, Arty
IC-46085 Rajesh Kumar Sharma, EME	IC-46129 Sarvdeep Singh Grewal, ASC
IC-46086 Dharmendra Singh, Arty	IC-46130 Dinkar Chaturvedi, Inf
IC-46087 Suresh Chaudhary, Arty	IC-46131 Alok Kumar Saha, Arty
IC-46088 Gaurav Kantrar, AOC	IC-46132 Anil Sehgal, AOC
IC-46089 Ranjan Kumar Singh, Engrs	IC-46133 Raghunath Govind Iyer, EME
IC-46090 Manish Khanna, Inf	IC-46134 Ajay Kumar Dhaka, Inf
IC-46091 Gian Prakash Yadav, Inf	IC-46135 Kohok Jayaji Dattatraya, Arty
IC-46092 Somdutt Gurjer, Engrs	IC-46136 Manoj Kumar, Arty
IC-46093 Dubey Rakesh Kumar Ram Chander, Engrs	IC-46138 Gurjit Singh Multani, Inf
IC-46094 AD Bedarkar, AOC	IC-46139 Shyam Bihari Singh, Inf
IC-46095 Ram Mani Pandey, AC	IC-46141 Ajay Kumar Singh, Inf
IC-46096 Sunil Sharma, Arty	IC-46142 Gautam Subbiah, Inf
IC-46098 Podapati Nagaraja, AOC	IC-46143 Sebastian MS, Engrs
IC-46099 Jag Mohan Singh, Int	IC-46144 Sanjay Kumar Thakur, AOC
IC-46100 Balakrishnan Pokhriyal, EME	IC-46145 Hemant Singh Rajawat, Inf
IC-46101 BS Rajmohan, Arty	IC-46146 Meetinder Singh Sandhu, AOC
IC-46102 Rajeev Jaiswal, Sigs	IC-46147 Murali VG, Engrs
IC-46103 Sarabjit Singh, Inf	IC-46148 Manoj Kumar, Arty
IC-46104 Om Prakash Ahlawat, AOC	IC-46149 Sandeep Negi, Arty
IC-46107 Uma Shankar, Arty	IC-46150 Avtar Singh Pawar, EME
IC-46108 Sanjay Dimri, Sigs	IC-46151 Sanjeev Verma, Arty
IC-46109 V Kandan Arul, Engrs	IC-46155 Kanwarjeet Guleria, Arty
IC-46110 Raghunandan Singh Shakhawet, ASC	IC-46156 Satyapal Singh Chauhan, Inf
IC-46111 Suresh Varma, Arty	IC-46157 Sandeep Kumar, EME
IC-46112 Vikrant Singh, Mech Inf	IC-46158 Vikramjit Singh Talwar, AOC
IC-46113 Sanjay Mathur, EME	IC-46159 Rajendra Bhanj, AC
IC-46114 Prabhakar Kumar, Engrs	IC-46160 Surinder Singh Jamwal, Inf
IC-46115 Thendup Palzer Tshering, ASC	IC-46161 Rajinder Pal Singh Marwaha, Arty
IC-46116 Sanjeev Kumar Singh, AC	IC-46162 Subash Chakravorty, Sigs
IC-46117 Vivek Prakash Singh, Arty	IC-46169 Birender Singh, Engrs
IC-46118 Anil John, AOC	IC-46170 Man Mohan Mishra, Engrs
IC-46119 Chandraprakash Suraj Narayan Mishra, Int	IC-46171 Ajay Singh Kanwar, AC
IC-46120 Sharma Rakesh Kumar Brahmdev, Arty	IC-46172 Rajesh Arun Moghe, Mech Inf
IC-46121 Brijesh Kumar, AOC	IC-46174 Ajay Kapil, ADA
IC-46122 Praveen Dhawan, ASC	IC-46175 Harvinder Singh, Inf
IC-46124 Ravichandran D Dhandapani, ADA	IC-46176 KP Singh Rajawat, ASC
IC-46125 Sandeep Chopra, Arty	IC-46177 Radheshyam Singh Besen, Arty
IC-46126 Jangbir Singh Rangji, Arty	IC-46178 Gulshan Bhatla, Engrs
IC-46127 Ajay Kumar Singh, Inf	IC-46179 Manmohan Singh, Sigs

IC-46180 Rajesh Kalia, Inf	IC-46223 Manish Upadhyay, Inf
IC-46181 Shirish S Phansalkar, Arty	IC-46224 Sanjay Pandey, AOC
IC-46182 Dinesh Tiagi, Arty	IC-46226 Rakesh Trivedi, Inf
IC-46183 Shantanu Haldule, AC	IC-46227 VM Balachandran, Arty
IC-46184 Vikas Goswami, Arty	IC-46228 Sharanjit Singh, Sigs
IC-46185 Ripumardan Singh Raghav, Arty	IC-46229 Barinder Singh Sahni, Inf
IC-46186 Madan Singh Shekhawat, AOC	IC-46230 Rajesh Vardhan, Arty
IC-46187 Manoj Singh Sengar, EME	IC-46231 Anil Kumar Juyal, Engrs
IC-46188 Ravinder Singh Khandka, Arty	IC-46232 Sanjiv Sethi, Arty
IC-46189 Harinder Deep Singh Rainal, Arty	IC-46233 Dilbagh Singh Sandhu, Arty
IC-46190 Manish Dubey, EME	IC-46234 Jaswinder Singh Dhanda, Arty
IC-46191 Brij Bhushan Bhatt, Arty	IC-46235 Sandeep Gulati, Inf
IC-46192 Om Prakash Singh, Inf	IC-46236 Ranjit Singh, Arty
IC-46193 Udayapal Singh Yadav, EME	IC-46237 Navjeet Singh Dhillon, Inf
IC-46194 Feroz Hamid Usmani, Engrs	IC-46238 Anuraag Chhabra, Inf
IC-46195 Janamjit Singh Gondara, Arty	IC-46241 Poonish Sreen, ASC
IC-46196 Vijay Raj Singh Katoch, Sigs	IC-46242 Shailendra Singh Chauhan, Arty
IC-46197 Jagjeet Singh Rautela, Inf	IC-46243 Arun Kumar, Inf
IC-46198 Pradeep Verma, AOC	IC-46244 Javed Iqbal, Jag
IC-46199 Sanjeev Singh, Sigs	IC-46245 Rajdeep Singh Grewal, Engrs
IC-46200 Mukesh Bhatnagar, AOC	IC-46246 Yogendra Rawat, Engrs
IC-46201 Anurag Sharma, Inf	IC-46247 Manoj Jakher, AOC
IC-46202 Vinod Mathews, Engrs	IC-46248 Sunil Dutt Nautiyal, Inf
IC-46203 Shailesh Pathak, Inf	IC-46249 TVS Raju, ASC
IC-46204 Abhijit Haldar, Inf	IC-46251 Shailendra Singh Yadav, Inf
IC-46205 Rajesh Kanwar, AOC	IC-46252 Ajay Singh Rathore, Sigs
IC-46207 Ravinder Singh Rathore, Engrs	IC-46254 Rashtar Bandhu Dogra, EME
IC-46208 Krishna Kant Gupta, Arty	IC-46255 Hemant Paliwal, Int
IC-46209 Charandeep Singh, Inf	IC-46256 Kanwar Kuljit, Engrs
IC-46211 Suresh Kumar Singh, Inf	IC-46257 Satya Narayana Naresh, Arty
IC-46212 Kamlesh Chauhan, Arty	IC-46258 Amit Bhardwaj, Arty
IC-46213 Shivesh Tandon, Arty	IC-46259 Rishi Raj Kanet, Inf
IC-46214 Mayank Awasthi, AC	IC-46260 Navneet Singh Baweja, AC
IC-46215 Robinder Singh Sirohi, EME	IC-46261 Nitin Narahar Joshi, AOC
IC-46216 Velala Vijaya Bhaskar, Inf	IC-46262 Pankaj Sharma, Arty
IC-46217 Upadhyay Rothi Raj, Arty	IC-46264 Sasidharan P, EME
IC-46219 Shantanu Banerjee, Arty	IC-46265 Sanjay Bhatnagar, EME
IC-46220 Blabir Singh Ahluwalia, Arty	IC-46266 Sanjeev Bakshi, Inf
IC-46221 Balkar Singh, Arty	IC-46267 Sanjay Datt, EME
IC-46222 Arvind Kumar Vats, Inf	IC-46268 Shailendra Pathak, EME

IC-46269 Amit Kumar Srivastava, Arty	IC-47566 VM Bhuvana Krishnan, Inf
IC-46270 Kuldeep K Sharma, Inf	IC-47569 Neeraj Madan, Arty
IC-46271 Sidharth Choudhary, Arty	IC-47570 Rajanish Lal, Arty
IC-46272 Ram Pal Parashar, AC	IC-47571 Harish Bhutani, EME
IC-46273 Rajiv Ghai, Arty	IC-47573 Vikram Raina, Inf
IC-46274 Pavithran Cherial Anthott, Sigs	IC-47575 SK Gupta, EME
IC-46275 Shyam Kant Dubey, AOC	IC-47576 Mukesh Chadha, ASC
IC-46276 Ravinder Kumar Sharma, Engrs	IC-47577 NK Lohani, Arty
IC-46277 Avijit Nandi, Arty	IC-47578 VS Chandrawat, Inf
IC-46278 P Ashok, EME	IC-47579 Ajay Maini, ADA
IC-46280 Harish Chandra Joshi, Jag	IC-47580 Ajey Sethi, Arty
IC-46281 Harindra Manubhai Vyas, AOC	IC-47581 CP Singh Pasricha, Engrs
IC-46282 Shyam Sunder Sharma, Inf	IC-47582 Harkirat Singh, AC
IC-46283 Lalit Kumar Joshi, Inf	IC-47583 Sunil Yadava, Inf
IC-46284 Mohanjit Singh Bains, ASC	IC-47584 Kamal Deep Sanan, Sigs
IC-46285 Vinod Kumar Joshi, Engrs	IC-47585 Ravinder Singh, Mech Inf
IC-46286 Rajinder Kumar Malik, Arty	IC-47586 MS Sorout, ASC
IC-46287 Manoj Kumar, Inf	IC-47587 Raveev Negi, Inf
IC-46288 Manoj Kumar Joshi, Inf	IC-47588 SK Sood, Arty
IC-46289 Pillai S Shridharan, Arty	IC-47589 SP Singh, Inf
IC-46290 Rahul Pandey, Inf	IC-47590 GS Dhillon, Inf
IC-46291 Anil Kumar Jha, Arty	IC-47592 SM Ismail, Inf
IC-46295 Raj Kumar Singh, Inf	IC-47593 GP Sharma, AOC
IC-46296 Tarun Mitra, Arty	IC-47594 RD Sharma, AOC
IC-46297 Ravinder Kumar Gogia, AC	IC-47595 Ajay Sharma, Arty
IC-46298 Mukul Dev, Arty	IC-47596 Atul Dharmapuri, Mech Inf
IC-46299 Manoj Mishra, EME	IC-47597 Sandeep Singh, Inf
IC-46300 Avdesh Singh Mathur, AC	IC-47598 MK Singh, Inf
IC-46301 Arun Shukla, Sigs	IC-47599 Raminder Singh, Inf
IC-46302 Tarun Anand, Arty	IC-47602 Naga Malleshwara Rao G, Arty
IC-46303 Tapas Ghatak, Arty	IC-47603 VP Singh Kaushik, Inf
IC-46304 Yogendra Singh, Jag	IC-47604 Vivek Venkataraman, Engrs
IC-46305 Ashish Kumar Punia, Inf	IC-47605 Sanjay Julka, Arty
IC-46306 Nadeem Arshad, Sigs	IC-47606 RS Vashistha, Inf
IC-46307 Rajesh Shekhawat, Sigs	IC-47607 Avanindra Joshi, Inf
IC-47560 Vikas Madhok, Sigs	IC-47608 Jaidev Singh, Inf
IC-47561 Shailendra Singh Rawat, Engrs	IC-47609 SS Alang, Inf
IC-47562 M Karthikeyan, AC	IC-47610 CB Singh Bhadwal, Inf
IC-47563 SS Slaria, AC	IC-47611 SK Singh, AOC
IC-47564 SS Salunke, Inf	IC-47612 Raja Bhattacharjee, EME

IC-47613 Manoj Tiwari, Mech Inf	IC-47659 Ranvir Singh, Inf
IC-47614 Robertson Bilavendran, Inf	IC-47660 Sarthak Ghosh, ASC
IC-47615 Rajesh Parmar, ASC	IC-47661 Sandeep Jain, Inf
IC-47617 Manish Tripathi, AC	IC-47662 Vikram Kumar, AC
IC-47618 Rani Ram Kumar, Arty	IC-47663 Tarun Bhatia, Inf
IC-47620 Sandeep Vohra, Engrs	IC-47665 CV Sailesh Kumar, Inf
IC-47621 RP Singh, Inf	IC-47666 Nitin A Shinagare, AOC
IC-47624 Mrigendra Kumar, Inf	IC-47667 Harmandeep Singh, EME
IC-47625 RS Rawat, Arty	IC-47668 Vijay B Nair, Inf
IC-47626 Ajay Gangwar, Sigs	IC-47669 Ashish Popli, ASC
IC-47627 Kuldeep Ahlawat, Inf	IC-47671 RK Bansal, Arty
IC-47628 Ramandeep Kang, Sigs	IC-47673 AS Thakur, Inf
IC-47629 NK Vishwanath Patil, AOC	IC-47674 JJ Singh Bhinder, AOC
IC-47631 Sisir Kumar Bag, Inf	IC-47675 Jiten Vadhera, Inf
IC-47632 Om Prakash, Inf	IC-47676 AM Mathur, AC
IC-47633 Kanwaljit Singh, AC	IC-47677 MS Sekhon, AOC
IC-47634 DP Kumar Pillay, Mech Inf	IC-47678 Rajesh Kumar, Inf
IC-47635 MM Vitekar, Inf	IC-47679 VK Thapliyal, Engrs
IC-47636 HS Walia, Inf	IC-47680 PK Pundir, ASC
IC-47637 Mohammad Shahnawaz, Inf	IC-47681 Rupinder Singh, Inf
IC-47638 Mirtunjay Thakur, Arty	IC-47682 Ajay Bhattacharyya, Arty
IC-47640 Kaushal Sreedharan, AVN	IC-47683 Milan Khurana, ADA
IC-47641 Nawab Singh, Inf	IC-47684 Sumil Chawla, EME
IC-47642 Vikas Balhara, AOC	IC-47685 Mann Singh Gahlot, Mech Inf
IC-47643 GS Kular, Inf	IC-47686 PB Singh Lamba, Inf
IC-47644 Anurodh Mishra, EME	IC-47687 Ajay Bohtan, EME
IC-47645 Sanjay Malik, Engrs	IC-47688 Ashraf Khan, Inf
IC-47646 GS Jamwal, Inf	IC-47689 Deepak Sehgal, Inf
IC-47647 AD Kumar, ASC	IC-47690 Arun Kumar, AOC
IC-47648 Shileendra Benjamin, Inf	IC-47691 RP Pandey, Arty
IC-47649 JS Babbar, Arty	IC-47692 GRB Kalawad, Inf
IC-47650 Surinder Singh, Arty	IC-47693 Sukhjit Singh, Inf
IC-47651 Shailesh Railkar, Sigs	IC-47694 AS Rao, Inf
IC-47652 Rajeev Dalal, Engrs	IC-47695 VA Madhu, ASC
IC-47653 Youdhvir Singh, AC	IC-47697 E Hari Shankar, ASC
IC-47654 CL Fotedar, Inf	IC-47698 PG Chakarpani, Arty
IC-47655 Singh, Kahlon Ravinder, Arty	IC-47702 Sunil V Kadam, Inf
IC-47656 PK Sunil Kumar, Arty	IC-47703 VV Naik, ADA
IC-47657 Michael Anthony Jude Fernandez, Engrs	IC-47704 RB Singh Lamba, Engrs
IC-47658 AS Mann, Mech Inf	IC-47705 HP Singh Sidhu, Engrs

IC-47706 DK Gupta, Sigs	IC-47754 Ashish Kohli, Arty
IC-47707 G Shashi Kumar Khot, ADA	IC-47755 Ajay Sreedhar, Sigs
IC-47708 Gopal D Vashista, EME	IC-47756 Vikas Choudhary, Sigs
IC-47709 Johanson J Lobo, Inf	IC-47757 Atul Bisht, Inf
IC-47710 B Laxman Jadhav, Arty	IC-47758 Kalosashi Biswas, Inf
IC-47711 Rajesh Kumar Arora, AOC	IC-47759 Prateek Mohil, Inf
IC-47712 Harmit Singh, Arty	IC-47760 Suresh Chandra, Arty
IC-47713 Krishan Kumar Raja, Inf	IC-47761 Sanjeev Jaiswal, Inf
IC-47715 Vivek Dhall, Inf	IC-47762 Randeep Singh Guleria, Inf
IC-47716 Tarsem Singh, ASC	IC-47765 Vivek Uberoy, EME
IC-47717 Amar Singh Rathore, Mech Inf	IC-47766 Satinder Pal Singh, Int
IC-47718 Jaiveer Singh Saran, Inf	IC-47767 Sandeep Kumar Jain, Engrs
IC-47719 Suresh Kumar, AOC	IC-47768 V Sanjeev, Arty
IC-47720 Sanjay Ohri, Engrs	IC-47769 Anil Kumar Pandey, AOC
IC-47721 P Vinayagam, Arty	IC-47770 Ajay Kumar Sharma, Arty
IC-47722 Rakesh Kumar, Arty	IC-47772 Ajay Singh Shekhawat, Engrs
IC-47723 Sandeep Singh, Inf	IC-47773 Brajendra Pratap Singh, Inf
IC-47724 Atul Kumar, AOC	IC-47774 Tapan Lal Sah, Inf
IC-47725 Balraj Singh Sohi, Inf	IC-47775 Daljit Singh Padda, Arty
IC-47726 Upendra Madhukar Visal, Mech Inf	IC-47776 Thomas Mathew, Inf
IC-47728 Sudeep Singh, AVN	IC-47778 Vineet Kumar, EME
IC-47730 Satish Chander, Arty	IC-47779 Jagdeep Singh Goraya, Arty
IC-47731 Venkat Harish Gatti, Engrs	IC-47780 Kanwar Pal Singh, AC
IC-47732 Kuldeep Singh Chauhan, AOC	IC-47781 Maninder Singh Chahal, Inf
IC-47734 Chandra Prakash Singh Negi, Inf	IC-47782 Rakesh Singh Kushwaha, Sigs
IC-47735 Vaneet Mehta, AOC	IC-47783 Gurvinder Singh, Arty
IC-47736 Rajeev Misra, Arty	IC-47784 Vijay Kumar, EME
IC-47737 Guneet Singh, AC	IC-47785 Rattan Singh, Inf
IC-47738 Sundeep Choudhury, AOC	IC-47786 Sandeep Kumar Sirohi, Inf
IC-47739 Mrinal Kanti Nath, Int	IC-47787 Singaraju Radhkrishna Murthy, EME
IC-47740 Anil Kumar Mishra, EME	IC-47789 Ajay Kumar Dabral, AOC
IC-47741 M Suresh, Engrs	IC-47790 Sudheer Kumar, Arty
IC-47742 Thomas Kutty CP, ASC	IC-47792 Jagbir Singh Dahiya, Int
IC-47743 Himmat Singh, Inf	IC-47793 Baljit Singh Ghotra, Inf
IC-47744 Gaurav Chaturvedi, Mech Inf	IC-47794 Ashish Kumar Pandey, Engrs
IC-47745 Chilankuri Sudhakar Babu, Arty	IC-47795 Ashok Kumar, Engrs
IC-47746 Prashant K Wankhade, Inf	IC-47796 Rajesh Kumar Rao, AOC
IC-47749 Rajiv Chadha, AC	IC-47797 Anil Kumar Giri, Sigs
IC-47750 Sunil Kaushal, Engrs	IC-47798 Ajay Kotwal, Inf
IC-47752 Kamal, Arty	IC-47799 Shrish Mangain, Inf



- IC-47800 Arun Kumar Punia, Inf  
 IC-47801 Vikram Mohan Patki, Inf  
 IC-47802 Suraj Pal Singh Sangwan, Engrs  
 IC-47803 Randhir Singh Sachan, AC  
 IC-47804 Gurlal Singh Gill, Inf  
 IC-47805 Vininder Singh, Sigs  
 IC-47807 Gyanendra Pratapa Singh, Inf  
 IC-47808 Sanjay Krishna, Arty  
 IC-47809 Shashangan Nambiar, EME  
 IC-47810 Harjinder Singh, Inf  
 IC-47811 Sanjay Sitanshu, EME  
 IC-47812 Bhajan Singh Bisht, Inf  
 IC-47814 Vivek Nair, AC  
 IC-47815 Rajiv Ram Chandra Shinde, Arty  
 IC-47817 Rajesh Kumar Singh, Arty  
 IC-47818 Surender Mohan, Inf  
 IC-47819 Alok Kumar Singh, Arty  
 IC-47820 Dinesh Singh, Int  
 IC-47821 Jaswant Singh Dhaliwal, Inf  
 IC-47822 Madhubal B, Sigs  
 IC-47823 Vijay Kumar, AOC  
 IC-47824 Santosh Kumar Singh, AOC  
 IC-47825 Vikas Vohra, Inf  
 IC-47826 Lokesh Chandra, Arty  
 IC-47827 Nagender Pal Singh, Inf  
 IC-47828 Atul Shah, Inf  
 IC-47829 Brajendra Singh, EME  
 IC-47830 Rajesh Khokhar, Engrs  
 IC-47831 Ashok Kumar Verma, Inf  
 IC-47832 Sanjay Rawal, Engrs  
 IC-47833 Sukhminder Singh, Arty  
 IC-47834 Davinder Singh, AC  
 IC-47835 Sarabjeet Singh Bhinder, Mech Inf  
 IC-47836 Sandeep Kumar Yadav, ASC  
 IC-47837 Paramjit Singh, Int  
 IC-47838 Kuldip Singh Uppal, Arty  
 IC-47839 Anil Duhoon, Inf  
 IC-47840 Jaideep Sharma, ASC  
 IC-47841 Jai Deep Puri, ASC  
 IC-47842 Anil Kumar, Engrs  
 IC-47843 Ravinder Singh, Arty  
 IC-47844 Alok Naresh, Inf  
 IC-47845 PA Chacko, EME  
 IC-47846 Gurinder Singh, Inf  
 IC-47847 Ajay Mehta, Sigs  
 IC-47848 Deovrat Pagay, AC  
 IC-47849 Clarence Alforonso Gragory Carvalho, Inf  
 IC-47850 Vipam Bhatia, Int  
 IC-47852 Ratan Shrivastava, AOC  
 IC-47853 Devender Singh Rawat, Inf  
 IC-47854 Pravin Kumar, Inf  
 IC-47856 Pravin Chandra Naithani, Int  
 IC-47858 Pradyumna Singh Yadav, Inf  
 IC-47859 Sameer Bhatia, Engrs  
 IC-47860 Ranbir Seth, Arty  
 IC-47861 Deepak Vashisht, Inf  
 IC-47862 Vijay Kumar, Arty  
 IC-47863 Gupta Sumil Parmeshwar, Arty  
 IC-47865 Tejvir Singh Kadian, Inf  
 IC-47866 Jaideep Phansalkar, Arty  
 IC-47867 Suresh Babu P, Inf  
 IC-47868 Virendra Singh Bhandari, Engrs  
 IC-47869 Raju Wallia, ASC  
 IC-47871 Sushil Kumar Nehru, AOC  
 IC-47872 Gour Chandra Dey, Arty  
 IC-47873 Muni Krishanan Mani Raj, Inf  
 IC-47875 Jose NT, AOC  
 IC-47876 Harpal Singh Grewal, Sigs  
 IC-47877 Suresh Kumar Nara, Inf  
 IC-47878 Satyan Bhatia, Inf  
 IC-47879 Prithipal Singh, Inf  
 IC-47880 Ranjan Kumar Sikdar, Sigs  
 IC-47881 Pankaj Sharma, Art  
 IC-47882 Anil Kumar Joshi, Inf  
 IC-47883 B Srihari, ADA  
 IC-47884 Gokhale Sanjay Balkrishna, Engrs  
 IC-47885 Hari Krishan Rana, ASC  
 IC-47886 Rana Pratap Singh, ASC  
 IC-47887 V Peter Christopher, Inf  
 IC-47889 Bhupendra Singh Shekhawat, Inf

IC-47892 Rakesh Sharma, EME	IC-47938 Raj Kumar Sharma, Engrs
IC-47893 Sudhanshu Chaturvedi, Arty	IC-47939 Sanjay Gangwar, EME
IC-47894 Choranjit Singh Gill, ASC	IC-47941 Rajesh Kumar Jindal, Engrs
IC-47895 Debaashis Das, Inf.	IC-47942 Krishna Prasad NG, EME
IC-47896 Sandeep Misra, AC	IC-47943 Bajpai Sanjeev Vishnu Kr, Engrs
IC-47897 Vishwanath, Inf	IC-47944 Anil Kumar Chaube, Engrs
IC-47898 Rishi Chauhan, EME	IC-47945 Shashi Pal Singh, EME
IC-47900 Sanjay Kumar Jha, ASC	IC-47946 Alok Kumar Chaubey, Engrs
IC-47901 Arnit Khosla, Engrs	IC-47947 Gurpreet Singh Jaswal, Engrs
IC-47902 Lhaku Tshering Sherpa, Inf	IC-47949 V Satish Kumar Reddy, Engrs
IC-47903 Sudhanshu Ranjan Mishra, Arty	IC-47950 Sunil Kumar, Engrs
IC-47904 Raman Kumar Sharma, Arty	IC-47951 V Mani Vannan, Sigs
IC-47905 Satish Kumar Tehlan, AOC	IC-47952 Piyush Krishna, Sigs
IC-47906 Arun Karadi, Int	IC-47953 Sajjan Kumar S, Engrs
IC-47907 Jalaj Bhargava, Arty	IC-47954 Amrit Lal, Sigs
IC-47909 Birender Singh Dalal, Inf	IC-47955 Wajihur Rehman Khan, EME
IC-47910 Sunil Kumar, Inf	IC-47956 Praveen Kumar Shrivastava, Engrs
IC-47911 Neelotpal Mukherjee, Engrs	IC-47957 Manoj Kumar Prasad, Engrs
IC-47913 Y Jagadeeswara Rao, Int	IC-47959 Brijendra Singh Chauhan, Engrs
IC-47914 Sharad Bhargava, Inf	IC-47960 Dhiraj Mohan, Engrs
IC-47915 Ravi Lal Thapa, Int	IC-47961 Sunil Kumar Deo, Engrs
IC-47916 Bimal Kumar Jaggi, Sigs	IC-47962 Pramod Kumar G Mishra, Engrs
IC-47917 Gopal Katoch, Inf	IC-47963 Prabhakar Appajirao Dalawai, Engrs
IC-47918 Ashutosh Bahugana, Inf	IC-47964 Mehta Darshan Bipin, Engrs
IC-47919 Navneet Kumar Dahiya, Arty	IC-47966 Jai Krishan Chawla, Sigs
IC-47920 Daleep Kumar Singh Chouhan, AC	IC-47967 R Venkateswara Rao, Engrs
IC-47921 Prem Jeet Singh, Arty	IC-47970 Ravinder Singh, Engrs
IC-47922 Parmod Mamtany, Inf	IC-47971 Radkar Gajanan Sonopant, EME
IC-47924 Kedar Shukla, AOC	IC-47972 Sunil Kumar, Engrs
IC-47925 Tejinder Singh, Inf	IC-47973 Chandra Mohan Dua, Engrs
IC-47926 Surendra Shivrana, Int	IC-47975 Ish Kumar Khurana, Engrs
IC-47927 Dondapati Sudhakara Rao, Inf	IC-47976 Narendra Kumar, Sigs
IC-47928 Sudhir Bugalia, AC	IC-47977 Vinod Huilgol, EME
IC-47930 G Rajshekhar, EME	IC-47978 Vaddisatya Venu Gopal, Engrs
IC-47931 Satwinder Pal Singh Cheema, AOC	IC-47979 Padam Singh Rana, EME
IC-47932 Shailendra Shekhar Mehta, Arty	IC-47980 Onkar Pal Singh, Engrs
IC-47933 Rajeev Singh, Sigs	IC-47981 Utpal Kumar Sarma, EME
IC-47935 Gurpreet Singh Bedi, Mech Inf	IC-47982 Alok Kinra, EME
IC-47936 Mudumbai Balaji Sampath, Inf	IC-47984 Sanjeev Kumar, Engrs
IC-47937 Sanjay Kashyap, ASC	IC-47985 Abraham T Mathew, Engrs

IC-47987 Subodh Kumar Tomer, Engrs	IC-48033 Manoj Kumar Jain, Engrs
IC-47988 Brahm Sharan Srivastava, Sigs	IC-48034 Naval Bhutani, EME
IC-47990 Subroto Ganguly, EME	IC-48035 Prakash Narain Chand, Engrs
IC-47992 Suresh Kumar Gigoo, EME	IC-48036 Salil Tandon, EME
IC-47993 Shyam Sundar Kamath, EME	IC-48037 Karanam Venkateswara Prasad, Engrs
IC-47994 Jagabathula Kameswara Rao, Engrs	IC-48038 Jagdish Prasad, Engrs
IC-47995 Pranav Kumar Shrivastava, EME	IC-48039 Ram Krishna Tiwari, Engrs
IC-47996 Ashutosh Mishra, Engrs	IC-48040 Sekhar A, AEC
IC-47997 Antony AK, EME	IC-48041 Dinesh Kumar Sharma, Engrs
IC-47998 Arun Kumar Aggarwal, Engrs	IC-48042 Rajeev Sachdeva, Engrs
IC-47999 Sandeep Bhalla, EME	IC-48044 Sukriti Singh Dahiya, Engrs
IC-48000 Uma Kanta Behera, Sigs	IC-48045 Pavandeep Singh Chadha, Engrs
IC-48001 Shailesh Prakash Srivastava, Sigs	IC-48046 Rajesh Pushkar, AC
IC-48002 Ajay Pathak, EME	IC-48047 Sunil Kumar Yadav, AC
IC-48006 Sanjeev Gupta, Engrs	IC-48049 Daljit Singh, Mech Inf
IC-48007 Brajesh Kumar, Engrs	IC-48050 Vipul Shinghal, AC
IC-48008 Ram Bihari Singh, Engrs	IC-48051 Saurabh Tewari, Sigs
IC-48009 Giridhar, Engrs	IC-48052 Jaswant Singh Nayal, Mech Inf
IC-48010 Sameer Misra, Sigs	IC-48054 Manoj Nair, Arty
IC-48011 Shashank Sihorkar, Engrs	IC-48056 Vimal Kumar Tripathi, Arty
IC-48013 Rakesh Bhangalia, Engrs	IC-48057 Brijesh Datta, Sigs
IC-48014 Vijay Kumar Sharma, AEC	IC-48058 Sameer Kumar Singh Chauhan, Inf
IC-48015 Venugopal T, Engrs	IC-48059 Arjun Singh Guleria, Arty
IC-48016 Deepak Tukaram Deore, Engrs	IC-48060 Deepak Ahuja, AOC
IC-48017 Rajesh Kumar, AEC	IC-48061 Sudhanwa Atre, Inf
IC-48018 Hari Prasad B, EME	IC-48063 Ajay Ramakrishnan, Inf
IC-48019 Om Bihari Shrivastav, EME	IC-48064 Virender Kumar, Inf
IC-48020 Thennarasu C, Engrs	IC-48065 Jitendra Tripathi, Sigs
IC-48021 Basavaraj Patil, Engrs	IC-48066 Vijay Kumar Madian, Inf
IC-48022 Shiv Kumar Katara, Engrs	IC-48067 Rashim Bali, Inf
IC-48023 Pradeep Kumar Lohumi, Engrs	IC-48068 Charan Kanwar Singh Ahluwalia, AVN
IC-48024 Veerendra Patny, Engrs	IC-48069 Ravinder Singh Gill, Inf
IC-48025 Menda Narayana Rao, Engrs	IC-48071 Jeetendra Ohri, Arty
IC-48026 Vadla Madduleti Swamy, Sigs	IC-48072 N Selva Kumar, EME
IC-48027 Ajay Kumar Dass, EME	IC-48073 Rahul R Singh, Arty
IC-48028 Prakash Narahari, AEC	IC-48074 Harmindera Singh Gill, AOC
IC-48029 Krishan Kumar VG, Engrs	IC-48075 Raminder Singh Sethi, Arty
IC-48030 Sreekumar R, Engrs	IC-48076 K Jayachandran, Inf
IC-48031 Lalit Nanda, Sigs	IC-48077 Dhirendra Kumar Gautam, Inf
IC-48032 Vijay Kumar Dubey, Engrs	IC-48078 Inder Mohan Singh Parmar, Inf

IC-48079 Arvind Sirohi, AC	IC-48128 Ajay Sethi, Inf
IC-48080 Hemraj Singh Parmar, Arty	IC-48130 Virender Singh Malik, Arty
IC-48081 Rajive Kumar, EME	IC-48131 Karun Jit, Ohri, AC
IC-48082 Harsh Chhibber, ASC	IC-48132 Rupendra Singh, Inf
IC-48083 Vivek Dogra, Sigs	IC-48133 Rakesh Naurla, EME
IC-48084 Gunter Ganesh, Inf	IC-48134 Naresh Chandra, AOC
IC-48085 Manish Mohan Erry, Inf	IC-48135 Prem Singh Jakhar, AC
IC-48086 Mahendra Singh, AOC	IC-48136 Vijay Kumar Sharma, Arty
IC-48087 Sandeep Puri, Inf	IC-48137 Pramit Saxena, Inf.
IC-48088 Sanjeev Kumar, EME	IC-48139 Sushil Kapoor, ADA
IC-48089 D Srinivasa Murty, Inf	IC-48140 Vakada Lakshman, Arty
IC-48091 Jagdeep Singh Cheema, Arty	IC-48141 Shailendra Uttam, Arty
IC-48092 Jyotir Maya Bahadur Sony Thapa, ASC	IC-48142 S Madhu, Arty
IC-48093 Sukumar Vinod, Inf	IC-48143 Dinesh Singh, Inf
IC-48094 Kirti Vardhan Jauhar, AC	IC-48144 Kishore Malhotra, Inf
IC-48095 Pawanjeet Singh Herr, Inf	IC-48145 Gopal Verma, Int
IC-48096 Ranjit Singh Ghumman, Inf	IC-48146 Suneet Kumar Swami, ASC
IC-48097 Dinesh Hooda, Inf	IC-48148 Madan Krishana Sawant, AOC
IC-48098 Devendra Kumar Yadav, Inf	IC-48150 Barnabas Parvez Rafi, EME
IC-48099 Pieush Agarwal, Arty	IC-48151 Aryendra Sharma, Inf
IC-48100 Yashvir Singh Rangi, Inf	IC-48152 Bhaskaran Sunil Kumar Mahadevan, AC
IC-48102 Deepak Bakshi, Inf	IC-48154 Sanjay Shamrao Patil, Inf
IC-48104 Suresh Ramanathan, Engrs	IC-48155 Vipin Varma, Sigs
IC-48105 Sandeep Sud, AOC	IC-48156 Prem Kumar Mishra, Arty
IC-48107 Punit Mehta, Arty	IC-48158 Sandeep Chandra Joshi, ASC
IC-48108 P Rajagopalan, Inf	IC-48159 Sharad Kumar Srivastav, Arty
IC-48110 Paramjit Singh Gill, EME	IC-48160 Gaurav Chhibber, AOC
IC-48111 Rajt Veer, Sigs	IC-48161 Bhushan Mehta, Inf
IC-48113 Ashish Ahluwalia, AOC	IC-48163 Navdeep Singh Brar, Inf
IC-48114 Shakotai Karan Sampath, EME	IC-48165 Sandeep Kapur, Engrs
IC-48117 Girish J Lal, Arty	IC-48167 Vinayak Shankar Supekar, Arty
IC-48118 Praveen Kamar Airy, Inf	IC-48168 Nandkishore Sahebrao Jadhav, Arty
IC-48119 Shailendra Singh, AC	IC-48169 Lokesh Sawhney, Arty
IC-48120 Virendra Vats, Inf	IC-48170 Anand P Balraj, Inf
IC-48121 Kulbir Singh Dudi, Inf	IC-48172 Sandeep Gupta, EME
IC-48122 Vignesh Mahanti, Engrs	IC-48173 Munish Narad, Sigs
IC-48123 CM Sini Achan, AOC	IC-48174 Tripurari Kumar Singh, ASC
IC-48124 Chavan Vinayak Vishnu, ASC	IC-48175 Rajeshwar Singh Gill, Inf
IC-48126 Atul Sethi, Sigs	IC-48176 Peyush Joshi, AOC
IC-48127 Rajeev Subramanyam Athreye, Arty	IC-48177 Vikas Kolhe, ASC

IC-48178 Yogeshwar Singh Katoch, Inf	IC-48228 Pankaj Chaturvedi, AOC
IC-48179 Dinesh Singh Dod, Inf	IC-48229 Neelu Arya, Inf
IC-48180 Koj Tari, Inf	IC-48231 Vinay Khosla, Inf
IC-48181 Sanjiv Kumar Bakshi, ASC	IC-48232 Aseem Tandon, Inf
IC-48182 Paramjit Singhs Dahiya, AC	IC-48234 Rohit Lowe, Arty
IC-48183 Rajesh Sachdev, Inf	IC-48235 Eldy P Elias, ASC
IC-48185 Om Prakash Gathwala, Inf	IC-48236 Manda Chandrasekhar, Arty
IC-48186 Diwan Singh, Inf	IC-48237 E Govind, Arty
IC-48187 V Jayaprakash, Arty	IC-48238 Jitender Singh, ASC
IC-48188 Iqbal Singh, Arty	IC-48239 Anil Singh Chandel, AOC
IC-48189 Garinder Singh Dhillon, Inf	IC-48240 Manoj Shrivastava, Mech Inf
IC-48190 Pawan Kumar Singh, Inf	IC-48241 Rajesh Kumar Sharma, Inf
IC-48191 Ravindra Kumar Verma, EME	IC-48243 Ajay Sud, Arty
IC-48193 Kapil Bahuguna, ASC	IC-48244 Natarajan Subramanian, AC
IC-48194 Sudhir Sharad Kanvinde, AOC	IC-48245 Karan Mahajan, Inf
IC-48195 Sanjay S, Inf	IC-48246 Anupam Nagar, AOC
IC-48196 Vijaydeep Singh, Inf	IC-48247 Rajkaran Singh, Inf
IC-48197 Guginderpal Singh Gill, Inf	IC-48248 Hunny Bakshi, Int
IC-48198 Lalit Agnihotri, Arty	IC-48249 Prathipa Kumar MK, Engrs
IC-48199 Ajay Pal Singh, Arty	IC-48250 Chhatwal Mohinderjit Singh, Inf
IC-48200 Sanjay Solenkey, Inf	IC-48251 Kamaldish Chaturvedi, EME
IC-48201 Pawan Kumar Batra, Inf	IC-48252 Arnab Banerjee, ASC
IC-48202 Deepak Kumar Sharma, Inf	IC-48255 Kalush Bhatia, Sigs
IC-48203 Munendra Singh, Sigs	IC-48256 Rajesh Negi, Inf
IC-48204 Murada Vishal Mohanlal, ASC	IC-48257 Ramandip Singh Bhatia, AOC
IC-48205 Yash Paul Sharma, ASC	IC-48258 Vinod Balkrishna Shrikhande, Inf
IC-48207 Subir Nag, ADA	IC-48261 Harison Verma, Arty
IC-48208 Ajay Kumar, Mech Inf	IC-48262 Arun Suryavanshy, Inf
IC-48209 Pankaj Chib, Int	IC-48263 Pankaj Sharma, Arty
IC-48210 Rajeev Kumar, Inf	IC-48264 Prashant Sharadchandra Deshpande, AC
IC-48211 Ravi Sethi, Inf	IC-48265 PV Ramchandran Menon, Inf
IC-48213 Davinder Jit Singh, Arty	IC-48266 Sushil Mann, Inf
IC-48214 Sudhir Hans, Inf	IC-48267 P Jai Govind, Arty
IC-48216 Ajay Pasbola, Inf	IC-48268 Praveen Yadav, Engrs
IC-48219 Vinod T Mathew, Inf	IC-48269 Vivek Srivastav, EME
IC-48221 Rakesh D Jindey, EME	IC-48270 Sanjeev Khanna, AC
IC-48223 Vinay Sharma, Arty	IC-48271 Kamlendra Singh Bhati, Inf
IC-48224 Sanjay Chadha, Sigs	IC-48272 Leihaothabam Manao Sharma, Inf
IC-48225 Raj Kumar Singh, Inf	IC-48273 Sandeep Singh, Arty
IC-48227 Rajive Sinha, Arty	IC-48274 Atul Saxena, ADA

IC-48275 Rajiv Chauhan, Inf	IC-48318 Atul Chopra, Arty
IC-48276 Pankaj Narayan, Sigs	IC-48319 Rishi Kapoor, Inf
IC-48277 Harpal Singh Sirohi, Inf	IC-48320 Sandeep Sood, Arty
IC-48278 J Henary Robert, Inf	IC-48321 Gurkirpal Singh, Inf
IC-48280 Sukhman Singh, Inf	IC-48322 Vikram Taneja, AOC
IC-48281 Dheeraj Upadhyaya, EME	IC-48324 Indrajeet Kumar, AC
IC-48282 Tek Chand Malhotra, Inf	IC-48325 Vyas Dev Gulati, EME
IC-48283 Gurwant Jit Singh Baghiana, Inf	IC-48326 Ashish Pradhan, AOC
IC-48284 Anand Saxena, Arty	IC-48327 Rajeev Rawat, Inf
IC-48285 Sumit Purty, Arty	IC-48328 Raghu Vir, Arty
IC-48286 Amit Dangwal, EME	IC-48330 Ravi Raman Bashyam, Engrs
IC-48287 Kilaru Suresh Kumar, Inf	IC-48331 Narendra Kumar Shukla, Inf
IC-48288 Subir Kumar Singh, Inf	IC-48333 Shaikat Roy, Arty
IC-48289 Tarun Kumar Jha, Sigs	IC-48335 Manu Solankey, Inf
IC-48290 Gurucharan Singh Virdi, Inf	IC-48336 Anivilla Venkata Subramaniam, Sigs
IC-48291 Neeraj Arora, Arty	IC-48337 Rajan Khanuja, Inf
IC-48292 Yogesh Solanki, AOC	IC-48338 Rohit Sawhney, Inf
IC-48293 Parvinder Singh Bedi, Arty	IC-48339 Deepak Pandey, EME
IC-48294 Swapan Kumar Chakravartty, Inf	IC-48340 Kuljeet Singh Jawanda, Arty
IC-48295 Sudhanshu Kumar, ASC	IC-48342 Durga Lal Regar, Inf
IC-48296 Bahadur Singh, Inf	IC-48343 Harsh Khanna, ADA
IC-48297 Ashok Kumar Sharma, Arty	IC-48344 Chandra Bhan, Engrs
IC-48299 Vishal S Mathur, AC	IC-48345 Praveen Kumar Singh, Inf
IC-48300 Sunit Mehrotra, Sigs	IC-48347 Upkar Krishan Sharma, Arty
IC-48301 Vipin Cuccria, Inf	IC-48348 Harsh Kala, Arty
IC-48302 Pushpinder Singh, Inf	IC-48349 Sandeep Bhatia, EME
IC-48303 Arun Sharma, ASC	IC-48350 Sudhir Jee Sharma, ASC
IC-48304 Kanwaljit Singh Nurpuri, Arty	IC-48351 Harjinder Singh Cheema, Inf
IC-48305 Gopal Singh Rana, Inf	IC-48353 Sundhir Kumar Singh, Inf
IC-48306 Jagdish Singh, AC	IC-48354 Hira Lal Bhattacharya, EME
IC-48307 Pradeep Singh Sodhi, Engrs	IC-48355 Amit Kumar Chatterjee, Inf
IC-48308 Sukhminder Singh, Inf	IC-48356 Dharmendra Singh Parmar, Inf
IC-48309 Varun Shamshere Malla, Arty	IC-48357 Raghunath R Kulkarni, Inf
IC-48310 Balkaran Singh, ASC	IC-48359 Shailesh Gaur, ASC
IC-48312 Sanjay Vig, Arty	IC-48360 Shoibal Chatterji, Sigs
IC-48313 Jitender Kumar Passan, AC	IC-48361 Virender Singh Slathia, Int
IC-48314 Jaideep Singh Chhina, Inf	IC-48362 Rajesh Sharma, EME
IC-48315 Mohan Lal Sharma, ASC	IC-48363 Kanwal Bir Singh Shina, Arty
IC-48316 Harmanjit Singh, Int	IC-48364 Sumesh Seth, Arty
IC-48317 Kiran Gode, Arty	IC-48365 Samir Rawat, AC

- IC-48366 Ravinder Singh Matharu, Inf  
IC-48367 Pankaj Mishra, Int  
IC-48368 Arun Kumar Jha, Inf  
IC-48369 Sanjay Sajjanhar, Sigs  
IC-48370 Sandeep Karnwal, Sigs  
IC-48371 Darshan Singh, Inf  
IC-48372 P Sreekumar, ADA  
IC-48373 Ravinder Kumar Paliwal, AC  
IC-48375 Akshaya Kumar Yadav, Inf  
IC-48376 Manjit Singh, ASC  
IC-48377 Ashit Bajpai, Inf  
IC-48378 Daljeet Singh Ahlawat, Inf  
IC-48379 Puninder Singh Dhillon, Inf  
IC-48380 Deepak Dadhwal, Inf  
IC-48381 Jim James, EME  
IC-48383 Sandeep Yadav, AOC  
IC-48384 Jojo Mathews, Inf  
IC-48385 Yog Raj Pathak, Inf  
IC-48386 Prit Pal Chandel, Engrs  
IC-48387 Divakara Naidu SK, Inf  
IC-48389 Harjeet Singh Sahi, Inf  
IC-48390 Anish Shrivastava, ASC  
IC-48391 Manpreet Singh, AC  
IC-48393 Jasminder S Sekhon, Arty  
IC-48394 Milan Mathur, Inf  
IC-48395 Shyam Lal Sharma, Arty  
IC-48396 Rabi Mukerjee, Arty  
IC-48398 Guman Singh Bhati, AC  
IC-48399 Rajiv Gautam, Inf  
IC-48401 Vinod Rawat, ASC  
IC-48403 Vivek Kumar, Engrs  
IC-48404 Jyoti Prakash Pandey, Arty  
IC-48405 Sanjay Wadhwa, AC  
IC-48406 Rana Banerjee, Engrs  
IC-48407 Vijay Pathania, Inf  
IC-48408 Shobit Bahadur KC, Inf  
IC-48409 Saumitra, Sigs  
IC-48410 Udayan Mukherjee, Arty  
IC-48411 Anurag Nautiyal, Int  
IC-48412 Vinod Kumar Adukia, ADA  
IC-48414 Rajni Kant Srivastav, Inf  
IC-48415 Rajesh Kumar, Inf  
IC-48416 Lalit Mohan Jha, Sigs  
IC-48417 R Venkataraman, Inf  
IC-48418 Vimal Kumar Kohli, AOC  
IC-48419 Sanjay Malik, Inf  
IC-48420 Naveen Kumar Bisaria, ASC  
IC-48422 Kapil Bhama, Inf  
IC-48423 Shivaji Damodar Patil, Arty  
IC-48424 Bharat Singh, AOC  
IC-48425 Pratyush Sharan, EME,  
IC-48426 Rajiv Tewari, Arty  
IC-48427 Arivind Walia, Engrs  
IC-48428 Rattanbir Singh, AEC  
IC-48429 Gyanendra Pratap Singh, EME  
IC-48431 Simanta Sekhar Das, Engrs  
IC-48432 Sunil Bhatia, EME  
IC-48433 Vikram Singh, Engrs  
IC-48434 Rajashekharan P, EME  
IC-48435 Mukesh Kumar, Engrs  
IC-48436 Alok Punj Rai, Engrs  
IC-48437 Gopal Chandra Samanta, EME  
IC-48438 Prasanna PS, Engrs  
IC-48439 Bhaskar Mukherjee, Sigs  
IC-48440 Ashit Mahapatra, EME  
IC-48441 Jayachandran T, Sigs  
IC-48442 Joy K, Engrs  
IC-48443 Virendra Kumar Agarwal, Engrs  
IC-48444 Anand Kumar KV, EME  
IC-48445 Gopal Krishan Pandita, Engrs  
IC-48446 Sunil B Moharil, Engrs  
IC-48447 P Balasubramanian, Sigs  
IC-48448 Prasad PK, Engrs  
IC-48449 Manoj Bhatnagar, Engrs  
IC-48450 Yellanki S Sankara Rao, Engrs  
IC-48451 Sunit Vijh, EME  
IC-48453 Shiv Darshan Joshi, Engrs  
IC-48454 Deepak Kumar, Engrs  
IC-48455 Vinay Taneja, Engrs  
IC-48457 Anil Jotwani, Sigs

IC-48458 Saju Thomas, EME  
 IC-48460 Feroz Bashir Ahmed Karlekar, Engrs  
 IC-48461 Kodaru Srinadha Babu, EME  
 IC-48462 Raja Gopal S, Engrs  
 IC-48464 Nardeep Singh Anand, EME  
 IC-48465 Karra Sudhir Kumar Reginald, Engrs  
 IC-48466 Krishna Kant Anant Kawlay, Engrs  
 IC-48468 Love Kumar Sharma, Engrs  
 IC-48469 Neeraj Sharma, Engrs  
 IC-48470 Sudarsana Kumar B, Engrs  
 IC-48472 Kasula Prasad Kumar, Sigs  
 IC-48473 Kapil Kumar Kapoor, EME  
 IC-48474 Kalu Ram Verma, EME  
 IC-48475 Mrunmaya Mishra, Engrs  
 IC-48476 Kshirod Kumar Nayak, Sigs  
 IC-48477 Kiron Beer Marwaha, EME  
 IC-48478 Mahesh Chander Bhardwaj, EME  
 IC-48480 Shashidhar MB, Engrs  
 IC-48481 Avinash C Puri, Engrs  
 IC-48482 Manjunath BT, Engrs  
 IC-48483 Ashutosh Yadav, Engrs  
 IC-48484 Shahid Shabbar, EME  
 IC-48485 Kapur Sanjeev Sudarshan, EME  
 IC-48486 Vijay Kumar, Sigs  
 IC-48487 Umesh G, Engrs  
 IC-48488 Vipin Kumar Nijhawan, AEC  
 IC-48489 Mohan Chander Bahugana, Sigs  
 IC-48490 Nitin Kumar Tewari, Sigs  
 IC-48491 Rajveer Singh, AEC  
 IC-48492 Anil Kumar Batta, Sigs  
 IC-48494 Ajit Kumar V, Engrs  
 IC-48495 Rajesh Kumar Choudhary, Sigs  
 IC-48497 Srinivasa Moorthy Sridhar, AEC  
 IC-48498 Ananta Prasad Mishra, EME  
 IC-48499 Sanjay Kumar, Engrs  
 IC-48500 Gyan Veer, Engrs  
 IC-48501 Sunil Abraham, Engrs  
 IC-48502 Anil Singh, Engrs  
 IC-48505 P Nallathambi, Engrs  
 IC-48506 Dinesh Kumar Gupta, AEC

IC-48507 Purvimath Dundayya, Engrs  
 IC-48508 Raghu Malali, Engrs  
 IC-48509 MVL Narasimha Rao, Engrs

—16 Dec 2004

AJAY GOEL  
 Dy. Dir.  
 MS 8-C

## ARMY BRANCH

No. 417, dated 25th July 2005.—The President is pleased to retire the undermentioned officers on attaining the age of superannuation as indicated against each :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt Gen BN Shahi, PVSM, AVSM, VSM (MR-02562W)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Lt Gen AK Lahiri, VSM (MR-02224Y)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Maj Gen PS Valdiya (MR-02629K)/AMC/PC—29 Feb 2004 (AN)

Maj Gen NK Manchanda (MR-03897A)/AMC/PC—31 Mar 2004 (AN)

Maj Gen BN Borgohain (MR-02862X)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Brig CV Koshy (MR-02272Y)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Brig PP Saini (MR-02699H)/AMC/PC—31 Mar 2004 (AN)

Col MS Shandil (MR-02465Y)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Col AS Kandalla (MR-03266X)/AMC/PC—29 Feb 2004 (AN)

Col TC De (MR-02900H)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Col M Mohanty (MR-02990P)/AMC/PC—29 Feb 2004 (AN)

Lt Col G Chand (MR-03317A)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Lt Col MR Das (MR-03606P)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Lt Col MM Borcar (MR-03474M)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Lt Col VM Uppal (MR-03768A)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)

Lt Col SK Panda (MR-04933M)/AMC/PC—31 Mar 2004 (AN)

Lt Col SC Sharma (NTR-16497M)/AMC/PC—31 Jan 2004 (AN)



Lt Gen SP Kalra, AVSM \*\* (MR-02094F)/AMC/PC—31 Aug 2004 (AN)

Brig NK Nandi (MR-03002W)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Brig Ramesh Kumar (MR-02695M)/AMC/PC—31 Aug 2004 (AN)

Col MM Punetha (MR-02581F)/AMC/PC—30 Sep 2004 (AN)

Col NS Telang (MR-03514H)/AMC/PC—31 Aug 2004 (AN)

Lt Col HC Vishwakarma (MR-02676F)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Lt Col AK Chugh (MR-02980L)/AMC/PC—30 Sep 2004 (AN)

Lt Col KA Rao (MR-04685F)/AMC/PC—30 Sep 2004 (AN)

Lt Col Asok Saha (MR-04462K)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Lt Col RK Goswami (MR-04551H)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Lt Col CK Umashankar (MR-03026A)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Lt Col SK Kapoor (MR-03027H)/AMC/PC—31 Aug 2004 (AN)

Lt Col Abdul Haleem (MR-03825W)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Lt Col P Chaudhuri (MR-03826Y)/AMC/PC—30 Sep 2004 (AN)

Lt Col UN Mohanta (MR-04470H)/AMC/PC—31 Jul 2004 (AN)

Lt Col (Mrs) K Sikdar (MR-07037K)/AMC/PC—30 Sep 2004 (AN)

Maj Gen T Rai (MR-02556H)/AMC/PC—31 May 2004 (AN)

Maj Gen RT Awasthi (MR-02915L)/AMC/PC—30 Apr 2004 (AN)

Maj Gen SR Karntikar (MR-02929L)/AMC/PC—30 Jun 2004 (AN)

Brig SC Dua (MR-02274K)/AMC/PC—30 Apr 2004 (AN)

Col SK Suri (MR-02870W)/AMC/PC—30 Apr 2004 (AN)

Col BP Singh (MR-04212H)/AMC/PC—30 Jun 2004 (AN)

Col LS Kang (MR-02704H)/AMC/PC—30 Apr 2004 (AN)

Col P Ramadasan (MR-02650M)/AMC/PC—31 May 2004 (AN)

Lt Col VK Puri (MR-02835N)/AMC/PC—30 Apr 2004 (AN)

Lt Col MA Khan (MR-03491M)/AMC/PC—31 May 2004 (AN)

Lt Col S Banerjee (MR-03566Y)/AMC/PC—31 May 2004 (AN)

Lt Col AK Saxena (MR-04029A)/AMC/PC—30 Jun 2004 (AN)

SHIV KUMAR SHARMA  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

#### CORRIGENDUM

No. 418, dated 25 July 2005—In the Ministry of Defence Gazette Notification No.....dated.....published in the Gazette of India on 03 Nov 1984 under the heading, "Regular Army"—ARMY MEDICAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) SUB HEADING to be Capt against the name of PK Acharya (MR-04888L) :—

For :—14 Dec 83

(With notional seniority from 21 Sep 1983 which will have no effect on pay and allowances).

Read :—14 Dec 83

(Notional seniority wef 21 Sep 1983 without effect on pay, allowances and pension)

In Ministry of Defence Gazette Notification No.....dated.....Published in the Gazette of India on 18 Apr 1988 under the heading, "Regular Army"—ARMY MEDICAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) SUB HEADING Capt to Maj against the name of Luxmi Kant (MR-04810A) :—

For :—22 Aug 1988

Read :—22 Aug 1988

(Notional seniority wef 25 Jun 1988 without effect on pay, allowances and pension)

In Ministry of Defence Gazette Notification No.....dated.....published in the Gazette of India on 29 Jun 1991 under the heading, "Regular Army"—ARMY MEDICAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) SUB HEADING Capt to Maj against the name of PK Acharya (MR-04888L) :—

For :—04 Feb 1989

Read :—04 Feb 1989

(Notional seniority wef 21 Sep 1988 without effect on pay, allowances and pension)

In Ministry of Defence Gazette Notification No.....Dated.....Published in the Gazette of India on 25 Jul 1998 under the heading, "Regular Army"—ARMY MEDICAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) SUB

HEADING Maj to Lt Col against the name of PK Acharya  
(MR-04888L) :—

For :— 14 Dec 1997

Read :— 14 Dec 1997

(Notional seniority wef 21 Sep 1997 without effect on pay,  
allowances and pension)

In Ministry of Defence Gazette Notification  
No.....dated.....published in the Gazette of India  
on 05 Sep 1998 under the heading, "Regular Army"—ARMY

MEDICAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) SUB  
HEADING Maj to Lt Col against the name of Luxmi Kant  
(MR-04810A) :—

For :— 22 Aug 1997

Read :— 22 Aug 1997

(Notional seniority wef 25 Jun 1997 without effect on  
pay, allowances and pension)

SHIV KUMAR SHARMA  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005.